

पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक
५५	अधमा प्रतिमा	५६	अभेद दर्शन
५८	अविज्ञा	५९	असतो
६०	अमन्यमानः	६०	असंमानात्तपो
६३	अन्तः शीतलता	६५	अनित्या शुचि
६९	असुर्यानाम	६९	अनादिनिधनम्
६९	अदीक्षिताये	७१	अद्वयजातायथा
७३	अपकारिणे	७५	अहसा, मत्या
७८	अच्छेदाद्	९०	अत्यन्त मतिर्वेधावी
९२	अगुप्त मात्रऽ	९२	अंगुष्ठ मात्र पुरुषो
१०७	अलावुद्रारुपात्र	१०८	अग्निर्देवो
१०८	अशवायापिपासे	११४	अश्वालभं
११६	अत्रिःचतुर्विधो	११७	अभ्युत्थानं
११९	अदुष्टा पतितं	१२२	अपमाने च वृते
१२२	अज्ञानात् कृतयेन्	१२८	अयमात्मा मुने
१२८	अश्वमेधस्य	१०४	अन्यश्चेन्न
४१	अहं सर्वेषु		

पहिला भाग

आ

१३ आप दधे धनं रक्षे

१४ आतुरे व्यसने प्राप्ते

५२ आसद्देपाद्मनोन्मृत्युः

५४ आत्मवर्गं परित्यज्य

७० आरगा पराभ-सुक्ष्मस्य	१९२ आपद काले मित्र परीक्षा
२० आचार गुण माख्याति	३० आलस्यो पदता विद्या
८५ आहार निद्रा	२५ आयुः कर्म च वित्तं

दूसरा भाग

आ

८ आज्ञा भंगो नरेन्द्राणां	३८ आत तावी न मायांते
५ आत्मबुद्धि सुखायैव	२२ आपायायेदासास्तेदा
४५ आश्रमांद	४९ आत्मा प्रकाशक
६३ आत्मानं	६७ आशान्वरोनिः
७९ आत्मसंस्थं	८४ आत्मक्रीडा
८६ आत्मानं चेद्विजा	९७ आत्म सत्यानु
१०१ आश्रमेयतिर्यक्ष	११८ आसनं शयनं
१३९ आतुरस्य सन्यासे	

पहिला भाग

इ

६० इतिगर्त गनसः सर्वं	४२ इक्षुराणः मयोमूलम्
४५ इक्षुर्व्या स्तिला शूद्रा	

दूसरा भाग

इ

७४ इष्टा थ शक्ति	५९ इष्ट चेद वेदीदय
५१ इष्टतिष्ठतिद्व	९१ इन्द्रियेभ्यः

पृष्ठ श्लोक

पृष्ठ

श्लोक

१०९ इममगुहा

पहिला भाग

उ

२२ उद्योगेनास्ति दागिद्रम्
८९ उद्योगिनं पुरुषसिंह
१ उत्तमः चितितं कुर्यात्
७१ उत्पन्न पश्चातापश्च

२४ उपसर्गेन्य चक्रेच
९० उद्योगः कलई कण्डयु
५ उत्तमासहजा-वृत्तिः

दूसरा भाग

उ

१ उदयति यदिभानु
७ उपभोक्तुं न जानाति,
२३ उद्यमेनर्दिसिध्यान्त
७२ उःमद्यमा

२ उपदेशोहिमुखानां
१० उत्तमं स्वार्जितं मुक्तं
२३ उद्योगिनः

पहिला भाग

ए

२१ एतदर्थं कुलिनानां
२३ एकेन शुष्कवृक्षेण
२६ एकोऽपि गुणवान् पुत्रो
५३ एकवृक्षे समारूढा रात्रौनाना
७३ एकएव पदार्थस्तु त्रिधा भवति

२३ एकेनापि सुवृक्षेण
२३ एकेनापि सुपुत्रेण
२७ एकाकिना तपो द्वाभ्यां
६९ एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं
७४ एकमेवाक्षरं यस्तु

पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक
९६	एतदैतदत्तरं गार्गीव्राह्मणा	५७	एकाहारेण सन्तुष्टः
७	एकोदेवकेशवो वा शिवो		

दूसरा भाग

ए

२८	एश्वर्यस्य	३३	एकहारेण
३६	एकेसत्पुरुषाः	४२	एवंमहाश्रमे
४४	एताश्चान्या	४६	एतद्वैतनत्तरं
६१	एतवैन	६८	एकएव
१०७	एवानियत	११५	एककाल चरेत्
११६	एकदंडी त्रिदंडी		

॥ पहिला भाग

क

१९	कान्ता वियोगः स्वधनापमनो	२७	दितया क्रियते धेन्वा
२०	कस्य दोषः कुलो नास्ति	९१	कोकिलानां स्वरोरूपं
२३	को हि भारः समर्थानां	२४	किं जातैर्वद्भुभिः पुत्रैः
२६	कुपामवामः कुजहोनसेया	२९	कः कालः कानि मित्राणि
४४	क्रोधो वैवस्वनो राजा	४५	किं कुलेन विशालेन
५५	कलौ दश सद्व्राणि	५६	काम क्रोधं तथा लोभं
१७	कष्टं च मल्लु मूर्ध्नि	२५	कामधेनुगुणा विशा
३६	कुराजराज्येन कुत प्रजामुखं	५३	का दित्याममजीघने यदिहरि

पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक
६४	काष्टं कलपतरुः सुमेरु	६९	कमयितं फलंपुंसां बुद्धि
७४	कुचैलिनन्दन्तमलोपधारिणं	७७	कोऽर्यान्प्राप्यनगर्विता
७९	कितयाक्रियते लक्ष्म्या	९०	क्वचित्प्राणी प्राप्तं घटितमपि
६	कुशला ब्रह्मवार्तायां	२२	कोकिलानां स्वरोरूपं
९१	कुशला शब्द वर्तायां		

दूसरा भाग

क

११	कुपात्रदानाच्च	१३	क्वचिद्भूर्मोशार्या
२२	कलौयुगे	३१	कस्त्वं
३८	कुसंगा संग	४९	कुशला
६१	कर्मणातेन	६२	कृष्यं तमं
६४	कौपिनयुगलं	७१	कुपात्रलोक
१०४	कुलं पवित्रं	१०८	कुटुम्बं
१२०	कुर्यादां वसधं	१२३	कौपीनाच्छादनं
१२३	कौपीनाच्छादनपात्रं		

पहिला भाग

ख

७४	खलानां कंटकानाघ	९१	खरंश्वानं गजंमत्तरशङ्कां च
----	-----------------	----	----------------------------

पहिला भाग

ग

५ गंगाजलेन पक्वान्नां ,

ग

४४ गुणो भूपयने रूपं शीलं

पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक
४६	गन्धः सुवर्णे फलभिक्षुदण्डे	५५	गृहासक्त स्व नोविद्या
६६	गतेशोको न कर्तव्यो	७८	गुणाः सर्वत्र पूजयन्ते
७८	गुरौः सर्वाङ्गः तुलयोऽपि	४	गौरतेजो विनायस्तु

दूसरा भाग

ग

२४	गर्वनोद्गृहतेन	२५	गुणायन्तेदोषाः
३२	गुशब्दस्य	४०	गयाशनानांस
४२	ग्रहस्थ	६५	गवांसर्विशरीरस्थं
८८	गुञ्जापुञ्जादि	९९	गंगाजलेन
१२६	गगावासलिलं		

दूसरा भाग

घ

१०	घृतकुम्भ समानारी	२५	घृष्टं घृष्टं
११५	घृणाम् शंका		

पहिला भाग

च

३३ चला लक्ष्मी रक्षताः प्राणा

दूसरा भाग

च

३२	चन्द्रांगोपन	६१	चिगण्णि किपधिनं
----	--------------	----	-----------------

पृष्ठ श्लोक
८० चित्तं ऽयं
१२५ चन्द्रायणन्तु

पृष्ठ श्लोकं
१२१ चतुर्मास्यं

पहिला भाग

छ
७६ छिन्नोपि चंचनतरुर्न

छ
१२ छिन्त्वा पाशमपास्यकूटरचनां

पहिला भाग

ज
३३ जानता चोपनेताच
७० जलेतैलं खलेगुह्यं
९० जामातापुरुषोत्तमो
१४ जानियात्

ज
६५ जलविन्दु नियातेन
८० जन्मजन्मयदभ्यस्तं
४ जन्मन्यतरेराजन्

दूसरा भाग

ज

१७ जाऽयं ह्रमती
९८ जस्तु सर्वाणि
१०८ जानन्नपि
११३ जितादारोयवा

८७ जितेतस्मिन्
१०६ जान्वोर्ध्यं
१०९ जलक्षयचलनादेव

पहिला भाग

१६ ते पुत्रायोपितुर्भक्ता

२८ त्यजेद्दमं दयाहीनं

पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक
३१	वृषां ब्रह्मविदः स्वर्ग-	४२	तैलाभ्यंगे चिताभ्रमे
७३	तावन्मौनेननीयन्ते	७३	त्यजदुर्जनसंसर्गे भजसाधु
७५	त्यजयन्तिमित्राणित्रनेविहीनं	७५	तद्भोजनं यदद्विज मुत्तशेषं
८०	वृषालघु वृणातुलं	८३	तन्नकस्यविपदंते

दूसरा भाग

त

१९	तीक्ष्णधारेण	४१	तापसंघे
५२	तैदुर्दश गृह	५७	तरति शोक
५८	तस्ये तपोदंमः	७७	तद्यथा
७७	तत् सन्निधौ	८३	तस्य पुत्रादाय
१०५	तपः शब्देः	१०७	तिर्थानिताय
११०	तीर्थेशचयचमहे	११०	तस्माद्रा
११९	तथैव च		

पहिला भाग

द

द

१३	दुष्टा भया शठंमित्रं	२०	दुराचारी च दुर्दशि
२१	दुर्जनस्य चरार्पस्य	२५	दर्शन ध्यान संस्पर्शे
३१	दारिद्र्यनाशनं दानं	४२	दीपोभक्ष्यते ध्वान्तं
४७	दतो न संचरति	५०	दारिद्र्यताधीरतयाविराजते
५०	द्रष्टियूतंन्यसेत्पादं	५२	दुर्जनं सज्जनं कर्तुमुपायोः

पृष्ठ श्लोक

- ५४ दातृत्वं प्रियवचकृत्वं
 ५९ दाक्षिण्यं स्वजने
 ६८ देहाभिमाने नेगलिते
 ८६ दानार्थिनोमधुकरा
 २५ दर्शना दर्शनेहिस्वा
 ५८ देयं भोजघनं

पृष्ठ श्लोक

- ५८ देवद्रव्यं गुरुद्रव्यं परदाराभि
 ६७ दद्यमानाः सुतिब्रेण
 ८४ दानेनपाणीर्नतुकंकरणेन
 ९४ दोषाकरोऽपि कुटिलोपि
 २ ददतु ददतु गर्जो गालयपेतो

दुसरा भाग

६

- १६ दमन्त्यान्नुपति
 २० दैवफलति
 ५६ देहे देवालया
 ५९ देहात्म
 ६४ दंडान्मनोस्तु
 ७५ दविषयान्
 ७९ द्रष्टानुश्रियिक
 ८४ दास्नेहं देह
 ८८ द्रश्यं नास्तितो
 १०४ देवता प्रतिमा
 १०५ देहं च नश्यर
 ११७ द्वेरूपेवासुदेवस्य

- १९ देहिति वचने
 ४१ द्विषतः परकायेनां
 ५८ द्रव्यस्यागेतु
 ६३ दर्शनादर्शने
 ६४ दंष्ट्यागे
 ७९ द्वौकमी
 ८२ द्वैत्यवनास
 ८७ दर्शनादर्शनेहिस्वा
 ८९ देवाचन
 १०५ द्रश्येन मम संबंध
 ११५ द्वाविमौ
 १२४ दुर्वित्तोवासु

पहिला भाग

पृष्ठ

श्लोक। पृष्ठ

श्लोक

ध

१४ धर्मतत्परता मुखेमधुरता

२४ धर्मार्थकाम मोक्षेषु

२१ धर्माभिन्नजितस्तयः

९४ धनुगृह्णित्वौ

१०६ धर्मो रक्षति

१२८ ध्यानं मर्ध्यं

पहला भाग

न

न

७७ न ध्यानं पद्मीश्वरस्य विधि

७२ न निर्मिता केन न द्रष्टव्या

८३ नान्नादकसमंदानं नतीर्थि

८४ न दानैः शुध्यते नारो नोपवास

१५ न दीनां शस्त्र पाणिनां

१७ न विश्व मेत् कुमित्र च

१९ नदीतीरेष्व ये वृत्ता

३० निस्पृहो नाधिकारो स्या

३१ नास्तिकाम ममोठयाधी

४३ न देवो विद्यते काष्ठे

४४ निर्गुणस्य हतं रूपं

६१ न दुर्जनः साधु दशा मुपैति

५६ न वेतियोयस्य गुण प्रकर्षं

६३ न विप्र पादोदक फर्दमानि

६३ निमंत्रणोत्सवा विमा

८९ नोचा व्ययान कर्तव्यो

११ नास्ति योगं विना मिद्विध

८ न चेद्भद्रस्य सुखं कश्चि न

८४ नापितस्य गृहे क्षीरं पापाण्ये गंध

दुसरा भाग

न

६ नास्ति यज्ञो जिः

९ नायस्य च्छेष्टिनं

पृष्ठ श्लोक

१३ नभोभ्रूपापूया

२० नविषम्

२४ नविनापरवादेन

२८ नारायणे गणोरुद्रे

३२ न्यायान्निन्धनं

४८ नैनमूर्ध्वं

५४ नितः संकल्पा

५५ नाभिर्नन्दति

५८ नायनात्मा

६४ नमीतं नचोपजं

६६ नचोत्पातनिर्मिताभ्यां

७३ निवृत्तो

७३ ननिन्दान् स्तुति

७६ निप्रहीतस्य

८८ निद्राभिक्षे

९० नास्तियोगं विना

९२ न प्रायेण नपानेन

९६ नित्तुतिनि :

१०१ न वाद्य

१०३ नत्वा च

पृष्ठ श्लोक

१५ नाग्नि मुखेनोपधमेत्र

२४ नयत्नकीटि शतकौ

२६ ननित्यं लभते

२९ नालेनैधस्थिन्वा

३७ नजातु कामः

५० न मोक्षो नभसः

५४ नभाक्षो नत्रयः

५७ निरोग उपनिष्टो वा

६२ नमेवैकं जानथ

६४ निदागर्व मत्सर

७२ नदेहोन्द्रियप्राणा

१२५ न भिक्षायां

७४ न संभावेत्

८४ निमेशार्धः

८९ नाहं मनुष्यो

९० नाविरतो दुश्चरति

९५ न चक्षुषा

९७ नाकाशस्य

१०१ न नाहं मयानि

१०३ न याचते

पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक
१०९	नदोमान च	११२	नित्यकर्म
११९	न क्रिया गोत्र	१२४	निरपेक्षम् मुनि
५६	नापुत्रयाम्		

पहला भाग

प	प
१७ परोक्षे कार्यं हंतारं	१८ पुत्राश्च विविधैः शीलैः
३४ पक्षिणां काक चाण्डाल	४१ पुष्पे गंधं तिले तैलं
५८ परं कार्यं विहंता च	६५ पत्रं नैव यदा कारीरं विटपे
७० पृथिव्यां त्रिणिरत्नानि	७० पुनर्वित्तं पुनरमित्रं पुनरभार्या
७२ प्रस्तावं सद्रशं वाक्यं	७८ परप्रोक्तगुणायस्तु निर्गुणोपि
८१ पुस्तकेषु चया विद्या	८२ पितारत्ना करोयस्य
८३ पत्युराज्ञां विना नारी	८४ पादशेषं पीतशेषं राध्याशेषं
८५ परोपकरणं येषां जागरति	९१ परदारं परद्रव्यं परिवाद
९२ पादपानो भय वाता	१० प्रणबोधकः शरीर्यात्मा
२९ पतिरेव गुरु स्त्रीणां	

दुसरा भाग

प	प
३ पूर्यतिर्येकृतपेनलयः क्वाप्यति	४ परेषां क्लेशदं कुर्यान्वैशुन्यप्रभु
५ प्रियवाक्यं प्रदानं न सर्वो तुष्यन्ति	२ प्रचलति यदि मेरु
६ पुत्रं पौत्रं	९ पंडितैः सहसा

पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक
७६	वन्धनानिखलुसन्तिबहुनि प्रेम	८७	ब्रह्मायंन कुलाल
११	ब्रह्म चर्याद् ब्राह्मणस्य	२	बुभुक्षिता

दुसरा भाग

च

१८	बह्वामतद्	१९	बोधयन्ति न
२८	ब्रह्म सत्यं	३४	वासुदेवा
३५	बधोरपति	४९	ब्रह्म सत्यं
५६	ब्रह्मानन्दं पित्रेन	८७	बुद्धतन्त्रेन ।
९०	ब्रह्मचर्याद्	१०७	ब्रह्मनास्ति
११६	ब्रह्मचारी सहस्रं	११७	विष्णुर्लिंगा
१२०	बटोनु शत	१२२	ब्रह्मा विष्णु च

पहला भाग

भ

१६	भोज्यं भोजन शकतश्च	६	भोगेरोग भयं
३	भैरवी विमला		

दुसरा भाग

भ

६	भर्ताद्बोगुरु	६०	भोगेनत्वित्
७०	भेदाभेदो	८९	भावाद्द्वैतं
१०६	भिक्षादनं जपः	११८	भिक्षा काले

पृष्ठ श्लोक पृष्ठ श्लोक
१२१ भिक्षासत् कृत्य १२७ भिक्षाटन

पहला भाग-

म

१७ मनसा चितितं कायं ११ मूर्ख शिष्यो
१८ मातारिषु पिताशत्रु २१ मूर्खस्तु परिदुर्तयः
२५ मूर्खा यत्र न पूजयन्ते २१ मूर्खश्चिरायुर्जातोऽपि
३० मूर्खाणां पण्डिता द्वेषा ४६ मांसभक्षः सुरापाने
७५ मणिलुठतिपादाग्रे काचः ९३ मुखंपद्मदलाकारं
९४ मांघ्याताता च महिपति ४६ मुक्तिमिच्छसि चेतान्

दूसरा भाग

म

९ मातृवत् ११ मृगामृगैः
२० मद्यप्यस्ययुतः २२ मातरं पितरं
२१ यथांति प्रमदां २७ मानंहित्वो
३१ मनुष्ये ३७ मात्रास्वस्त्रा
३९ मित्रद्रोही ५० मृदांभार
५३ मीनस्नानरताः ५४ मुक्तिधर्मच्छसि
७५ मनः संवत्स्रक ७९ मौनं योगासनं
८३ मनश्चेन्द्रियाणां ११३ मुख्य जानामयं
१२४ मानमनाचिकं १२६ माधुकरपत्तं
१२९ मनः संकल्प

पहला भाग

य

य

- १५ या ध्रुवाणिपरित्वज्य... १६ यस्यपूत्रोवशीभूतो
 २९ यथा चतुर्भिः कनकं परिक्ष्यते ४८ यस्मिन् रुष्टेभयं नास्ति
 ५१ यस्यनास्ति स्वयं प्रज्ञा ६० येषां श्रोमद्यशोदा
 ६६ यस्य ह्नेशो भयं तस्य ५६ येतुसंवत्सरं पूर्णं नित्यं
 ६९ यथा खात्वा खनित्रेणा भूतले ६९ युगान्तेप्रचलेन्मेह
 ७१ यस्माच्चप्रियमिच्छेतु ७४ यस्यचित्सांद्रवी भूतं कृपया
 ८२ यद्दूरं यदुराध्यं ८५ यदिरामां यदिचरमाय
 ८८ येन यत्रैवं भोक्तव्यं १० यस्यात्मबुद्धिः कुण्ठेन्न
 ७२ यदोच्छसिवशोकर्तुं ९६ यवोधततदक्षरगार्ग्यं

पहला भाग

र

र

- ३५ राजाराष्ट्रकृतं २२ रुपयौवन संपन्ना
 ३३ राजयत्नि गुरोपत्नि ५० रंकंकरातिराजानां
 ६७ राज्ञिधर्मिणी धर्मिष्ठाः ८७ राजावेश्या यमश्चाग्नि
 ९५ रामेन्न जने वलेर्नियमनं

दूसरा भाग

र

- २६ रोहते पायकेविधं २८ रूपमारोग्य
 ३३ राक्ष्येनहि १०७ रसायनक्रिया
 १११ रागोलिगय

पहिला भाग

ल

- १४ लोकयात्रा भयंलज्जा
२४ लालयेत् पंचवर्षिण
५७ लौकिके कर्मजिरतः
८२ लोभेश्चेद् गूणेन किंपिशुनता

ल

- १८ लालनाद्दहयोदोषा
५१ लुब्धानांयाचकः शत्रु
५७ लाक्षादितैल नीलीनां

दूसरा भाग

ल

- ८ लोभमूलानि
२३ लांभाविष्टा
३४ लाक्षादि तैल
९७ लीयते दिमुपुसे

- २२ लोकास्त्रिपुरता
३४ लौकिकेरत
९७ लोभवात् पूर्व
५ लक्ष्मीर्वसति

पहिला भाग

- ६२ विप्रश्मिन्नगरमहानवसति
६५ वयसः परिणामेपि
८० वरंप्राणपरिरत्यागो
१५ विषयादप्यमृतमप्राप्तं
३२ वृधावृष्टिः ममुद्रेषु
८९ विधुगुर्वेन
५३ विप्रोवृत्तस्तस्यमूलं च सन्ध्या
४ वस्त्रैश्च भूपसौरचंदं

- ३१ विद्यामित्रं प्रवासेषुभार्या
७८ विवेकिन मनुप्राप्ता
८० व्यालाभ्रयापि विगलापि
३१ विस्तेनरक्ष्यतेधर्मो
४१ वृद्धकालेमृताभर्या
५२ वरंधनं व्याघ्रं गजेन्द्रसेवितं
९८ धापिकूप तद्भागानां
९ वरवेमोजनदो

३६ वर् न राज्य
४७ विद्यवान् धनाडयो

३७ विप्रयोर्विप्र
८७ व्यालश्राफि

दूसरा भाग

व

८ विषयस्य विषयाणां
१३ वनेषु दोगाः
४३ वसोर्तं
४५ वक्त चान्न
४८ वस्तुविज्ञान
६२ वन्नसन्ते न
७१ वर्णाश्रमादयोदेहे
८५ विश्वेसो जनको
८७ विचारित
१०० वेदस्मृति सदाचारं
१०१ विश्वेश्वर

१० वचस्तत्रैवक्तव्यं
२३ वयोवृद्धा
४४ वनेषु
४५ वेदस्मृति सदाचारः
६२ विरस्ता तिशया
६९ वंधंहाद
७४ विचारितमलं
८६ वक्ष्येश्च
९९ वेदान्त विज्ञान
१०० वेधाद्वेधा
११० वासनाक्षय

पहिला भाग

श

श

१८ शैले शैले न माणिक्य
३३ श्रुत्याधर्मं विजानाति
४५ शुद्धं भूमिगतं तोयं

१९ श्लोकं छनितदर्धेन
४१ शूनः पुच्छमिव व्यर्थं
५४ शाके न रोगा वर्धन्ते

दूसरा भाग

श

५ शोभन्ते	२९ भवणं कीर्तनं
३७ शान्तोदान्त	८३ श्रद्धावां लभते
८५ शिव शिवोक्त	८७ शक्यं जेतु
१०३ शीतघ्नोप्य	१०९ श्रीद्वोमानर्थं
११४ शिखांसूत्र	१२४ शूद्रहस्तेन
१२७ शयामोत्थाय	

दूसरा भाग

प

९ पङ्क्तोपाः

पहिला भाग

स

२० समाने शोभते प्रीति
२७ संसार तापदग्धानां
३२ सत्येन धार्यते पृथ्वी
४९ स्वहस्ते प्रथितामाला
६२ सनसगाद्भवति
६६ स्वभावेन हिसुष्यन्ति
७१ सुसिद्धगौपधंघनं महद्विद्रं
८५ सद्यराक्विनहरा तुंडी

स

२१ सत्कुले योजयेत् कन्यां
२८ साभार्यायिञ्चिदंक्षा
४७ सर्वोशोधनाम मृताप्रधाना
५० सुखार्थिचेत्यजेद्विद्यां
६२ साधुनां दर्शनं पूज्यं
७२ मर्जाघतिगुणायस्य
८० संसार फट्टुत्तस्यदंफले
९३ संपूर्णोपिवहागे का. क. कुं

९८ साश्रीर्या नमदं कुर्यात्	९८ समेशुचोवन्दि बालुका
९५ सर्वोभर्गाः शाक्तमर्धेनचशैवा	९७ सुगभाः पुरुपालोके
९७ संतोष परमालाभ	९७ सर्पापिबन्तिपवनः
५९ सानंदंसदनं	३ स्पृशन्नपि
८ सुखमयदकं	१५ छिणांद्विगुण
३७ संतोषामृत	२७ सकृज्जल्पन्ति
३७ संतोषस्त्रिपु	४० स्वर्गस्थिता

दूसरा भाग

स

७ सांसारिक सुखासक्तम्	७ सत्यानुचारिणी
२० सभावान	२७ सद्योददातिपश्चान्मम्
२७ स्रवन्ति	२९ स्तेह मूलानि
३० सदवासी	३० स्थान भ्रष्टान
३५ सम्प्राप्य	३५ सद्विद्या
३८ स्मृत्योविरोधन्या	४२ संत्यज्य
४७ संसारिक	४७ सत्यंज्ञान
४८ सर्वाननशिरोमीवः	५१ स्नानं तेज समस्त
५१ सम्यग्दर्शन	५२ सांग श्रुतौ
५२ सुचिंतितं	५५ सानु रागांस्त्रियं
६० सन्यासितौ	६५ स्ववपुः
६७ स्वमाहृत पर्शेषु	६८ स्थावरे ङगम्

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| ७० सगत्यजेत् | ७० सर्वत्रावस्थितं |
| ७६ समाधि निर्धूत | ८३ सर्ववेदं |
| ९५ सत्येन लभ्य | ९८ सपर्य्यागाच्छुक्र |
| १०२ सञ्चितं | १०२ सन्यासीनां |
| १०२ सन्यासीनां पाद | १०२ सन्यासीनां च |
| १०३ सन्यासी याति | १०८ सर्वत्रा वस्थितं |
| १११ सपरि करेव | ११५ सन्य सन्तं |
| ११७ साक्षाद्विष्णो | ११८ सदाचार |
| ११८ स्मृतिर्नारायणी | १२१ सर्वे पांमपरा |
| १२२ सर्वते वृत्ति | १२७ सन्यासी ब्रह्म चारी |
| १२९ स्वदेहरिणिं | |

पहिला भाग

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ४३ हस्तज्ञानक्रियाहीन स्तेन | ५५ हस्तीस्थूलतनुसचांकुशवशे |
| ६० हस्तौदानविवर्जितौ | ९६ हरिहरति धापानि दुष्टचै |

दूसरा भाग

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ६ | ६ |
| १५ दिश्यमापुरांघ | २९ हरीरूपी |
| ७४ हृदयात्सं | १०१ हे माद्रेतु |
| १२५ हृदिः प्रास्यतथा | |

पहिला भाग

७९ क्षीयन्ते सर्वदानानिः ११

दूसरा भाग

७ क्षान्ति तुल्यं तपोनास्ति १० क्षमासस्त्रकरेः

दूसरा भाग

३८ त्रिमसिः पूर्यते

दूसरा भाग

५४ ज्ञानाभूतेन

५५ ज्ञानदण्डोभृतोयेन



❀ श्रीः ❀

ज्ञान भण्डार

साहित्य-विभाग

लेखक व प्रकाशकः—

श्री स्वामी पूर्णानन्दतीर्थ

भिनगादण्डो आप्रम

लंका, बनारस ।

५०० प्रतियां

श्री विश्वनाथजी



ज्ञान भण्डार साहित्य

पहला भाग-

भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳमस्तनुभिर्व्यशेम हित्वा हितं त्व्यदायुः ॥१॥

अर्थ — अपने कानों से कल्याणकारक सुनिय और आँखों से
कर्याण देखिये, पूजन करने वालों की रक्षा करने वाला दृढ़ अङ्गों
से स्तुति करने वाला को देवता क्षीरार्घ्य प्रदान करने वाले हों ।

ॐ विघ्नभ्रान्तनिवारणे कतरणिविघ्नटयीद्वयवाद् ।
विघ्न व्यालकुलोभिमद्रगरुडो विघ्नेभपचानन ॥
विघ्नोत्तु गगिरी प्रभेदनपरिविघ्नायुधौ घाहरी ॥
विघ्ना घाघघनप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वर पातुनः ॥

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

विघ्न रूपी अन्धकार को हटाने में मूर्य के सदृश विघ्न रूपी घन
में अग्नि के सदृश विघ्न रूपी सर्प कुत्त के मर्दन करने में गरुड के
सदृश विघ्न रूपी हाथा व लिये सिंह के सदृश विघ्न रूपी ऊँघ
पाद व ताड़ने के लिये घस के सदृश, विघ्न रूपी पाप समूह के
मेष व उड़ाने में प्रचण्ड वायु सदृश विघ्नेश्वर श्रीरेश्वर हम लोगों
का वाचन करें ।

ॐ हरि ॐ तत्सत् ॐ

श्रीसद्गुरुभ्यो नमः

प्रस्तावना

प्रिय पाठक गण !

आज काल भारत वर्ष में अविद्या-साम्राज्य स्थाप्युं छे, ने विद्वान वग छे परण बहु थोड़ा छे ने जे छे ते पेट निर्वाहना काम में मच्यारहे छे तेथी निवृत्ति परायण तो बहुत थोड़ा पुरुषो जोवा में आवे छे ।

ने तेमांपण धार्मिक वृत्ति ना तो अस्यन्त थोड़ा ने तेमां पण परोपकार साथे आस्तिक्य बुद्धि वाला तो कोई विरलाज होयछे ।

आ शरीर यतिनी स्थिति में (दंडी संन्यासी तरीके) हीवाथी श्री काशीजीथी द्वारकां यात्रा प्रसंगे आवेल ते यात्रा करी पाछा फरतां बच्चे जामनगर जेयुं धार्मिक स्थल जाणीने चातुर्मासना निश्चय कर्यो ।

अहीं आवीने पंडित वर्गनी मुलाकात लेता अही छेवटे हार्थी भाइ शास्त्री जी पूण श्रद्धालु परोपकारी तेमां वयोवृद्ध तेमज ज्ञान वृद्ध जाइने चित्त बहु प्रसन्न थयुं ।

त्यार बाद तेओ श्रीनुं प्रेमाल हृदय जाणां आ लंग्वेल पुस्तक छपाववा इच्छा बतायी तो ते पूरी खुशीथी स्वाकारी बादतेआं श्रीनोकैलासवास थइजतां बंधरमु ।

पीछे श्री काशीजी आकर यह पुस्तक चन्दा करके छपाने का विचार किया।

परन्तु मामूली रकम मिलने से छप नहीं सकता इसलिए हम धनदाद गये, वहाँ के सेठ बड़े धार्मिक वृत्ति के मिल गये। उन्होंने अपना नाम छापने को मना किया है इसलिये हम नाम नहीं दे सकते किन्तु वे बड़े श्रद्धालु हैं और विद्वान हैं, इतना कह सकते हैं कि आपने ये पुस्तक छपा देने का बचन दिया है इसलिये आपको धन्यवाद देते हैं।

मानुष्ये मतिदुर्लभा पुरुषता पुरुस्त्वे पुनरविप्रता ।

विप्रस्त्वे बहुविद्यनाति गुणिता विद्यायतोर्यज्ञिता ॥

अर्थज्ञस्य विचित्र वाक्य पदुता तत्रापि लाकक्षता ।

लोकाज्ञस्य समस्त शास्त्र विदुषो धर्मेमतिदुर्लभा ॥

अर्थ—मनुष्य जन्म तेमां बुद्धिशाली ने तेमां पुरुषता ने तेमां ब्राह्मणपणु ने तेमां विद्वानने तेमां गुणवान ने तेमां अर्थजाणवावाला तेमां अति चतुर बोलवावाला तेमां सर्व जनता ने प्रिय ने तेमां सर्व शास्त्र जाणनार ने तेमांपण धर्मिण्ट बुद्धि ते अति दुर्लभछे ।
❁ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

आ पुस्तकमां प्रथम भाग सहित्यनो राखी, थीजो भाग मनु-
स्मृति मांथी यानप्रस्थ स्थितिनो चितार आपी श्रीजोभाग वेदान्तनो
(उपनिषदो श्रुति षचनोनो) राखी चौथोभाग जीवनमुक्ति विवेकनो
राखी छेस्ते मन्यस्तनो-जरा चितार आपीने संन्यासीना भिक्षा
प्रकरणनो षताथी ने आ पुस्तकनी समाप्ति करवामां आवेच्छे । आथी

करो भारतवर्षमां जे अगाड संद्गुणों हता ते नष्ट जेवांत्यां जाणों
 ने तेमां अजबालुं पाडवा धायुं छे । यदि बहु जनतां दोन दुःखींत;
 पराधीन, दरिद्रि तथा अनर्थकारी होवाथी ते कडपण छुटीने सद्-
 गुण प्राप्ती थायें तो मारोश्रम सफले थयो गणाय एमं मानुं छुं ।
 कदां वाचकं वर्गने काइ श्लोकमां अथवा अर्थमां स्वामी जणां-
 यतो तेने विपे नम्र याचनां छे के संपूर्ण गुणवाला दोष रहित तो
 एकं परमात्मांज छे तो चन्तव्ययाचुं छुं आमां सुधारो वधारो कर-
 वानी मत्ता लेखकने स्वाधीन छे ।

आ पुस्तकना सर्वहक लेखकने स्वाधीन छे तोपण काइ
 परोपकारी पुरुष बिना मुलये बाटणी करवाने कबूल करशेता नेने
 छपाववानी लेखित परवानगी खुशि थो आपवा मां आर्षशे ।

ॐ पूर्णं मंदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते ।

पूर्णंभ्ये पूर्णं मांदाय पूर्णामेवा वशिष्यते ॥-१ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

श्री. १०८ परिब्राजकाचार्य-ओगोविंदानंदजी तीर्थ.

पाद पंकजरजोक्ति

लेखक—स्वामी पूर्णानन्द तीर्थ

मुमुक्षु बुधन अस्सी घाट, फारी ।

दाल भिनगाभ्रम दाएटी आभ्रम पोः—जहा, बनारस ।



श्री स्वामी पूर्णानन्दजी तीर्थ

मुमुक्षु भुवन, अक्षो घाट, फारो ।

दाल-भिनगाभन, दण्टी आभम, पा० लह्या, यनारम ।

ज्ञान भंडार ।

साहित्य प्रकरण भाग १

उत्तमः चितितं कुर्यात् भोक्तकारी तु मध्यमः ॥

अधमोः श्रद्धया कुर्यात् अकर्तुः उच्चरितः पितु ॥१॥

अर्थ—पिता की श्रद्धा से जो काम पूरा करता है, वह पुत्र उत्तम है। पिता की आज्ञा मानकर जो कार्य करे वह पुत्र मध्यम है। श्रद्धा से करने वाला पुत्र अधम है। जो कहने पर भी नहीं करता वह पुत्र विष्टा के समान है।

स्वर्णं स्नायुवसावशेषमलिनं निर्मोमप्यस्थिकं ।

श्वा लब्धा परितोपमेति न तु तत्तस्य क्षुपाशान्तये ॥

सिंहो जंबुकमंकमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपं ।

सर्पः कृच्छगतोपि वा च्छेति जनः सत्वानुरूपं फलं ॥२॥

कुत्ता चित्त मांस और चित्त मूत्र की दृष्टि लेकर उसी में सन्तोष मानता है परन्तु उसमें उत्तमी क्षुपा उस नहीं होती। लेकिन सिंह अपने दाघ में चाये दृष्टेष्ट्याल को

छोड़कर हाथी को ही मारता है इसी तरह श्रेष्ठ पुत्र उत्तम काम को छोड़ कर उत्तम काम करते हैं ।

ददतु ददतु गालीं गालियमंतो भवन्तः ।

वयमपि तदभावात् गालिदाने समर्था ॥

जगति विदतिमेतद्दीयते यस्ययद्वै ।

नहि शशकविपाण कोऽपि कस्मै ददाति ॥३॥

अर्थ—यदि आप गाली देते हों तो दें, आप गाली के ही घनी हैं, क्यों कि जिसके पास जो वस्तु होनी है वह उसको ही दान करता है, क्यों कि आज तक खरगोश (सियाल) का सिंग किसी ने दान नहीं किया ।

न कश्चिच्चण्डकोपानां घात्मीयो नाम भूधुजाम् ॥

होता रमपि जुब्हानं स्पृष्टो ददति पावकः ॥ ४ ॥

अर्थ—उग्रकोप वाले राजा का कोई भी निजी आदमी नहीं होता, क्यों कि इसी तरह से अग्नि दहन करने वाले को भी छूने से जला देती है ।

पुशुचितः किं करोति पापम् स्त्रीणां जना निष्करुणा भवन्ति ॥

आख्याहि भद्रे मियदर्शनस्य न गंगदत्ताः पुनतरेति कूपम् ॥५॥

अर्थ—भूषा मनुष्य क्यादाव नहीं करता है यदि किसी का मनुष्य मर गया हो तो उसमें कदना नहीं होती । हे भद्रे !

हे दशनीया गंगदत्त सब कुछ करके भी कुर्ये में नहीं जायगा यह
कह देना ।

स्त्री विनश्यतिरूपेण , ब्राह्मणो राजसेवया ॥

गावो दूरप्रचारेण हिरण्यं लोभलिप्तया ॥ ६ ॥

अर्थ—अतिरूपसे स्त्री का नाश होता है । राजा सेवा करते
से ब्राह्मण पनका नाश होता है गऊ को दूर खराने से और पैसे
के लोभ से नाश होता है ।

स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भुजंगमः ॥

हसन्नपि नृपो हन्ति मानयन्नपि दुर्जनः ॥ ७ ॥

अर्थ—हाथी स्पर्श करने वाले को मारता है और सांप
सूँघते ही काटना है राजा हंसता हुआ भी मार देता है ।
दुर्जन से अगर मान भी करे तो भी मार देता है ।

भैरवी विमला देवी जगन्नाथस्तु भैरव ।

प्राप्ते भैरवीं चक्रे सर्वे वर्णा दिजातयः ॥

समाप्ते भैरवी चक्रे सर्वे वर्णा पृथक् पृथक् ॥ ८ ॥

अ० लक्ष्मी देवी भैरवी हैं जगन्नाथ जी भैरव हैं भैरवी
चक्रमें फंसकर जब वर्ण विजानि हो जाते हैं चाहे मैं जब
यह भैरवी चक्रमें छूटते हैं तो सब वर्ण पृथक् २ हो जाते हैं ।

मग्नस्यार्थं प्रबुध्यस्य सर्वं ब्रह्मेति गो वदेत् ॥

महानिरयतालेषु स तेन निरयो जितः ॥ ९ ॥

अशुद्ध अन्तःकरणवाला तथा विषयासक्त मनुष्य कर्म का अधिकारी है। जो अर्घदग्ध अज्ञानी पुरुष है उसको "सर्व स्वदिवद् ब्रह्म ॥" को उपदेश नहीं देना चाहिये वह उसका अधिकारी नहीं। जो अनाधिकारी पुरुष को उपदेश करता है वह उसको नरक में गिराता है ॥ ९ ॥

गौरतेजो विना यस्तु श्याम तेज समर्चयेत् ॥

जापेन वा ध्यायतेवापि सभवेत्पातकी शिके ॥ १० ॥

शक्ति के बिना जो श्याम नाम स्मरण करता है। [राधा के नाम के बिना केवल कृष्ण नाम का स्मरण करता है] वह पातकी होता है। इसी प्रकार सर्व देवों के नाम के साथ उनकी शक्ति का नाम भी लेना चाहिये ॥ १० ॥

जन्मन्तरे राजन् ! सर्व भूत सुहृत्तमः ॥

भूत्वां द्विज वरस्तं वै मामुपैस्यसि केवलं ॥ ११ ॥

हे राजन् ! तुम श्व भविष्य जन्म में सर्व प्राणियों के उत्तम मित्र (ब्राह्मण के घर) जन्म लेकर अद्वैत स्वरूपों को प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥

वक्षैश्च भूपणैश्चैव शोभा स्यात् वारयोपिताम् ॥

विद्यया तपसा चैव राजन्त द्विजनन्दना ॥ १२ ॥

षष्ठ और आभूषणों से वेश्याओं की शोभा होती है। परन्तु ब्राह्मण तो विद्या और तपसे ही शोभित होते हैं ॥ १२ ॥

अत्यन्तमतिमेधावी त्रयाणामेकमश्नुते ॥ १२ ॥

अल्पायुषो दृष्टिदोषा ह्यनपत्यो न संशयः ॥ १३ ॥

अत्यन्त बुद्धिमान् को तीनों वस्तुओं में से एक वस्तु भी प्राप्ति होती है। जैसे या तो अल्पायुषी होगा, दृष्टिदोषी होगा या सन्तान हीन होगा। १३॥

गंगाजलेन पक्वान्नं देवानामपि दुर्लभं ॥

तीर्थे माधुकरी भिक्षा पवित्राणि युगे युगे ॥ १४ ॥

गङ्गा जलसे पका हुआ अन्न देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिये तीर्थ स्थानों पर माधुकरी भिक्षा प्रत्येक युग में पवित्र है ॥ १४ ॥

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यपूजाव्यतिक्रमः ॥

त्रीणितत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम् ॥ १५ ॥

जहां अपूज्यो का मान और पूज्य का अनादर होता है। वहां दुरभिक्ष, मरण और भय तीनों बातों से एक बात होती है ॥ १५ ॥

उत्तमा सहजा वृत्तिः मध्यमा ध्यानधारणा

निकृष्टा शास्त्र चिन्ताचतुर्थयात्रा घमा धमः ॥ १६ ॥

अर्थ - जिसको स्याभाविक समाधि लग जाती है वह उत्तम, जो ध्यान धारणा, करे वह मध्यम, शास्त्र चिन्ता करने वाले निकृष्ट तथा तीर्थयात्रा सबसे अधम से अधम है ॥ १६ ॥

भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं पित्तैर्नृपालोद्भयं ।

मानेदन्व भयम् बलेरिषु भयं रूपे जराया भयम् ॥

शास्त्रे वादि भयम् गुणे खल भयम् काये कृतान्ताद् भयम् ।

सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम् वैराग्यमेवाभयम् १७

भोग में रोग का भय है, कुल में नाश का भय है। द्रव्य में राजा का भय है। मान में दीनता का बल में शत्रु का, रूप में वृद्धधावस्था का भय, शास्त्र में वादिका भय, गुण में खल का भय, काया को मृत्यु का भय रहता है। अर्थात् संसार की सब वस्तुएं भय अस्त हैं केवल वैराग्य ही निर्भय है ॥१७॥

कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्ति-हीनाः सुरागिणः ॥

तेऽप्यज्ञानं तयानूनं पुनरा यांति यांति च ॥१८॥

ब्रह्म वार्ता में कुशल, तथा वृत्ति हीन रागी औरते अज्ञानी पुरुष बारंबार संसार में जन्मता और मरता है ॥१८॥

पाताले चान्तरिक्षे दशदिशि गगने सर्वशैले समुद्रे ।

भस्मेकाष्ठे च लोष्ठे क्लितिजलपवने स्थापरे जंगमेवा ॥

वीजे सर्वापधीनामसुरसुरपती पुष्यपत्रे तृणाग्रे ।

एकोव्यापिशिवोऽयं इतिवदति हरिर्नास्ति देवो द्वितीयः ॥१९॥

पाताल में द्योम, में दशो दिशाग्रे में, पर्वतों में समुद्र में

भस्ममें, काष्ठमें, लोष्टमें पृथ्वी जलवलयुमें स्थावर जंगमके सर्वोपशिक्षो के मूल में देवदानवों में पुष्प-पत्र लृणो में एक शिव ही व्यापक है अन्य कोई भी देव नहीं यह श्री विष्णु भगवान् कहते हैं ॥१९॥

एकोदेवकेशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वायतिर्वा ॥

एकोवासः पत्तनेवा वनेवा एका नारी सुन्दरी वादरिवा ॥२०॥

एकही देवता में मन लगाना चाहिये, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव । एक ही मित्र करना चाहिये चाहे वह राजा हो चाहे संन्यासी । एक ही जगह स्थिर होकर रहना चाहिये चाहे वह नगर हो या वन अपनी एक ही स्त्री से प्रेम करना चाहिये चाहे वह सुन्दरो हो या चाहे पहाड़ की कन्दरा हो ॥ २० ॥

यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विषइव मदान्धः समभवं ।

तदासर्वज्ञोऽस्मी त्यभवदवलिप्तं मम मनः ॥

यदाकिञ्चित्किञ्चिद् बुधजनसकाशादवगतं ।

तदामूर्खोऽस्मीति ज्वरइवमदोमे व्यपगतः ॥२१॥

जय में मुर्ख था तो हाथी की तरह मदान्ध था । और मेरे मनमें यह । गर्व था, कि मैं सर्वज्ञ हूँ । इसके बाद में जय घोड़ा २ पण्डितों के पास से ज्ञान प्राप्त किया तो "मैं मूर्ख हूँ" यह जान कर मेरा मद ज्वर की तरह उतर गया ॥२१॥

ब्राह्मणस्यतु दे होयं क्षुद्रकामाय नेप्यते ।

भोगे रोग भयं कुले च्युतिं भयं पित्तं नृपालाद्भयं ।
 मानेदन्य भयंम् बलेरिषु भयं रूपे जरायां भयंम् ॥
 शास्त्रे वादि भयम् गुणे खल भयम् काये कृतान्ताद् भयंम् ।
 सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम् वैराग्यमेवाभयम् १७

भोग में रोग को भय है, कुल में नाश का भय है । द्रव्य में राजा का भय है । मान में दीनता का बल में शत्रु का, रूप में वृद्धावस्था का भय, शास्त्र में घादिका भय, गुण में खल का भय, काया को मृत्यु का भय रहता है । अर्थात् संसार की सब वस्तुएं भय प्रस्त हैं केवल वैराग्य ही निर्भय है ॥१७॥

कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्ति-हीनाः सुरागिणः ॥

तेषु ज्ञानं तयान्नं पुनरा याति याति च ॥१८॥

महल घाता में कुशल, तथा वृत्ति हीन रागी औरते अज्ञानी पुरुष घातघात संसार में जन्मता और मरता है ॥१८॥

पाताले चान्तरिसे दशदिशि गगने सवेशैले समुद्रे ।

भस्मेकाष्ठे च लोष्ठे त्रितिजलावने स्थापरे जंगमेवा ॥

बीजे सर्वापधीनामगुरमुरपती पुष्पपत्रे तृणाग्रे ।

एकोऽप्यपिशिवोऽयं इतिपदति हरिर्नास्ति देवो द्वितीयः ॥१९॥

पाताल में द्योम, में दशो दिशाओं में, पर्वतों में समुद्र में

भस्ममें, काष्ठमें, लोष्टमें पृथ्वी जलवैर्युमें स्थावर जंगमके सर्वोपधिष्ठों के मूल में देवदानवों में पुष्पपत्र तृणों में एक शिव ही व्यापक है अन्य कोई भी देव नहीं यह थी विष्णु भगवान् कहते हैं ॥१९॥

एकोदेवकेशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वापतिर्वा ॥

एकोवासः पत्तनेवा वनेवा एका नारी सुन्दरी वादरिवा ॥२०॥

एकही देवता में मन लगाना चाहिये, चाहे कृष्ण हो चाहे शिव । एक ही मित्र कर्ना चाहिये चाहे बृहत् राजा हो चाहे संन्यासी । एक ही जगह स्थिर होकर रहना चाहिये चाहे वह नगर हो या वन अपनी एक ही स्त्री से प्रेम करना चाहिये चाहे वह सुन्दरी हो या चाहे पहाड़ की कन्दरा हो ॥ २० ॥

यदा किञ्चिज्जोऽहं द्विपइव मदान्धः समभवं ।

तदासर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः ॥

यदाकिञ्चित्किञ्चिद् बुधजनसकाशादवगतं ।

तदामूर्खोऽस्मीति ज्वरइवमदोमे व्यपगतः ॥२१॥

जब मैं मूर्ख था तो हाथी की तरह मदान्ध था । और मेरे मनमें यह । गर्व था, कि मैं सर्वज्ञ हूँ । इसके बाद में जब थोड़ा २ पण्डितों के पास से ज्ञान प्राप्त किया तो "मैं मूर्ख हूँ" यह जान कर मेरा मद ज्वर की तरह उतर गया ॥२१॥

ब्राह्मणस्यतु दे होयं क्षुद्रकामाय नेप्यते ।

इह कष्टाय तपसे प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥२२॥

वाह्यकी यह देह क्षुद्र कामों के लिये नहीं है। अर्थात् इस संसार में कष्ट साध्य तप करके बाद में अन्त मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये है ॥२२॥

न चेन्द्रस्य सुखं कश्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः ॥

सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीविनः ॥२३॥

इन्द्रको भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को भी कोई सुख नहीं, परन्तु एकान्त वासी विरक्त मुनि सर्वको सुख सम्पन्न है ॥२३॥

तद् रुद्राक्षे वाक् विषये कृते दश गोदानफलं भवेत् । श्रुतिः

रुद्राक्ष शब्द उच्चारण मात्र से दश गोदान का फल मिलता है । श्रुतिः ॥ २४ ॥

सुखमैन्द्रिकं राजन्स्वर्गे नरक एव च ॥

देहिनां यद्यपादुखं तस्मान्नेच्छयेत्तच्छुभः ॥२५॥

दत्तोत्रय कहते हैं कि हे राजन् ! धिना उद्यम क्रिये भी दुःख प्राप्ति के बल से स्वर्ग प्राप्त होता है। उसमें किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार स्वर्ग में या नरक में कहीं भी होये इन्द्रिय सुख भी स्वर्ग-मिलता है। इस लिये शानी पुरुष को सुख के लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये ॥२५॥

न-धर्मशास्त्रं पठतीतिकारणं न चापिवेदाध्ययनंदुरात्मनः ॥
स्वभावएवात्रतथांतिरिच्यते यथाप्रकीर्त्यामधुरंगवांपयः ॥२६॥

शास्त्र पठनका कोई विशेष कारण नहीं, क्योंकि दुष्ट पुरुष-
वेदाध्ययन करके भी मनोनुकूल करता है। जैसे वी गाय का
स्वाद दुग्ध स्वाभाविक मधुर होता है ॥२६॥ :

विश्वेशो जनको उमाच जननीगंगाच मातृस्वसाः ।

दुही भैरव दंडपाणि सदृशा ज्येष्ठामम भ्रातर ॥

सा काशी मणिकर्णिका च भगिनी जाया ममेयं मतिः ।

सत्कर्मणि सुता सदैव शुभदा काश्यं कुटुम्ब मम ॥२७॥

काशी विश्वनाथ मेरे पिता, उमा माता, तथा गङ्गा मौखी
हैं, दुण्डिराज भैरव, दंडपाणि जैसे मेरे बड़े भाई हैं। काशी
मणिकर्णिका मेरी बहन हैं। मेरी बुद्धि खी है। सत्कर्म मेरा
पुत्र इस तरह शुभदायक काशिमें मेरा सम्पूर्ण कुटुम्ब है ॥२७॥

श्री गौर्याः संकलार्थदं निजपदांभोजेनं मुक्तिप्रदम् ।

मौढं विह्वलनं हरन्तमनघं श्रो धुन्डी तुण्डा सीना ॥

वंदे चर्मकपातिकोपकरणैः वैराग्यसौख्यात्तरम् ।

नास्तीति प्रदिशन्त मन्त विधुरं श्री काशिकेशं वजेत् ॥ २८ ॥

श्री गौरों सम्पूर्ण सिद्धि देनेवाली हैं, उनके पाद मुक्तिप्रद हैं -
दुण्डिराज मनके भयंकर पापस्त्री जंगलको मष्ट करने घाले हैं।

जो हाथमें कपाल को सुन्दर खपर लिये शंकर को वन्दन करते हैं। वैराग्य परम सुख है, न इसका अन्त ही है इस अनन्त सुख को देने वाले भगवान् शंकर को भजो ॥२८॥

मातर्वैदिक-कर्मतः तदनु सत् वेदान्तसंचितया ।

पश्चाद् भारत-मोक्ष धर्म-कथया वासिष्ठ-रामायणात् ॥

सौर्य भागवतार्थं तत्र कथया रात्रौ निदिध्यासनात् ।

कालो गच्छतु न शरीरमरणं प्रारब्ध-कं उपार्जितम् ॥२९॥

प्रातः काल वैदिक कर्म कर वेदान्तका चिन्तन करो तदनन्तर महाभारत मोक्षधर्म की कथा योग वाशिष्ठ और रामायण पढ़े। सांयं काल में भागवत तत्र की कथा और रात्रि में निदिध्यासन करे। इस प्रकार समय व्यतीत करने वाले का मरण नहीं होता, क्योंकि उसके गलेमें प्रारब्ध रूपी मात्सर है ॥२९॥

यस्यात्मबुद्धिः कृणपे स्त्रियातुके स्वधीकलत्रादिषु भौमइज्यधी ॥

यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन कर्हिचित्जनेस्वभिज्ञे तु स एव गोखरः ३०

जो शरीर को आत्मा मानता है उसी प्रकार अपनी स्त्री है। पृथ्वीके पदार्थ पाषाण मृत्ति का आदि में पूज्य बुद्धि करता है तथा जल में तीर्थ बुद्धि रखता है। लेकिन कभी किसी भी महापुरुष में पूज्य बुद्धि तथा आत्म स्वरूप नहीं रखता उसे समझिये कि गऊओं में गंधा मिलगया ॥३०॥

भावाद्द्वैतं सदा कुर्यात् क्रियाद्द्वैतं न कर्हि क्वचित् ॥

सर्वत्रद्द्वैतं कुर्यात् न द्वैतं गुरुणा सह ॥३१॥

सर्वदा भावना से अद्वैत करना, परन्तु क्रियामें अद्वैत भाव नहीं करना । अन्य सब बातों में अद्वैत भाव ना रखना, मगर गुरु के साथ सर्वदा द्वैत भावना रखना ॥३१॥

ब्रह्मचर्याद्वि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥

एवमाहुः परेलोके ब्रह्मचर्यविदो जनाः ॥३२॥

ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व ब्रह्मचर्य पालन करने से आता है । परलोक में ब्रह्मचर्य धेत्ताओं ने यह बात कही ॥३२॥

नास्ति योगं विना सिद्धिर्न वा सिद्धिं विना यशः ॥

नास्ति लोके यशो मूलं ब्रह्मचर्यात् परंतपः ॥३३॥

योग विना सिद्धि नहीं मिलती । सिद्धि विना जगत में यश नहीं मिलती । इस लोक में निर्मल यशरूप ब्रह्मचर्य से अन्य कोई धेष्ठ तप नहीं । अर्थात् ब्रह्मचर्य ही सब धर्मों का मूल है ॥३३॥

मारकण्डेय वटे कृष्णे रोहिणेपे महोदधीः ॥

इन्द्रशुम्ने कृतेस्ताने पुनर्म्मम न विद्यते ॥३४॥

मारकण्डेय वटके नीचे कृष्ण रोहिणी और सागर, इन्द्रशुम्न में स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता ॥३४॥

मल्लानामशनिः नृणाम् नरवरः स्त्रोणांस्मरोमूर्तिमान् ।
 गोपानां स्वजनेऽसतांक्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोशपुः ॥३॥
 मृत्युर्मोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनाम् ।
 वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः ॥३५॥

मल्लशाला में बलभद्र के साथ पहुँचने पर भगवान् कृष्ण मनुष्यों को नर श्रेष्ठ, स्त्रियों के मूर्तिमान् कामदेव गौषों को स्वजन दुष्ट राजाश्री को, शासन करने वाला, जो वृद्ध पिता के थे उन्हें शिपुरूपमें कंस को मृत्यु रूप में, विद्वानों को विराट रूप में योगियों के परम तत्त्वरूप में वृष्णां भक्तों को बड़े देव के रूप में बलभद्र के साथ मण्डप में गये । तब दिखायी दिये ॥३५॥

श्री हिमानार्थवासात्साचाऽपि परिणयिनि ॥

ब्राह्मी श्री सुदुभा श्री हि मज्ञाः हिंनिन क्षत्रियः ॥१॥३६

हे क्षत्रिय श्रेष्ठ । लक्ष्मी के सहवास से सुख तथा मान तो मिलता है, परन्तु यह परलोक का नाश करती है । और माझो लक्ष्मी अज्ञानी को मिलनी कठिन है ॥३६॥

छित्वा पाशमपास्य कूटर चनां भंक्त्वा पालाद्वा गुरां ।

पर्यन्ताग्निः शित्वाकलाप जटिला मुत्प्लुत्य धापमृगः ॥

व्याधानां शरगोचरादति जवे नोत्प्लुन्य गच्छन्नयो ।

रूपान्तः पतितः फरोतुविमुखे किवाविर्षांपूष्यः ॥३७॥

पास का छेदन करके कूट रचना वागुरा को तोड़कर चारों ओर से जाइवत्यमान अग्नि की प्रचण्ड ज्वालाओं को उल्लघन करके दौड़ता हुआ मृग व्याधों के वाणों के समुख से भी बचकर अति शीघ्रता पूर्वक जाता हुआ किसी भयानक कूप में गिर पड़ा, हाथ, भाग्य के विमुख होने पर पुत्रपत्या करे ?

मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टस्त्रीभरणेन च ॥

दुःखितैः संप्रयोगेण पण्डितोऽप्यवसीदति ॥३८॥

मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का पोषण करने से दुखी मनुष्यों के साथ व्यवहार से परिहृत भी दुःखी होता है ॥३८॥

दुष्टा भार्या शठ मित्रा मृत्युश्चोत्तर दायका ॥

स सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ॥३९॥

दुष्टभार्या, शठमित्र और सम्मुख उशर देनेवाला नौकर तथा जिसघर में सर्प रहता हो उस घर में रहना मृत्युके सुर्य ही है ॥३९॥

आपदर्थे धनं रक्ष दारान् रक्षेद् धनै रपि ।

आत्मानं सततं रक्षे दारै रपि धनै रपि ॥ ४० ॥

आपत्ति के लिए द्रव्य का रक्षण करना, धन खर्च करके भी स्त्री की रक्षा करे । आत्म रक्षार्थ स्त्री और धन दोनों का उपयोग करे ॥ ४० ॥

यस्मिन्देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधव ।

न च विद्या गमोऽप्यस्ति वासं तत्र न कारयेत् ॥४१॥

जिस देश में न मान हो, न सुवृत्ति ही हो, न बांधव हों, तथा विद्या वृद्धि का साधन भी न हो वहाँ वास नहीं करना चाहिये ॥ ४१ ॥

धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्मस्तु पंचमः ।

पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत् ॥ ४२ ॥

जहाँ धनिक, श्रोत्रिय, राजा, नदी, और वैद्य, यह पाँचों न हों वहाँ एक दिन भी वास न करे ॥ ४२ ॥

लोक यात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्य त्याग शीतला ।

पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्या तत्र संगतिम् ॥ ४३ ॥

जिनमें (जहाँ) निर्घाह साधन, द्रुगुणों का भय, लज्जा, कौशल्प और उदारता यह पाँचों न हों वहाँ संगत न करे ॥ ४३ ॥

जानिथात् प्रेपथे भृत्यान् बांधवान् व्यसना गमे ।

मित्रं चापत्ति कालेतु भार्या च विभक्तये ॥४४॥

आत्मा देने से नौकर की दुःख आने पर बन्धुओं की आपत्ति आने पर मित्र की और धन नाश होने पर स्त्री की परीक्षा होती है ॥ ४४ ॥

आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्विसे शत्रु संकटे ।

राजदारे द्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः ॥ ४५ ॥

चित्त की व्यग्रता, दुःख-आने पर, दुष्काल में, शत्रु से लड़ने में, राज-दरवार और स्टेशन में जो साथ दे, वही धान्धव है ॥ ४५ ॥

यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम् परि सेवते ।

ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च । ४६ ॥

जो मनुष्य निश्चित का त्याग कर, अनिश्चित का सेवन करता है । उसका निश्चित पदार्थ तो नष्ट हो जाता है तथा अनिश्चित तो नष्ट है ही । ४६ ॥

नदीनां शस्त्रपाणीनां नखिनां शृङ्गिणां तथा ।

विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥ ४७ ॥

गहरी नदियों का, हथियार वाले मनुष्य का, नख वाले पशु का सींग वाले जानवरों का, स्त्री और राजकुल का कभी विश्वास नहीं करना ॥ ४७ ॥

विषादप्यमृतं प्राप्य, ममेध्यादपि काञ्चनम् ।

नीचादप्युत्तमां विद्यां स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ ४८ ॥

विष से अमृत अशुद्ध जगह का सुवर्ण, नीच से भी उत्तम गुण और दुष्कुलसे भी स्त्री रत्न ग्रहण कर लेना चाहिये ॥ ४८ ॥

स्त्रीणां द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा ।

साहसं षड्गुणं चैव कामश्चाष्ट गुणः स्मृतः ॥ ४९ ॥

स्त्री में पुष्ट्य से द्विगुण आहार, चतुर्गुण लज्जा छे।
साहण और आठ गुणा काम रहता है ॥४९॥

अनृतं साहसं माया मूर्खस्वमतिलोभता ।

अशौचत्वं निर्दयत्वं स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥५०॥

स्त्री में झूठ-बोलना, साहस, माया, मूर्खता, कृपणता
अशुद्धपना, निर्दयहीनता ये स्वाभाविक गुण रहते हैं ॥५०॥

भोज्यं भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वराडाना ।

विभवो दानशक्तिश्च नालपंड्यतपसः फलम् ॥५१॥

भोग्य, भोग्य शक्ति, सुन्दर स्त्री-रतिशक्ति । धन और दान
शक्ति यह सब घाते होना थोड़े तप का काम नहीं । अर्थात्
पड़ी तपस्या के बाद यह घन्तुप मिलती हैं ॥५१॥

यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी ।

विभवेमथ संतुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैवहि ॥५२॥

जिसका आशाकारी पुत्र हो, आशानुसार चलने वाला
स्त्री, ईश्वरेच्छानुफूल प्राप्त पदार्थों में सन्तोष रखने वाले पुरुष
के लिये यही स्वर्ग है ॥५२॥

ते पुत्रा ये पितृ भक्ताः सपिता यस्तु पोषकः ।

तन्मित्रं यत्र विश्वास सा भार्या यत्र निर्वृतिः ॥५३॥

यह ही पुत्र सुपुत्र हैं जो पिता के भक्त हैं, जो पोषण करे
यही पिता हैं । जिसमें विश्वास हो यही मित्र है जिससे सुख
मिले यही स्त्री है ॥५३॥

परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनेम् ॥

वर्जयेत् तादृशं मित्रं विपकुम्भम्पयोमुखम् ॥ ५४ ॥

पीछे जो कार्य नाश करने को घात लगाता हो, तथा मन्मथ, मोटा, बोले, उस धादमी को, ऊपर दुग्ध से आच्छन्न हलाहल से भरे हुए घड़े की तरह त्याग देना चाहिये ॥ ५४ ॥

न विश्वसेत् कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत् ॥

कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत् ॥ ५५ ॥

कुमित्र का कभी भी विश्वास न करो, तथा मित्र का भी पूर्ण विश्वास न करो। क्योंकि कभी मित्र प्रतिकूल तथो प्रोहित होकर अपना सय गुप्त रहस्य अकट कर सकता है

॥ ५५ ॥

मनसा चिन्तितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् ॥

मन्त्रचन्द्रक्षयेद्गृहं कामं चापि नियोजयेत् ॥ ५६ ॥

मनसे विचारे हुए कार्य को वाणी से कभी मत कहो। उसे मंत्र के सदृश छिपाये रहो और गुप्त तीर पर ही कार्य सिद्धि करलो ॥ ५६ ॥

कष्टं च ग्वलु मूर्खत्वं कष्टं च ग्वलु यौवनम् ॥

कष्टात्कष्टतरञ्चैव परंगेहनिवासनम् ॥ ५७ ॥

मनुष्य की गूर्गता भी दुःख देने वाली है, यौवन भी कष्ट दायक है। परन्तु दूसरे के घर में वास करना घोर दुःखकर है ॥ ५७ ॥

शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गंजे ॥

साधवो नहि सर्वत्र चंदनं न वने वने ॥ ५८ ॥

सब पर्वतों में माणिक्य नहीं होते और न प्रत्येक हाथी में गजमुक्ता ही होती है। इसी प्रकार न सर्वत्र साधु ही होते हैं और न सब वन में चन्दन ही होता है ॥ ५८ ॥

पुत्राश्च विविधैः शीलैर्निघोज्याः संततं बुधैः ॥

नीतिज्ञाः शीलसंपन्ना भवन्ति कुलपूजिताः ॥ ५९ ॥

विद्वज्जनों को सर्वदा अपने पुत्रों को नाना प्रकार के शीलों (गुणों) में लगाना चाहिये, क्योंकि नीतिज्ञ और शील सम्पन्न पुत्र ही कुल पूज्य बनता है ॥ ५९ ॥

माता रिपुः पिताश्चरुर्बालो येन न पाठ्यते ॥

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये यको यथा ॥ ६० ॥

जिन्होंने अपने बालक को नहीं पढ़ाया ये माता पिता शत्रु हैं। यह बालक विद्वत्समाज में, हंसों में यगुलों की तरह, शोभित नहीं होता ॥ ६० ॥

लालने यहवो दोषास्ताडने यहवो गुणाः ॥

तस्मात् पुत्रश्च शिष्यश्च ताडयेन्नतु लालयेत् ॥ ६१ ॥

लाड़ (प्यार) करने में बहुत दोष है तथा ताड़न करने में बहुत से गुण हैं। इसलिये पुत्र और शिष्य को हमेशा शिक्षा देये, फर्मा प्यार न करे ॥ ६१ ॥

श्लोकाद्धेन तदद्धेन तदद्धार्धाक्षरेण वा ॥

अवध्यं दिवसं कुर्याद्ध्यानाध्ययनकर्मभिः ॥ ६२ ॥

एक श्लोक अथवा आधा, उससे भी आधा या एक अक्षर का ही अभ्यास करके दिन को दानाध्ययनादि सत्कर्म से पूर्ति करे अर्थात् निष्फल न खोवे ॥ ६२ ॥

कान्तावियोगः स्वजनापमानो

ऋणस्य शेषः कुनृपस्य सेवा ।

दरिद्रभावो विपमा सभा च

विनाग्निमेते प्रदहन्ति कायम् ॥ ६३ ॥

शीलवती स्वनारी से वियोग, स्वजन से किया हुआ अपमान, कर्ज का शेष, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता, अविद्येकी पुरुषों का समाज ये सब विना अग्नि के शरीर को जला देते हैं ॥ ६३ ॥

नदीतीरे च ये वृक्षाः परगोद्वेषु कामिनी ॥

मन्त्रिहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्त्यसंशयम् ॥ ६४ ॥

नदी किनारे का वृक्ष, दूसरे के घर में गई हुई औरत, मन्त्री हीन राजा ये सब शीघ्र ही नष्ट होते हैं ॥ ६४ ॥

धलं विद्या च विप्राणां राज्ञां सैन्यबलं तथा ॥

धलं विरां च वैश्यानां शूद्राणां च कनिष्ठिका ॥ ६५ ॥

ब्राह्मणों को विद्या, राजाओं का सैन्य, और वैश्यों का धन तथा शूद्रों का सेवा ही बल है ॥ ६५ ॥

दुराचारी च दुष्टः दुरावासी च दुर्जनः ॥

यैमैत्री क्रियते पुम्भिर्नरः शीघ्रं विनश्यति ॥ ६६ ॥

दुराचारी, पापदृष्टिवाला तथा कुस्थान में रहने वाला दुर्जन ऐसे पुरुष से जो मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट होता है ॥ ६६ ॥

समाने शोभते प्रीति राशिं सेवा च शोभते ॥

वाणिज्यं व्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते गृहे ॥ ६७ ॥

धरावर वाले से मित्रता, राजा की सेवा, व्यवहार में वाणिज्य और घर में दिव्य स्त्री शोभित होती है ॥ ६७ ॥

कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीडितः ॥

व्यसन्नं केन न प्राप्तं कस्य सौख्यं निरंतरम् ॥ ६८ ॥

किसका कुल सर्व दोष रहित है? व्याधि ने किसको पीडित नहीं किया? संकट किसे प्राप्त नहीं हुआ? तथा दमेशा सुख किसको रहा है? अर्थात् यह वस्तुएं सभी को यथा भाग्य ही मिलती हैं ॥ ६८ ॥

आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति आपणम् ॥

संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम् ॥ ६९ ॥

आचार कुलको फहता है, भाग्य देश, यतलाती है आदर

करना ही प्रेम का धोतक है । शरीर की आकृति ही खाद्य श्रेष्ठ अथवा भोजन को चतुर्ललाती है ॥ ६६ ॥

सत्कुले योजयेत् कन्यां पुत्रं विद्यासु योजयेत् ॥

व्यसने योजयेच्छत्रुं मित्रं धर्मेण योजयेत् ॥ ७० ॥

। कन्या अच्छे कुल में देनी चाहिये तथा पुत्र को विद्या-
भ्यास में लगाना चाहिये । शत्रु को संकट में और मित्र को
धर्म में प्रवृत्त कराना चाहिये ॥ ७० ॥

दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः ॥

सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे ॥ ७१ ॥

दुर्जन और सर्प में सर्प ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्प तो
समय से काटना है परन्तु दुर्जन पद पद पर मर्म छेदन
करता है ॥ ७१ ॥

एतदर्थं कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् ॥

आदिमध्यावसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम् ॥ ७२ ॥

राजा कुलीन पुरुषों का संग्रह इस लिये करता है कि यह
आदि मध्य अन्त (उत्कर्ष, अपकर्षोत्कर्ष, अपकर्ष) में राज
को नहीं छोड़ते । अर्थात् प्रत्येक समय उसकी सहायता करते
हैं ॥ ७२ ॥

मूर्खस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो विपदः पशुः ॥

भिद्यते चाकपराख्येन अदरां फटफो यथा ॥ ७३ ॥

मूर्ख पुरुष का सर्वदा त्याग ही करना चाहिये, क्योंकि वह प्रत्यक्ष दो पैर का पशु है, तथा सर्वदा अपने वाग्घ्राण से वेधता रहता है, जैसे अन्धे को कांटा वेधता है ॥ ७३ ॥

रूपयौवनसंपन्ना विशालकुलसंभवाः ॥

विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥ ७४ ॥

सुन्दर रूप और यौवन से सम्पन्न तथा उच्च कुल में उत्पन्न भी विद्याविहीन ॥ पुरुष अच्छा नहीं लगता जैसे खूबसूरत पलास का फूल भी निर्गन्ध होने से अच्छा नहीं लगता ॥ ७४ ॥

कोकिलानां स्वरों रूपं स्त्रीणां रूपं पतिव्रतम् ॥

विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनाम् ॥ ७५ ॥

कोकिलों का स्वर, स्त्रियों का पतिव्रत, कुरूपों की विद्या और तपस्वियों की क्षमा ही स्वरूप है ॥ ७५ ॥

उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम् ॥

मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम् ॥ ७६ ॥

उद्योग से दरिद्र नष्ट होता है जप से पातक, मौन रहने से कलह तथा जागने में भय नहीं होता ॥ ७६ ॥

अतिरूपेण वै सीता अतिगर्वेण रावणः ॥

अति दानाद्दुर्लभद्वो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत् ॥ ७७ ॥

अति रूपयती होने से सीता, अति गर्व से रावण, अधिक

दान से बलि बंधा इसलिये किसी भी काम में ज्यादाती नहीं
करनी चाहिये ॥ ७७ ॥

को हि भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् ॥

को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥ ७८ ॥

समर्थ पुरुष को भार भार ही नहीं । उद्योगियों को कुछ
दूर नहीं, विद्वानों को कहीं भी विदेश नहीं और मीठा बोलने
वालों का कोई भी शत्रु नहीं होता है ॥ ७८ ॥

एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना ॥

वासितं तदनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा ॥ ७९ ॥

एक ही सुवृक्ष के सुगन्धित-पुष्प-फल से घन सुवा-
सित हो जाता है, जैसे सुपुत्र से कुल प्रख्यात हो जाता
है ॥ ७९ ॥

एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वहिना ॥

दह्यते तदनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा ॥ ८० ॥

एक सूखे वृक्ष में अग्नि लगने से घट-सम्पूर्ण घन जल
जाता है, ठीक ऐसे ही एक सुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है ॥ ८० ॥

एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना ॥

आहादितं कुलं सर्वं यथा चन्द्रेण शर्वरी ॥ ८१ ॥

एक ही विद्यायुक्त-सज्जन-सुपुत्र से कुल आनन्दित हो
जाता है जैसे एक ही चन्द्रमा से रात्रि शोभित होती है ॥ ८१ ॥

किं जातैर्बहुभिः पुत्रैः शोकसन्तापकारकैः ॥

वरमेकः कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम् ॥ ८२ ॥

॥शोक सन्ताप देने वाले बहुत से पुत्रों की अपेक्षा कुलालम्बी एक ही पुत्र श्रेष्ठ है जिससे कुलालको विश्रान्ति मिलती है ॥ ८२ ॥

लालयेत् पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत् ॥

प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रस्वमाचरेत् ॥ ८३ ॥

बालक को पांच वर्ष तक प्यार करे, दश वर्ष तक ताड़ना करे । मगर जब पुत्र सोलह वर्ष का हो तो उस से स्वमित्र की तरह आचरण करे ॥ ८३ ॥

उपसर्गेऽन्यत्रोच्च दुर्भिक्षे च भयावहे ॥

असाधुजनसंपर्के यः पलायेत् स जीवति ॥ ८४ ॥

रोगादि के उपद्रव से, शत्रु सैन्य से पराजित तथा भयंकर दुष्काल में और दुष्टों के संग से जो भागे वही जीवित रह सकता है अन्यथा नहीं ॥ ८४ ॥

धर्मार्थकाममौक्षेषु यस्यैकोपि न विद्यते ॥

जन्म जन्मानि मर्त्येषु मरणं तस्य कैवलम् ॥ ८५ ॥

जिसने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों में से एक भी उपार्जित नहीं किया । उसके फल जन्मों का फल मृत्यु ही है अर्थात् उसका जीवन मृत्या है ॥ ८५ ॥

सूर्वा यत्र न पूज्यन्ते धान्यां यत्र सुसंचितम् ॥
दम्पत्योः कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयंमागतो ॥८६॥

जहाँ मूर्खों को मान नहीं होता, और जहाँ अन्न का संग्रह किया जाता है और जहाँ दाम्पत्य में प्रेम है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है ॥ ८६ ॥

आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च ॥
पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥८७॥

आयु, कर्म, धन, विद्या तथा यह पांच वस्तुएं जीव को गर्भ में ही प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात् गर्भ में ही लिख दी जाती हैं ॥ ८७ ॥

दर्शनध्यानसंस्पर्शं मत्सो कूर्मो च पक्षिणी ॥
शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जनसंगतिः ॥ ८८ ॥

जिस तरह मछली देखकर, कच्छणी ध्यान से और चिड़िया स्पर्श से अण्डे सेती है। बच्चों का पालन करती है) उसी प्रकार दर्शन, स्पर्शन, और ध्यान से सज्जनों की संगति रक्षा करती है ॥ ८८ ॥

कामधेनुगुणां विद्या एकाले फलदायिनी ॥
प्रयासे मातृसदृशी विद्या गुप्तधनं स्मृतम् ॥ ८९ ॥

विद्या कामधेनु की तरह इच्छित फल देती है। यह एकाल

में भी फल देती है। प्रयास में माता के सदृश रक्षा करती है। इस लिये, विंघा को गुप्त धन कहा गया है ॥ ८६ ॥

एकोऽपि गुणवान् पुत्रो निर्गुणैश्च शतैर्वरः ॥

एकरचन्द्रस्तमो हन्ति न च तारासहस्रशः ॥ ६० ॥

हजारों तारे भी, अन्धकार को नष्ट नहीं कर सकते परन्तु एक ही चन्द्र अंधकार को नष्ट कर सकता है। उसी प्रकार हजारों निर्गुण पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है ॥ ६० ॥

मूर्खश्चिरायुर्जातोऽपि तस्माज्जातो मृतो वरः ॥

मृतः स चाल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत् ॥ ६१ ॥

यदि मूर्ख जन्म कर लम्बी आयु भोगने की अपेक्षा जल्द मर जाय तो अच्छा है। क्योंकि जन्मते ही मर जाने से वह थोड़ा दुःख देता और ज्यादा जीने से अधिक दुःख देता है ॥ ६१ ॥

कुग्रामवासः कुलहीनसेवा

कुभोजन क्रोधमुखी च भार्या ।

पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या

विनाग्निना पट् प्रदहन्ति कायम् ॥ ६२ ॥

दुरे ग्राम में वास, कुलहीन की सेवा, खराब भोजन, क्रोधी स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या यह सब विना अग्नि के काया को जलाते हैं ॥ ६२ ॥

किं नया क्रियते धेन्या या न दोग्धी न गुर्विणी ॥

कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् भक्तिमान् ॥ ६३ ॥

उस गऊ से क्या लाभ है जो न तो दूध देती है और न यथा देती है। इसी प्रकार उस पुत्र से क्या लाभ जो न तो भक्त ही है और न विद्वान् ही है ॥ ६३ ॥

संसारतापद्गधानां त्रयो विश्रान्तिहेतवः ॥

अपत्यं च कलत्रं च सतां संगतिरेव च ॥ ६४ ॥

संसार रूपी ताप से जले हुए पुरुषों को तीन पस्तुओं से ही शान्ति मिलती है। एक पुत्र दूसरी स्त्री तीसरी संतुष्टियों की संगति ॥ ६४ ॥

सकृन्नल्पनि राजानः सकृन्नल्पनि पंडिताः ॥

सकृत्कन्या प्रदीयेत त्रीण्येतानि सकृत्सकृत् ॥ ६५ ॥

राजा एक बार ही आसत देते हैं, पंडित एक बार ही बोलते हैं और कन्या का दान भी एक ही बार होता है अर्थात् यह तीनों यात एकर २ नहीं होती ॥ ६५ ॥

एकाकिना तपो द्वाभ्यां पठनं गायनं त्रिभिः ॥

चतुर्भिर्गमनं क्षेत्रं पंचभिर्गह्वरी रणम् ॥ ६६ ॥

थकेले में भजन, दो में पठन, तीन में गायन चार में यात्रा, पांच में गेती और संसंख्य पुरुष रण में योग्य समझे जाते हैं ॥ ६६ ॥

सा भार्या या शुचिर्दत्ता सा भार्या या पतिव्रता ॥
 सा भार्या या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी ॥६७॥
 वही स्त्री सुखी है जो पवित्र और चतुर है, स्त्री वही है जो पतिव्रता है, वही स्त्री-स्त्री है जो पति-प्रिया है । स्त्री उसे ही समझो जो सत्य बोलनेवाली है ॥ ६७ ॥

अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशः शून्यास्त्ववांधवाः ॥
 मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्या दरिद्रता ॥ ६८ ॥

पुत्र विना घर शून्य, वान्धव विना दिशाएं शून्य, मूर्ख का हृदय और दरिद्रता सर्व शून्य है । अर्थात् यह सब शोभित नहीं होते ॥ ६८ ॥

अनभ्यासे विषं शास्त्रमजीर्णं भोजनं विषम् ॥
 दरिद्रस्य विषं गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम् ॥ ६९ ॥

अभ्यास विना शास्त्र, अजीर्ण में भोजन, दरिद्र को सभा और वृद्ध के लिये स्त्री विषरूप हैं ॥ ६९ ॥

स्यजेद्धर्मं दयाहीनं विद्याहीनं गुरुं स्यजेत् ॥
 स्यजेत्क्रोधमुखीं भार्यां निःस्नेहान् वांधवांस्त्यजेत् १००

दया हीन, धर्म विद्या हीन गुरु, क्रोध मुखी भार्या और प्रेमहीन वन्धुओं को त्याग देना चाहिये ॥ १०० ॥

अध्वा जरा मनुष्याणां अनध्वा चाजिनां जरा ॥
 अमैथुनं जरा स्त्रीणां वस्त्राणामातपो जरा ॥ १०१ ॥

मनुष्यों को मार्ग, घोड़ों को न चलना स्त्रियों को अमैथुन
 चर्यों को आतप (धूप) बूढ़ा करता है ॥ १०१ ॥

कः कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्यगाममौ ॥
 कस्याहं का च मे शक्तिरिति चिंत्यं मुहुर्मुहुः ॥ १०२ ॥

क्या समय है ? कौन मित्र हैं ? कौन देश है ? क्या आमद
 और खर्च है ? मैं किसका हूँ और मेरी शक्ति क्या है इसका
 धार धार विचार करना चाहिये ॥ १०२ ॥

पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥

गुरुरग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ॥ १०३ ॥

स्त्रियों का पति ही गुरु है, सब प्राणियों का अतिथि गुरु
 है। द्विजातियों का गुरु अग्नि और सब वर्णों का गुरु
 ब्राह्मण है ॥ १०३ ॥

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते

निघर्षणच्छेदनतापताडनैः ।

तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते

त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा ॥ १०४ ॥

जिस प्रकार घिसने, काटने तपाने और पीटने से सुवर्ण
 की परीक्षा होती है। उसी प्रकार त्याग, शील, गुण और कर्म
 से मनुष्य की परीक्षा होती है ॥ १०४ ॥

निःस्पृहो नाधिकारी स्थानाकामो मण्डनप्रियः ।

नाविदग्धः प्रियंत्रयात् स्वष्टवक्ता न पञ्चकः ॥ १०५ ॥

जिसको किसी बात की इच्छा न हो, न अधिकार-चाहता हो, जो कामी न हो, चतुरता (वाक् पटुता) से रहित हो, स्पष्ट वक्ता हो, तो वह कभी भी ठग नहीं हो सकता । अर्थात् दूसरे को धोखा नहीं दे सकता । ॥ १०५ ॥

मूर्खाणां पण्डिता द्वेष्या अधनानां सहाधनाः ।

वराङ्गनाः कुलस्त्रीणां सुभगानां च दुर्भगाः ॥ १०६ ॥

मूर्खों का पण्डितों के साथ, गरीबों का धनिकों के साथ, कुल वधू से वेश्या का और विधवा का सधवा से द्वेष होता है । यानी यह सब आपस में द्वेष करते हैं । ॥ १०६ ॥

आलस्योपहता विद्या परहस्तगतधनम् ।

अल्पबीजं हतं क्षेत्रं हतं सैन्यमनायकम् ॥ १०७ ॥

आलस्य से विद्या, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, स्वल्प बीज वाला खेत और बिना नायक की सेना नष्ट होती है ॥ १०७ ॥

अभ्यासाद्धार्यते विद्या कुलं शीलेन धार्यते ।

गुणेन ज्ञायते त्वार्यः कोपो नेत्रेण गम्यते ॥ १०८ ॥

अभ्यास से विद्या, शील से कुल, गुण से श्रेष्ठता तथा नेत्र से क्रोध मालूम होता है ॥ १०८ ॥

चित्तेन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते ।

मृदुनो रक्ष्यते भूपः सत्त्विया रक्ष्यते गृहम् ॥१०६॥

धर्म से धन का, योग से ज्ञान का, और कामलता से राजा का, अच्छी स्त्रियों से कुल की रक्षा होती है ॥१०६॥

दारिद्र्यनाशनं दानं शीलं दुर्गतिनाशनम् ।

अज्ञाननाशिनी प्रजा भावना भयनाशिनी ॥११०॥

दान से दरिद्रता का, शील से दुर्गुणों का, प्रजा से अज्ञान का और भक्ति से भय का नाश होता है ॥११०॥

नास्ति कामसमो व्याधिर्नास्ति मोहसमो रिपुः ।

नास्ति कोपसमो वन्दिर्नास्ति ज्ञानात्परं सुखम् ॥१११॥

काम से बड़ी व्याधि नहीं है, मोह के तुल्य शत्रु नहीं, क्रोध से बड़ी अग्नि नहीं है और ज्ञान से अधिक कोई सुख नहीं ॥१११॥

तृणं ब्रह्मविदः स्वर्गस्तृणं शूरस्य जीवितम् ।

जिताक्षस्य तृणं नारी निःस्पृहस्य तृणं जगत् ॥११२॥

ब्रह्मवेत्ता पुरुष को स्वर्ग, शूर वीरों को अपना जीवित, जिताक्षस्य को नारी तथा त्यागी पुरुष को सम्पूर्ण जगत् तृण के तुल्य है ॥११२॥

विद्या मित्रं मन्त्राक्षेपु भार्या मित्रं गृहेषु च ।

व्याधितस्यौषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च ॥११३॥

प्रवास में विद्या, घर में स्त्री, रोगी को औषध और मरणान्तर धर्म ही मित्र है ॥ ११३ ॥

वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृसेषु भोजनम् ।
वृथा दान धनाह्वयेषु वृथा दीपो दिवापिच ॥११४॥

॥ समुद्र में वृष्टि, तृप्त को भोजन, धनी को दान, तथा दिन में दीपक जलाना वृथा है ॥११४॥

नास्ति मेघसमं तोयं नास्ति चात्मसमं बलम् ।
नास्ति चक्षुःसमं तेजो नास्ति धान्यसमं प्रियम् ॥११५॥

मेघ समान शुद्ध जल, आत्म, बल के तुल्य बल नेत्र ज्योति के तुल्य तेज अन्न के तुल्य कोई प्रिय नहीं ॥ ११५ ॥

अधना धनमिच्छन्ति वाचं चैव चतुष्पदाः ।
मानवाः स्वर्गमिच्छन्ति भोक्षमिच्छन्ति देवताः ॥११६॥

निर्धन धन की, पशु प्रेम भरी वाणी की, मनुष्य स्वर्ग की और देवता मोक्ष की, अभिलाषा रखते हैं ॥ ११६ ॥

सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः ।
सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥११७॥

सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य के बल पर ही वायु चलती है । अर्थात् सब सत्य पर ही चलते (स्थिर) हैं ॥ ११७ ॥

चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणश्चले जीवितमन्दिरे ।
चला चले च संसारे धर्म एको हि निश्चलः ॥११८॥

लक्ष्मी भी चञ्चल है । शरीर भी नाशवान् है, गृह भी नाशवान् है । इस नाशवान् संसार में सिर्फ धर्म ही निश्चल है, अर्थात् स्थिर है ॥ ११८ ॥

नराणां नापितो धूर्ताः पक्षिणां चैव वायसः ।
चतुष्पदां शृगालस्तु स्त्रीणां धूर्ता च मालिनी ॥११९॥

मनुष्यों में नाई, पक्षियों में कौआ, चौपायों में शृगाल और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है ॥ ११९ ॥

जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति ।
अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृताः ॥१२०॥

पैदा करने वाले, यज्ञोपवीतादि संस्कार करने वाले विद्या पढ़ाने वाले, अन्न देने वाले और भय से रक्षा करने वाले यह पांच पिता कहलाते हैं ॥ १२० ॥

राजपत्नी गुरोः पत्नी मित्रपत्नी तथैव च ।
पत्नीमाता स्वमाता च पंचैता मातरः स्मृताः ॥१२१॥

राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्र की पत्नी, स्व स्त्री की माता और जननी यह पांचो माता कहलाती हैं ॥१२१॥

श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम् ।
श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात् ॥१२२॥

सुनने से ही धर्म का ज्ञान होता है, तथा सुनने से ही कुशुद्धि का त्याग, ज्ञान प्राप्ति और सुनने से ही मोक्ष मिलता है ॥ १२२ ॥

पक्षिणां काकचाण्डालः पशूनां चैव कुक्कुरः ।
मुनीनां पापचाण्डालः सर्वचाण्डालनिन्दकः ॥ १२३ ॥

पक्षियों में काक, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में पापाचरण करने वाला तथा सबसे चण्डाल दूसरे की बुराई करने वाला निन्दक होता है ॥ १२३ ॥

भस्मना शुध्यते कांस्यं ताम्रमाम्बलेन शुध्यते ।
रजसां शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यते ॥ १२४ ॥

॥ शंख से कांसा, खटाई से, तांबा, मासिक धर्म से स्त्री और प्रवाह से नदी शुद्ध होती है ॥ १२४ ॥

भ्रमन् संपूज्यते राजा भ्रमन् संपूज्यते द्विजः ।
भ्रमन् संपूज्यते योगी स्त्री भ्रमन्ती विनश्यति ॥ १२५ ॥

घूमने से राजा, ब्राह्मण और योगी की पूजा होती है, परन्तु घूमने वाली स्त्री का नाश होता है ॥ १२५ ॥

यस्यार्थस्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य वान्धवाः ।
यस्यार्थं सपुमान् लोके यस्यार्थः सच पंडितः ॥ १२६ ॥

जिसके पास संसार में धन है, उसी पुरुष के मित्र हैं, वन्धु हैं, और वही पुरुषार्थी है और वही पण्डित है ॥ १२६ ॥

तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायोऽपि तादृशः ।

सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता ॥१२७॥

जैसी भावी होती है, वैसी ही बुद्धि-हो जाती है । व्यवसाय और सहायता भी वैसी ही मिलती है ॥ १२७ ॥

न च पश्यति जन्मान्धः कामान्धो नैव पश्यति ।

मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्थी दोषं न पश्यति ॥१२८॥

जन्मान्ध, कामान्ध और मदोन्मत्तों को तथा अर्थी (स्वेष साधन शील) को दोष नहीं दीखता ॥ १२८ ॥

राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञः पापं पुरोहितः ।

भर्ता च स्त्रीकृतं पापं शिष्यपापं गुणस्तथा ॥१२९॥

राष्ट्र के पाप का भागी राजा, राजा के पाप का भागी पुरोहित, स्त्री के पाप का भागी पति तथा शिष्य के पाप का भागी गुरु होता है ॥ १२९ ॥

ऋणकर्त्ता पिना शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी ।

भार्या रूपवती शत्रुः पुत्रः शत्रुरपंडिनः ॥१३०॥

करज करने वाला पिता, व्यभिचारिणी माता, रूपवती स्त्री और मूर्ख पुत्र शत्रु के समान होता है ॥१३०॥

लुब्धमर्धेन गृहीयान् स्तब्धमत्रलिकर्मणा ।

मूर्ख धंदानुवृत्त्या च यथार्थत्वेन पंडिनम् ॥१३१॥

लोभी धन से, मानी सत्कार से, मूर्ख उसकी इच्छानुसार
 आचरण से और पंडित सदाचरण से घश में होते हैं ॥१३१॥

वरं न राज्यं न कुराजराज्यं

वरं न मित्रं न कुमित्रमित्रम् ।

वरं न शिष्यो न कुशिष्यशिष्यो

वरं न दाराः न कुदारदाराः ॥ १३२ ॥

राज्य न हो तो अच्छा, परन्तु दुष्ट राजा का राज्य अच्छा
 नहीं, मित्र न हो तो अच्छा, परन्तु दुष्ट मित्र अच्छा नहीं,
 शिष्य न हो तो अच्छा, परन्तु कुशिष्य अच्छा नहीं, विना
 स्त्री के अच्छा, परन्तु दुष्ट स्त्री अच्छी नहीं होती ॥ १३२ ॥

कुराजराज्येन कुतः प्रजासुखं,

कुमित्रमित्रेण कुतोऽस्ति निर्वृतिः ।

कुदारदारैश्च कुतो गृहे रतिः

कुशिष्यमध्यापयतः कुतो यशः ॥१३३॥

दुर्गुणी राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहां ? दुष्ट मित्र
 की मित्रता में सुख कहां ? इसी प्रकार दुष्ट स्त्री के रहने से
 घर में प्रेम कहां, तथा कुशिष्य के पढ़ाने में यश नहीं
 मिलता ॥ १३३ ॥

इन्द्रियाणि च संयम्य ब्रह्मवत् पंडितो नरः ।

देशकालबलं ज्ञात्वा सर्वकर्माणि साधयेत् ॥१३४॥

विद्वान् पुरुष को बगुले की तरह सब इन्द्रियों का निग्रह करके देश काल और शक्ति के अनुकूल सर्व कार्य सिद्ध करनी चाहिये ॥ १३४ ॥

अर्थनाशं मनस्तापं गृहिणी चरितानि च ।
नीचवाक्यां चापमानं मतिमान्न प्रकाशयेत् ॥१३५॥

बुद्धिमान को धन का क्षय, मन का संताप, स्वस्त्री का चरित्र, दुर्जन के वाक्य, दूसरे से हुआ अपमान प्रकाशित नहीं करना चाहिये ॥१३५॥

संतोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्तिचेतसाम् ।

कृतस्तध्वनलुब्धानांमिदश्चेतश्च धावताम् ॥१३६॥

सन्तोष रूपी अमृत से तृप्त हुएको शान्ति-मिलती है । वह शान्ति (सुख) लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले को नहीं मिलती ॥ १३६ ॥

संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने ।
त्रिषु चैवं न कर्तव्योऽध्ययने जपदानयोः ॥१३७॥

अपने भाग्यानुसार प्राप्त धन, स्त्री और भोजन में सर्वदा सन्तुष्ट रहे । अध्ययन, जप और दान इन तीन वस्तुओं में कभी संतोष न करे ॥ १३७ ॥

विप्रयोर्विप्रवन्ह्योरश्च दंपत्योः स्वामिभृत्ययोः ।
अंतरेण न गंतव्यां हरस्य वृषभस्य च ॥१३८॥

दो ब्राह्मणों के बीच से, अग्नि और ब्राह्मण के बीच से पति पत्नी, मालिक, नौकर नन्दी और शंकर के बीच से कर्मी न जाय ॥१३८॥

पादाभ्यां न स्पृशेदग्निं गुरुं ब्राह्मणमेव च ।
नैव गां न कुमारीं च न वृद्धं न शिशुं तथा ॥१३९॥

अग्नि, गुरु ब्राह्मण, गौ, कुमारी, वृद्ध और शिशु इनके पैर से स्पर्श न करे; (इसमें पाप होता है ॥ १३९ ॥

शकटात् पंचहस्तेन दशहस्तेन वाजिनः ।
गर्जं हस्तेसहस्रेण देशत्यागेन दुर्जनात् ॥१४०॥

गाड़ी से पांच हाथ, घोड़े से दस हाथ, और हाथी से हजार हाथ दूर रहे, तथा जिस देश में दुर्जन रहता है, वह देश (प्रान्त) त्याग देना चाहिये ॥१४०॥

गजो ह्यं कुशमात्रेण वार्जां हस्तेन ताड्यते ।
शृङ्गी लगुडहस्तेन खड्गहस्तेन दुर्जनः ॥१४१॥

हाथी अंकुश से, हाथ से घोड़ा, सींग वाले जानवर को लाठी से और दुर्जन को खड्ग से घृश में करे ॥ १४१ ॥

तुष्यन्ति भोजने विप्राः मयूराः धनगर्जिते ।
साधवः पिरसंपत्तौ खलाः परविपत्तिषु ॥१४२॥

ब्राह्मण लोग भोजन से, मोर चादल के गर्जन से, सज्जन लोग दूसरों को धन मिलने से, और दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आने से खुश होते हैं ॥१४२॥

अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन दुर्जनम् ।

आत्मतुल्यबलं शत्रुं विनयेन बलेन वा ॥१४३॥

अपने से बलवान शत्रु को उसी के आचरण से, दुष्ट शत्रु को विपरीत आचरण से और अपने समान बल वाले शत्रु को ताकत या नम्रता से बश में कर ॥१४३॥

बाहोचीयं बलं राज्ञो ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वली ।

रूपयोवनमाधुर्यं स्त्रीणां बलमनुत्तमम् ॥१४४॥

राजा का बल पराक्रम है, ब्रह्म याने वेद का ज्ञान ही ब्राह्मण का बल है, और स्त्रियों का रूप एवं जवानी की मधुरता ही बल है ॥ १४४ ॥

नात्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वां पर्यं वनस्यलीम् ।

छिद्यंते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥१४५॥

अत्यन्त सरलता से रहना भी दुःख का कारण होता है, जंगल में जाकर देखो, सरल अर्थात् सीधे पेड़ जल्दी काटे जाते हैं, कुबड़े पेड़ों को कोई देखता भी नहीं ॥ १४५ ॥

यत्रोदकं तत्र वसन्ति हंसास्तथैव शुष्कं परिचर्जयन्ति ।

न हंसतुल्येन नरेण भाव्यं पुनस्त्यजन्ते पुनराश्रयन्ते ॥१४६॥

जहां पर पानी रहता है वहाँ हंस रहते हैं। और सूख जाने पर उस जगह को छोड़ देते हैं। मनुष्य को हंस की तरह

रहना नहीं चाहिये कि, एक जगह को छोड़ कर पुनः उसका आश्रय करें ॥ १४६ ॥

स्वर्गस्थितानामिह जीवलोकै,
चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे ।

दानप्रसंगो मधुरा च वाणी,
देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च ॥१४७॥

स्वर्ग में रहने वाले मनुष्यों के चार चिह्न होते हैं, जैसे—
(१) दान देना, (२) मीठी बोली, (३) देवताओं की पूजा,
(४) और ब्राह्मणों को तृप्त करना ॥ १४७ ॥

अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी,
दरिद्रता बंधुजनेषु वैरम् ।
नीचप्रसङ्गः कुलहीनसेवा,
चिह्नानि देहे नरकस्थितानाम् ॥१४८॥

नरक में रहने वालों जीवों के ये चिह्न होते हैं। जैसे—
(१) बहुत क्रोध, (२) कड़ी बोली (३) दरिद्रता, (४) अपने रिश्तेदारों से दुश्मनी, (५) नीचों का सहवास और (६) कुल हीनों की सेवा ॥ १४८ ॥

गम्यते यदि मृगेन्द्रमंदिरं
लभ्यते करिकपोलमौक्तिकम् ।

जम्बुकालयगते च लभ्यते, वि. वि. भाष्येण ।
 वस्सपुच्छखरचर्मखंडनम् ॥१४६॥

यदि सिंह के माद में जाय तो उसे हाथी के कपोल की मोती मिलती है। और सियार के स्थान में जाने से घड़वे की पूंछ एवं गदह के घमड़े का टुकड़ा पाया जाता है ॥ १४६ ॥

शुनः पुच्छमिध व्यर्थं जीवितं विद्या विना ।
 न गुह्यगोपने सक्तं न च दंशनिवारणे ॥१५०॥

विद्या के विना जीना कुत्ते के पोंछ के जैसे बेकार है। क्योंकि कुत्ते की पोंछ न गुप्त बात छिपा सकती है और न मच्छरादि को उड़ाही सकती है ॥ १५० ॥

पुष्पे गंधं तिले तैलं काण्डे वह्निः पयो घृतम् ।
 इक्षौ गुडं तथा देहे परयात्मानं विवेकतः ॥१५१॥

जैसे पुष्प में सुगन्ध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी और रस में गुड़ छिपा रहता है। वैसे ही शरीर में आत्मा रहता है, इसे विवेक पूर्वक देखो ॥ १५१ ॥

अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः ।
 उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् ॥१५२॥

अधम पुरुष धन की इच्छा करते हैं, मध्यम वर्ग के लोग धन एवं मान चाहते हैं और उच्चकोटि के मनुष्य केवल

मान अर्थात् सम्मान ही की कामना करते हैं, क्यों कि मान ही महात्माओं का धन है ॥ १५२ ॥

दूधुरापः पयो मूलं तांबूलं फलमौषधम् ।

भक्षयित्वापि कर्णव्याः स्नानदानादिकाः क्रियाः ॥ १५३ ॥

॥ ईख, पानी, दूध, मूल, पान, फल और खाने पर स्नान दानादि कर्म कर सकते हैं ॥ १५३ ॥

दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कज्जलं च प्रसूयते ।

यदन्नं भक्ष्यते नित्यं जायते तादृशी प्रजाः ॥ १५४ ॥

जैसे दीपक अन्धकार को खाकर काजल पैदा करता है, सत्य है, जैसा अन्न रोज खाया जाता है वैसी ही सन्तान होती है ॥ १५४ ॥

तैलाभ्यंगे चिताधूम्रं मैथुने चौरकर्मणि ।

तांबूद्भवति चांडालो यावत्स्नानं समाचरेत् ॥ १५५ ॥

तेल लगाने के बाद, चिता का धूँआ शरीर पर लगाने के बाद, मैथुन याने स्त्रीसंग के बाद और बाल बनवाने के बाद तब तक मनुष्य चाण्डाल रहता है जब तक कि स्नान न कर लेता है ॥ १५५ ॥

अजीर्णं भेषजं वारि जीर्णं वारि, बलप्रदम् ।

भोजने चामृतं वारि, भोजनांते, विषप्रदम् ॥ १५६ ॥

अपच में पानी, पीना ही द्रितकर होता है, पचने पर

जल ताकृत देता है और भोजन के शीघ्र में जल पान अमृत के बराबर होता है । एवं भोजन के बाद जल पीना विपतुल्य होता है ॥ १५६ ॥

हृतं ज्ञानं क्रियाहीनं हतश्चाज्ञानतो नरः ।

हृतः निर्नायकं सैन्यं स्त्रियो नष्टा ह्यभर्तृकाः ॥१५७॥

सदाचार, विना ज्ञान व्यर्थ होता है, अज्ञान से मनुष्य मारा जाता है, सेनापति के विना सेना नष्ट होती है और पति के विना स्त्री नष्ट हो जाती है ॥ १५७ ॥

वृद्धकाले मृता भार्या धन्युहस्तगतं धनम् ।
भोजनं च पराधीनं तिस्रः पुंसां विडम्बनाः ॥१५८॥

वृद्धापे में स्त्री का मर जाना, भाईयों के हाथ गया हुआ धन एवं पराधीन भोजन ये तीन पुरुषों को विडम्बना है अर्थात् दुःखदायक होते हैं ॥ १५८ ॥

अग्निहोत्रं विना वेदान् च दानं विना क्रियाः ।
न भावेन विना सिद्धिस्तस्मात्भावो हि कारणम् ॥१५९॥

अग्निहोत्र के विना वेद और दान के विना कर्म धृया है । एवं भाव के अर्थात् श्रद्धा के विना सिद्धि नहीं होती है । इसे लिये प्रेम ही सब का मूल कारण है ॥ १५९ ॥

न देवो विद्यते काष्ठे न पापाणे न मृगमये ।
भावे हि विद्यते देवस्तस्मात्भावो हि कारणम् ॥१६०॥

१. देवता। नालकड़ी में, न पत्थर में और न मट्टी में रहते हैं। केवल जहां श्रद्धा होती है। वहाँ सब कुछ है। इसलिये श्रद्धा नहीं मूल कारण है ॥ १६० ॥

शांति तु लयं तपो नास्ति न संतोषात्परं सुखम् ।

न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दयापरः ॥ १६१ ॥

१. शांति को समान। दूसरा तप नहीं है। संतोष से धरे न सुख नहीं है, न तृष्णा से। दूसरी व्याधि और दया से न अधिक धर्म है ॥ १६१ ॥

क्रोधो वैजस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी ।

विद्या कामदुया धेनुः संतोषो नेदंनं वनम् ॥ १६२ ॥

१. गुस्ता यमराज के सदृश होता है, तृष्णा याने चाह वैतरणी नदी के समान है, विद्या काम धेनु गाय के तुल्य है और संतोष मानों इन्द्र की घाटिका ही है ॥ १६२ ॥

गुणो भूपयते रूपं शीलं भूपयते कुलम् ।

सिद्धिर्भूपयते विद्यां भोगो भूपयते धनम् ॥ १६३ ॥

१. गुणरूप को भूषण है। कुल का भूषण शील है। सिद्धि विद्या को भूषित करती है और भोग धन को भूषित करता है ॥ १६३ ॥

निर्गुणस्य हतं रूपं दुःशीलस्य हतं कुलम् ।

असिद्धस्य हता विद्या अभोगेन हतं धनम् ॥ १६४ ॥

गुण के बिना रूप व्यर्थ है, दुश्चरित्र का कुल नष्ट हो जाता है, सिद्धि बिना विद्या ही व्यर्थ है, और जिसधन से सुख नहीं मिलता वह धन ही व्यर्थ है ॥ १६४ ॥

शुद्धं भूमिगतं तोयं शुद्धा नारी पतिव्रता ।
शुचिः क्षेमकरो राजा सन्तोषी ब्राह्मणः शुचिः ॥ १६५ ॥

भूमिगत जल पवित्र होता है, पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है, कल्याण करने वाला राजा पवित्र गिना जाता है, और संतोषी ब्राह्मण शुद्ध होता है ॥ १६५ ॥

असंतुष्टा द्विजा नष्टाः संतुष्टश्च महीपतिः ।
सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना ॥ १६६ ॥

असंतोषी ब्राह्मण तथा संतोषी राजा, निन्दित गिने जाते हैं सलज्जा वेश्या और लज्जाहीन कुलस्त्री निन्दित गिनी जाती हैं ॥ १६६ ॥

किं कुलेन विशालेन विद्याहीने च देहिनाम् ।
दुष्कुलं चापि विदुषो देवैरपि हि पूज्यते ॥ १६७ ॥

विद्याहीन बड़े कुलसे मनुष्यों को क्या लाभ है ? विद्वान् का नीचा कुल देवता से भी पूजा जाता है ॥ १६७ ॥

रूपयौवनसंपन्ना विशालकुलसम्भवाः ।
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥ १६८ ॥

सुन्दर तरुणयुक्त और बड़े कुल में उत्पन्न विद्याहीन नहीं
ते जैसे, विना गन्ध के पलास फूल ॥१६८॥

समर्थैः सुरापानैः मूर्खैश्चाक्षरवर्जितैः ।

भिः पुरुषाकारैर्भाराक्रान्तास्ति मेदिनी ॥ १६९ ॥

सर्वदा मांस खानेवाले, शराब पीने वाले अक्षर शून्य
या कार पशुतुल्य मूर्खों से यह भूमण्डल भाराक्रान्त
॥१६९॥

नहीनो दहेद्राष्टं मन्त्रहीनश्च ऋत्विजः ।

जमानं दानहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥१७०॥

श्रेष्ठदान विना किया हुआ यज्ञ समूचे देश को जला
ता है, मन्त्रहीन यज्ञ ऋत्विजों को भस्म करता है और
गर्हणहीन यज्ञ यजमान को को नष्ट कर देता है इसलिये यज्ञ
समान कोई दुश्मन नहीं है ॥ १७० ॥

मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषयस्यज ।

क्षमार्जवदयातोषः सत्यं पीयूषवत्पिव ॥ १७१ ॥

हे भाई, यदि तुम मुक्ति याने मोक्ष चाहते हो तो विषयों
को जहर के समान समझकर त्याग दो, क्षमा, आर्जव, दया,
संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन करो ॥१७१॥

गन्धः सुवर्णं कलमिन्दुदंष्ट्रं

नाकारि पुष्पं ग्वलु चन्दनस्य ।

विद्वान् धनाढ्यो नृपदीर्घजीवी,
धातुः पुराकोऽपि न बुद्धिदोऽभूत् ॥ १७२ ॥

सोने में महक, ईश, चन्दन में फूल, धनवान् विद्वान् एवं सूय आयुष्य वाला राजा होना चाहिये, मालूम होता है कि, सृष्टि के समय ब्रह्माजी को बुद्धि देनेवाला कोई न था ॥ १७२ ॥

सर्वौपधीनाममृता प्रधाना,
सर्वेषुसौख्येष्वशनं प्रधानम् ।
सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम्,
सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम् ॥ १७३ ॥

सब औपधियों में -हर् प्रधान होता है, सब सुखों में अशन याने रागना प्रधान, सब इन्द्रियों में आंख प्रधान एवं सब अङ्गों में शिर प्रधान होता है ॥ १७३ ॥

दत्तो न संचरति खे न चलेच्च वार्त्ता,
पूर्वं न जल्पितमिदं न च संगमोऽस्ति ।

व्योम्नि स्थितं रविशशिग्रहणं प्रशस्तं,
जानाति यो द्विजवरः स कथं न विद्वान् ॥ १७४ ॥

शाकाश में इत नदी चल सकता है और न कोई घात यहाँ पहुंच सकती है, एवं पहिले ही घात बरदी गई है ऐसा

कहना भी ठीक नहीं है, आकाश में होने वाला, सूर्यग्रहण ठीक है, यह जो ब्राह्मण जानता है वह विद्वान क्यों नहीं है ॥ १७४ ॥

विद्यार्थी सेवकः पांथ लुधार्तो भयकातरः ।

भांडारी प्रतिहारी च सप्त सुसान् प्रबोधयेत् ॥ १७५ ॥

विद्यार्थी, सेवक, पथिक, अधिक भूख से पीड़ित, भय, से कातर, भांडारी, द्वारपाल ये सात, यदि सोते हों, तो जगा देना चाहिये ॥ १७५ ॥

अहिं नृपं च शार्दूलं वृष्टिं च बालकं तथा ।

परश्वानं च मूर्खं च सप्त सुसान् बोधयेत् ॥ १७६ ॥

सांप, राजा, घ्याघ्र, बरें, बालक दूसरे का कुत्ता और मूर्ख ये सात सोते हों तो नहीं जगाना चाहिये ॥ १७६ ॥

अर्थाधीतारं च यैवेदास्तथा शूद्रान्नभोजिनः ।

ते द्विजाः किं करिष्यन्ति निर्विपाइव पन्नगाः ॥ १७७ ॥

जिन्होंने धन के लिये अर्थ के साथ चंद को पढ़ा, तैसे ही शूद्र का अन्न भोजन किया, वे ब्राह्मण विपहीन सर्प के समान फ्या कर सकते हैं ॥ १७७ ॥

यस्मिन् रुष्टेभयं नास्ति तुष्टं नैवाधनोर्गमः ।

निग्रहोऽनुग्रहेनास्ति स रुष्टः किं करिष्यति ॥ १७८ ॥

जिसके रुष्ट होने पर न भय है, न प्रसन्न होने पर धन

का लाभ है, न दण्ड वा अनुग्रह होसका है, यह स्पष्ट होकर
क्या करेगा ॥१७॥

निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्यामहतोफणा ।

विषमस्तु न चाप्यस्तु फटाटोपो भयंकरः ॥१७६॥

विषहीन सांप को भी अपना फण बढ़ाना चाहिये, क्योंकि
विष हो वां न हो आडम्बर भयानक होता है ॥ १७६ ॥

प्रातश्च त प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः ।

रात्रौचौर प्रसंगेन कालोगच्छतिधीमताम् ॥१८०॥

प्रातः काल जुआड़ियों की कथा से अर्थात् महाभारत
से, मध्यह्नमे स्त्री प्रसंगसे अर्थात् रामायण से, रात्रि में चौरों
की बातोंसे, अर्थात् बुद्धिमान् का समय बीतता है ॥१८०॥

स्वहस्तं प्रथितामाला स्वहस्तं घृष्टं चन्दनम् ।

स्वहस्तं लिखितं स्तात्रं शक्र स्यापि श्रियं हरत् ॥१८१॥

अपने हाथ से गुंगी माला, अपने हाथ से घिसा चन्दन
अपने हाथ से लिखा स्तोत्र ये इन्द्र की भी लक्ष्मी को हर
लेते हैं ॥ १८१ ॥

इक्षुदण्डास्तिलाः शूद्राः कान्ता हेम मेदिनी ।

चन्दनं दधि ताम्बूलं मर्दनं गुणवर्द्धनम् ॥१८२॥

ऊस, तिल, शूद्र, कान्ता, सोना, पृथ्वी, चन्दन, दही पान
ये ऐसे पदार्थ हैं कि इनका मर्दन गुणवर्धक है ॥१८२॥

दरिद्रता धीरतया विराजते ।

कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते ।

कदन्नता चोष्णतया विराजते

कुरूपता शीलतया विराजते ॥१८३॥

दरिद्रता भी धीरता से शोभती है, स्वच्छता से कुवस्त्र भी सुन्दर जान पड़ता है, कुअन्न भी उष्णता से मीठा लगता है, कुरूपता भी सुशीलता हो तो शोभती है ॥१८३॥

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिवेज्जलम् ।

शास्त्रपूतं वदेद्वाक्यं मनःपूतं समाचरेत् ॥१८४॥

दृष्टि से शोधकर पाँव रक्षना उचित है, वस्त्र से छानकर जल पीना, शास्त्र से शुद्ध कर वाक्य बोले, मन से सोच कर कार्य करना चाहिये ॥१८४॥

सुखार्थीचेत्यजेद्विद्यां विद्यार्थीचेत्सुखम् ।

सुखार्थिनः कृतोविद्या सुखंविद्यार्थिनः कृतः ॥१८५॥

यदि सुख चाहे तो विद्या को छोड़ दे, यदि विद्या चाहे सुख को त्याग करे, सुखार्थी को विद्या कैसे होगी और विद्यार्थी को सुख कैसे होगा ॥१८५॥

रंकं करोति राजानं रंक मेवच ।

धनिनं निर्द्धनं चैव निर्द्धनं धनिनं विधिः ॥१८६॥

निश्चय है कि विघाता रंक को राजा, राजा को रंक, धनी को निर्धनी और निर्धनी को धनी कर देता है ॥१८६॥

लुब्धानां याचकः शत्रु मूर्खाणां धोधको रिपुः ।
जारस्त्रीणां पतिः शत्रु शौराणां चन्द्रमा रिपुः ॥१८७॥

लोभियों को याचक, मूर्खों को समझाने वाला, व्यभिचारिणी स्त्री को पति और चोरों का चन्द्रमा शत्रु है ॥१८७॥

येषां न विद्या न तपो न दानं ।

न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मृत्युलोके भुविभार भूता-

मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ १८८ ॥

जिन लोगों को न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है न गुण है और न धर्म है ये संसार में पृथ्वी पर मारु रूप होकर मनुष्य रूप से मृग के समान फिर रहे हैं ॥ १८८ ॥

अन्तःसार विहीनानामुपदेशो न जायते ।

मलयाचलसंसर्गात् न वेणुश्चन्दनायते ॥१८९॥

गम्भीरता विहीन पुष्पों को शिक्षा देना सार्थक नहीं होता, मलयाचल के संग से पांस-चन्दन नहीं होता ॥१८९॥

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् ।

लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति ॥१९०॥

जिसको स्वभाविक बुद्धि नहीं है, उसको शास्त्र क्या कर सकता है, आंखों से हीन पुरुषों को दर्पण क्या करेगा ॥१६०॥

दुर्जनं सज्जनं कर्तुमुपायो न हि भूतले ।

अपानं शतधाधौतं न श्रेष्ठमिन्द्रियं भवेत् ॥१६१॥

दुष्ट को सज्जन बनाने के लिये पृथ्वीतल में कोई उपाय नहीं है । जैसे मल के त्याग करने वाली इन्द्रिय सौ सौ बार भी धोई जाय तो भी शुद्ध न होगी ॥ १६१ ॥

आसद्वेपाद्भवेन्मृत्युः परद्वेपाद्भनक्षयः ।

राजद्वेपाद्भवेन्नाशा ब्रह्मद्वेपात्कुलक्षयः ॥१६२॥

घड़ों के द्वेष से मृत्यु होती है, शत्रु के विरोध करने से धनका क्षय होता है, राजा के द्वेष से नाश होता है और ब्राह्मण के द्वेष से कुल का क्षय होता है ॥१६२॥

वरं वनं व्याघ्र गजेन्द्र सेवितं—

द्रुमालये पत्र फलाम्बु सेवनम् ।

तृणेषु शय्या शतजीर्ण पल्कलं—

न घन्धुमध्ये धनहीन जीवनम् ॥ १६३ ॥

वनमें बाघ और बड़े २ हाथियों से सेवित वृक्ष के नीचे पत्ता फल खाना, जलका पीना, घास पर सोना, सौ टुकड़े के पल्कलों का पहिरना श्रेष्ठ है, किन्तु घन्धुओं के मध्य में धन हीन जाना श्रेष्ठ नहीं ॥१६३॥

विप्रोवृक्षस्तस्य मूलं च सन्ध्या—

वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम् ।

तस्मात्मूलं यत्नतो रक्षणीयम्—

छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम् ॥ १६४ ॥

ब्राह्मण वृक्ष है, उसकी जड़ सन्ध्या है, वेद शाखा है, और धर्म, कर्म ये पत्ते हैं इस कारण प्रयत्न करके जड़ की रक्षा करनी चाहिये जड़ फट जानेपर न शाखा रहेगी न पत्ते ॥१६४॥

एकवृक्षे समारूढा नाना वणा विहंगमाः ।

प्रभाते दिक्षुदशसु का तत्र परिवेदना ॥ १६५ ॥

नाना प्रकार के पक्षरू एक वृक्षपर बैठते हैं, और प्रभाता समय दिशाओं में उड़जाते हैं उसमें क्या सोच है ॥१६५॥

बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्वुद्धेश्च कुनो बलम् ।

यनेसिंहोमदीन्मत्तोः शशकेननिपातितः ॥१६६॥

जिसको बुद्धि है उसी को बल है, निर्वुद्धि को बल कहाँ से होगा, देखो यन में मद से उन्मत्त सिंह शशक से मारा गया ॥ १६६ ॥

का चिंताममजीवने यदिहरिर्विरयन्भरो गीयते ।

नो चेदर्भकजीवनाय जननी स्तन्यं कथं निःसरेत् ॥

ईत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्यदुपते लक्ष्मीपते केवलम् ।

स्यत्पादाम्बुजसेवनेन सततं कालोमया भीयते ॥१६७॥

मेरे जीवन में क्या चिंता है यदि हरि विश्व को पालने वाला कहलाता है, ऐसा न होता, बच्चे के जीने हेतु माता के अस्तन में दूध कैसे घनाते, इसका वारं वार विचार करके यदु-पति हे लक्ष्मी पति ! सदा केवल आपके चरण कमल की सेवा से मैं समय को बिताता हूँ ॥ १६७ ॥

अन्नाद्दशगुणः पियः पिष्टाद्दशगुणं पयः ।

पयसोऽष्टगुणं मांसं मांसाद्दशगुणं घृतम् ॥१६८॥

चावल से दश गुणा आटा में गुण है, आटा से दश गुणा दूध में, दूध से अठ गुणा मांस में, और मांस से दश गुणा घी में गुण है ॥ १६८ ॥

शाकेन रोगावर्द्धन्ते पयसो वर्द्धते तनुः ।

घृतेन वर्द्धते वीर्यं मांसान्मांसं प्रवर्द्धते ॥१६९॥

शाक से रोग बढ़ता है, दूध से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बढ़ता है और मांस से मांस बढ़ता है ॥ १६९ ॥

दातृत्वं प्रिय वक्तृत्वं धीरत्वं मुचितज्ञता ।

अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणः ॥२००॥

उदारता, प्रिय बोलना, धीरता, उचित का ज्ञान, ये अभ्यास से नहीं मिलते, ये चारों स्वाभाविक गुण हैं ॥ २०० ॥

आत्मवर्गं परित्यज्य परवर्गं समाश्रयेत् ।

स्वयमेव लयंयाति यथा राजन्यमधर्मतः ॥ २०१ ॥

जो अपनी मंडली छोड़ करके दूसरे का आश्रय लेता है, वह आप ही लय हो जाता है, जैसे राजा अधर्म से ॥ २०१ ॥
 हस्ती स्थूलतनुः सचांकुशवशः किं हस्तिमात्रां कुशो-
 दीपे प्रज्वलितं प्रणस्यति तमः किं दीपमात्रन्तमः ।
 चञ्चाणापिहताः पतन्तिगिरियः किं चञ्चमात्रचगाः-
 तेजोयस्य विराजते सवलवान्स्थूलेपुकः प्रत्ययः ॥२०२॥

हाथी का स्थूल शरीर है, वह भी अंकुश के बश रहता है, तो क्या हस्ती के समान अंकुश है ? दीपक के जलने पर अन्धकार आपही नष्ट हो जाता है, तो क्या दीपक के तुल्य तम है ? बिजली मारने से पर्वत गिर जाते हैं तो क्या बिजली पर्वत के समान है ? जिसमें तेज विराजमान रहता है वह चलवान् गिना जाता है, मोटे का कौन विश्वास है ॥ २०२ ॥

कलौ दश सहस्राणि हरिस्त्यजति मेदिनीम् ।
 तदद्दं जान्हवी तोयं तदद्दं ग्रामदेवताः ॥२०३॥

कलयुग में दश हजार वर्ष के यतिने पर विष्णु पृथ्वी को छोड़ देते हैं, उसके भाधे पर गंगाजी जलफो, तिसके भाधे यतिने पर ग्राम देवता ग्रामफो ॥ २०३ ॥

गृहा सक्तस्य नो विद्या नो दया मांस भोजिनः ।

द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यं स्त्रैणस्य न पवित्रता ॥२०४॥

गृहमें भासक पुद्यों को विद्या नहीं होती, मांस के

अहारी को दया नहीं होती, द्रव्यलोभी को सत्यता नहीं होती
और व्यभिचारी को पवित्रता नहीं होती ॥ २०४ ॥

अन्तर्गत मलोद्घृष्टे तीर्थ स्नानं शतैरपि ।

न शुध्यति यथा भांडं सुरायादाहितंचयत् ॥२०५॥

जिसके हृदय में पाप है, वही दुष्ट है वह तीर्थ में सौ बार
स्नान से भी शुद्ध नहीं होता, जैसे मदिरा का पात्र जलाया
जाय तो भी शुद्ध नहा होता ॥ २०५ ॥

न वेत्ति यस्य गुण प्रकर्ष—

स तं सदा निन्दति नात्र चित्रम् ।

यथा किराती करि कुम्भ लब्धां—

मुक्तां परित्यज्य विभर्ति गुजाम् ॥२०६॥

जो जिनके गुण की परीक्षा नहीं जानता वह निरन्तर
उसकी निंदा करता है, जैसे भिल्लनोहाथी के मस्तक के
मोती को छोड़कर घूमचो को पहचानती है ॥ २०६ ॥

येतु संवत्सरं पूर्णं नित्यं मौनेन भुञ्जते ।

युगकोटि सहस्रं ते स्वर्गलोके महीयते ॥ २०७ ॥

जो वर्ष भर नित्य चुपचाप भोजन करता है वह दश
हजार कोटि वर्ष तक स्वर्ग लोकमें पूजा जाता है ॥२०७॥

काम क्रोधं तथा लोभं स्वादु शृंगार कौतुके ।

अतिनिद्राऽति सेवे च विद्यार्थी ह्यष्ट वर्जयेत् ॥२०८॥

काम, क्रोध, लोभ, मीठी वस्तु, शृङ्गार, खेल, अतिनिद्रा
और अतिसेवा इन आठों को विद्यार्थों छोड़ देवे ॥ २०८ ॥

अकृष्ट फल मूलानि च वनवासरतिः सदा ।

कुर्वतेऽहरहः श्राद्धमृषिविप्रः स उच्यते ॥२०९॥

बिना खेती भूमि से उत्पन्न फल वा मूलको खाकर सदा
वनवास और प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला ब्राह्मण ऋषि
कहलाता है ॥२०९॥

एकाद्वारेण सन्तुष्टः पट्कर्म निरतः सदा ।

ऋतुकालाऽभिगामी च सविप्रो द्विज उच्यते ॥२१०॥

एक समय के भोजन से सन्तुष्ट रह कर पढ़ना पढ़ाना
यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना इन छः कर्मों में सदा-
रत हो और ऋतुकाल में स्त्री का संग करे ऐसे ब्राह्मण को
द्विज कहते हैं ॥२१०॥

लौकिके कर्मणि रतः पशूनां परिपालकः ।

वाणिज्यं कृषि कर्मा यः स विप्रो वैश्य उच्यते ॥२११॥

सांसारिक कर्म में प्रीति पशुओं का पालन बनिवार
और मेती करने वाला, ब्राह्मण वैश्य कहलाता है ॥२११॥

लाक्षादि तैल नीलीनां कौसुममधु, सर्पियाम् ।

विक्रिनां मघ मांसानां स विप्रः शूद्र उच्यते ॥२१२॥

'लार्ध आदि पदार्थ तेल, नील, कुसुम, मधु घी मद्य
और मांस बेचने वाला ब्राह्मण शूद्र कहा जाता है ॥२१॥'

परकार्य विहता च दाम्भिकः स्वार्थसाधकः ।

छली द्वेषी मृदुः क्रूरो विप्रो मार्जार उच्यते ॥२१३॥

'दूसरे के काम को बिगाड़ने वाला, दम्भी, अपना ही कार्य
कराने वाला छली, द्वेषी ऊपर मृदु और अन्त करण में क्रूर
हो वह ब्राह्मण विलार कहा जाता है ॥२१३॥

देवद्रव्यं गुरुद्रव्यं परदाराभिर्मर्षणम् ।

निर्वाहः सर्व भूतेषु विप्रचाण्डाल उच्यते ॥२१४॥

'देवता का द्रव्य और गुरु का द्रव्य जो हरता है, और पर
स्त्री से सग करता है, और सब प्राणियों में निर्वाह कर लेता
है वह विप्र चाण्डाल कहाता है अर्थात् (चढ़ी कोपे) इस
धातु से चाण्डाल पद साधु होता है ॥२१४॥

देयं भोज धनं धनं सुकृतिभिर्नोसंचितस्नस्य वै ।

श्रीकर्णस्थं बलेश्च विक्रमपतेरघोपिकीर्तिः स्थिता ॥

अस्माकं मधुदानं भोगरहितं नष्टं चिरात् संचितम् ।

निर्वाणादिति नैजपाद्युगलं धर्षेत्यहोमजिकाः ॥२१५॥

सुकृतियों को चाहिये कि भोग योग्य धन और द्रव्य को
श्वे उसका सन्धय कमी न करे श्रीकर्ण, बलि विक्रमादित्य इन

राजाओं की कीर्ति इस समय पर्यन्त वर्तमान है। दान भोग से रहित दिनसे संचित हमारे लोगों का मधु-नष्ट हो गया। निश्चय है कि मधु मन्त्रियों का मधु के नाश होने के कारण दोनों पांवों को घिसा करती हैं ॥२१५॥

सानंदं सदनं सुतास्तु सुधियः कान्ताप्रियालापिनी ।
इच्छापूर्तिधनं स्वयोपितिरतिः स्वाज्ञापराः सेवकाः ॥
आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे ।
साधोः संगमुपासते तत्र सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥२१६॥

यदि आनन्द युक्त घर मिले और लड़के पंडित हों स्त्री मधुर भाषिणी हो, इच्छा के अनुसार धन हो, अपनी स्त्री में रति हो, आषा पालक सेवक मिले अतिथि की सेवा हो, और शिव की पूजा होती जाय, प्रति दिन गृह में मीठा अन्न और जल मिले, सर्वदा साधु के संग की उपामना हो तो गृहस्थाश्रम ही धन्य है ॥२१६॥

दाक्षिण्यं स्वजने दद्यात्परजने शठ्यं सदा दुर्जने ।
प्रीतिः साधुजने स्मयः खलजने विद्वज्जने चार्जवम् ॥
शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुणजने नारीजने धूर्तता ।
इत्थं गेपुरुषाः कलामुकुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः ॥२१७॥

अपने जन में दक्षता, पर जन में दया, दुष्ट जन में शठता सदा

दुर्जन में दुष्टता साधु जनमें प्रीति, खलमें अभिमान विद्वानोंमें सरलता शत्रु जनमें शूरता, गुरु माता पिता आचार्य के विषय में क्षमा, स्त्री से काम पढ़ने पर धर्तता इस प्रकार से जो लाग कलामें कुशल होते ह उन्हींमें लोककी मर्यादा रहती है ॥२१७॥

हस्तौदानविचर्जितौश्रुतिपुटौ सारस्वतद्रोहिणौ ।

नेत्रेसाधु विलोकनेनरहितं पादौनतीर्थगतौ ॥

अन्यायार्जिन वित्तपूर्णमुदरं गर्वेणतुंगशिरो ।

रेरेजंबुकमुञ्चमुञ्चसहसा नीचस्यनिघं वपुः ॥२१८॥

हाथ दान रहित है, कान पेद शास्त्र के विरोधी है, नेत्रों में साधु का दर्शन नहीं किया पावों से तीर्थ गमन नहीं किया अन्याय से अर्जित धन से उदर भरा है और गर्व से शिर ऊँचा हो रहा है सियार ऐसे नीच निन्द्य शरीर को शीघ्र छोड़ दे ॥२१८॥

येपांश्रीमद्भयशांदासुतमदकमले नास्तिभक्तिर्नराणां ।

येपामाभीरकन्याप्रियगुणकथने नानुरक्तारसज्ञा ॥

येपांश्रीकृष्णलीलालितरसकथा सादरौ नैवकर्णौ ।

धित्तान्धिकतान्धिगेतान्कथयतिसततंकीर्तनस्थोमृदङ्गः

श्री यशोदा सुतके पद कमल में जिन लोगों को भक्ति नहीं रहती जिन लोगों की जीभ अहीरों की कन्याओं के प्रिय के

अर्थात् श्रीकृष्ण के गुणगान में प्रीति नहीं रखनी और श्रीकृष्ण जी की लीलाओं की ललित कथा का आदर जिनके कान नहीं करते उन लोगों को धिक्कार है, उन्हीं लोगों का धिक्क है ऐसा कीर्तन का मृदंग सदा कहता रहता है ॥२१६॥

न दुर्जनः साधु दशामुपैति बहुप्रकारैरपि शिष्यमाणः ।
धामूलसिक्तः पयसाघृतेन ननिम्बवृक्षो मधुरत्वमेति ॥

निश्चय है कि दुर्जन अनेक प्रकार से सिखलाया जाय, पर उसमें साधुता नहीं आती वृक्ष घी से नीम की जड़ (वृक्ष) सींची जाय पर उसमें मधुरता नहीं आती ॥ २२० ॥

पत्रं नैव यदा करीर चिटपे दौषो वसन्नस्य किम्,
नोलुकोप्यचलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् ।
वर्षा नैवपनन्निचानकमुन्ने मेघस्य किं दूषणम्,
यत्पूर्वविधिना ललाटं लिखितं तन्मार्जितुं कक्षमः ॥

यदि करील के वृक्ष में पत्र नहीं होते तो वसन्न का क्या अपराध है ? यदि उलूक को दिन में नहीं शोषता तो सूर्य का क्या दोष है । वर्षा घातक के मुग्ध में नहीं पड़ता इसमें मेघ का क्या अपराध है ? पहिले ही मखाने जो कुछ ललाट में लिख रक्खा है उसे मिटाने को कौन समर्थ है ॥२२१॥

सतसंगाद्भवति हि साधुना खलानां,

साधूनां न हि खलमंगतः खलत्वम् ।

आमोद कुसुमं भवमं मृदेव धत्ते ।

मृद्गन्धनहि कुसुमानि धारयन्ती ॥ २२२ ॥

निश्चय है कि अच्छे के संग से दुर्जनों में साधुता आ जाती है परन्तु साधुओं में दुष्टों की मगति से असाधुता नहीं आती, फूल के गन्ध को मिट्टी ले लेती है परन्तु मिट्टी के गन्ध को फूल कभी धारण नहीं करते ॥२२२॥

साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थं भूताहि साधवः ।

कालेन फलति तीर्थं सद्य साधुसमागमः ॥ २२३ ॥

साधुओं का दर्शन ही पुण्य है इस कारण कि साधु तीर्थ रूप हैं समय में तीर्थ फल देता है साधुओं का संग शीघ्र काम देता है ॥२२३॥

विप्रस्मिन्नगरमेहान् वसती कस्तालद्रूमाणांगुणाः ।

को दातारजको दताति वसनं प्रातर्गृहीचानिशि ।

को दत्तः परदार वित्तहरणे सर्वोऽपिदत्तोजनः ।

कस्माज्जीवसी हे सग्वेविपकृमिन्यायेनजीवाम्यहम् ॥

हे मित्र ! कहो इस नगर में बड़ा कौन है, ताड़ के पेड़ों के समूह कौन दान शील है धोवी प्रात काल में वस्त्र लेकर

रात्रि में देता है चतुर, कौन है, दूसरे के धन और स्त्री के हरने में सय ही कुशल है हे मित्र! कैसे तुम जीते हो? विप का कीड़ा जैसे-विप ही में जीता है, वैसे ही मैं भी जीता हूँ ॥२२४॥

न विप्र पादोदकं कर्दमानि—

न वेदशास्त्रध्वनि गर्जितानि ।

स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि—

स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि ॥२२५॥

जिन घरों में ब्राह्मण के पावों के जलसे कीचड़ न भया हो और न वेदशास्त्र के शब्द का गर्जना और जो गृह स्वाहा स्वधा से रहित हो उसको स्मशान के समान समझना चाहिये ॥२२५॥

अनित्यानि शरीराणि विभवे नैव शाश्वतः ।

नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्त्तव्यो धर्म संग्रहः ॥२२६॥

—शरीर अनित्य है, विभवे भी सदा नहीं रहता, मृत्यु सदा निकट ही रहती है इस कारण सब मनुष्य को धर्म सदा संग्रह करना चाहिये ॥२२६॥

निमन्त्रणोत्सवा विप्रा गावोनवतृणोत्सवाः ।

पत्युत्साहवती नारी अहं कृष्ण रणोत्सवः ॥२२७॥

निमन्त्रण ब्राह्मणों का उत्सव है, नवीम घास गोश्यों का

उत्सव है पति के, उत्साह से स्त्रियों को उत्साह होता है । हे
ऊष्ण ! मुझको रण ही उत्सव हे ॥२२७॥

धर्मतत्परता मुग्धमधुरता दानेसमुत्साहता—
मित्रेवंचकतागुरौ विनयता चित्तेतिगंभीरता ।
आचारे शुचितागुणेरसिकता शास्त्रेषु विज्ञातृता—
रूपेसुन्दरता शिवेभजनता स्वय्यस्तिभोराघव ॥२२८॥

धर्म में तत्परता, मुख में मधुरता दान में उत्सुकता, मित्र
के विषय में निरछलता गुरु में नम्रता अन्तःकरण में गभीरता,
आचार में पवित्रता, गुण में रसिकता शास्त्रों में विशेषता रूप
में सुन्दरता और शिव की भक्ति हे राघव ! ये सब आप ही
में है ॥२२८॥

काष्ठं कल्पतरुः सुमेरुचलश्चिंतामणि प्रस्तरः—
सूर्यस्तीव्रकरः शशीजयकरः क्षारोहिवारां निधिः ।
कामोनष्टतनुर्वलीर्दितिसुतो नित्यं पशुः कामगौः—
नैतांस्तेतुलयामि भो रघुपते कस्योपमादीयते ॥२२९॥

कल्पवृक्ष काष्ठ है, सुमेरु अचल है चिंतामणि पत्थर है
सूर्य की किरणें अत्यन्त ऊष्ण हैं चन्द्रमा की किरण क्षीण हो
जाती हैं समुद्र खारा है काम को शरीर नहीं है बलि दैत्य है
कामधेनु गाय पशु ही है इस कारण आपके साथ इनकी

तुलना नहीं दे सकते। हे रघुपति ! फिर आपको किसका उपमा दी जाय ॥२२६॥

अनालोक्य व्ययंकर्ता अनाथः कलहप्रियः ।

धातुरः सर्वक्षेत्रेषु नरः शीघ्रं विनश्यति ॥२३०॥

बिना विचारे खर्च करने वाला, सहायक के न रहने पर कलह में प्रीति रखने वाला और सर्व जाति की स्त्रियों में मोग के लिये व्याकुल होने वाला पुरुष शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥२३०॥

धन्मधान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे तथा ।

आहारे व्यवहारे चः त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् ॥२३१॥

धन धान्य के व्यवहार में, जैसे ही विद्या के पढ़ने पढ़ाने में, आहार और व्यवहार में लज्जा को छोड़ना घड़ी सुखी होगा ॥२३१॥

जलविन्दु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः ।

सहेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ॥२३२॥

क्रम २ से जलके एक २ बुन्द के गिरने से घड़ा भर जाता है, यही सब विद्या, धर्म और धन के भी संग्रह के कारण है ॥२३२॥

घयसः परिणामेऽपि यः खलः खल एव सः ।

संपक्वमपिमाधूर्यं नोपयातिद्रवारुणम् ॥२३३॥

घय के परिणाम पर भी जो खल रहता है, सो खलही

घना रहता है। अत्यन्त पकी इमली भी कभी मीठी होती है ? ॥२३३॥

गते शोको न कर्तव्यो भविष्यन्नैव चितयेत् ।
वर्तमानेन कालेन प्रवर्तते विचक्षणाः ॥२३४॥

गृत वस्तुका शोक नहीं करना चाहिये और भावी की चिंता कुशल लोग नहीं करते, किन्तु वर्तमान काल के अनुरोध से प्रवृत्त होते हैं । ॥२३४॥

स्वभावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषाः पिता ।
ज्ञातयः स्नानपानाभ्यां चाक्यदानेन पण्डिताः ॥२३५॥

निश्चय है कि देवता, सत्पुरुष और पिता ये प्रकृति से सन्तुष्ट होते हैं, पर यन्धु स्नान और पान में और पण्डित जन प्रियवचन से । ॥२३५॥

अहोवतविचित्राणि चरितानिमहात्मनाम् ।
लक्ष्मीं तृणायमन्यन्ते तद्भारेणनमन्ति च ॥२३६॥

आश्चर्य है कि महात्माओं के विचित्र चरित्र हैं, लक्ष्मी को तृण सम मानते हैं और यदि मिल जाती है तो उसके भार से नष्ट हो जाते हैं ॥२३६॥

यस्यस्नेहो भयंतस्य स्नेहो दुःखस्य भाजनम् ।
स्नेहानूपाणि दुःखानि तानित्यक्त्वा वेसत्सुराम् २३७

जिसको प्रीति में प्रीति रहती है उसी का भय होता है,

स्नेह ही दुःख का मूल और स्नेह ही दुःख का कारण है इसलिये उसे छोड़ कर सुखी होना उचित है ॥२३७॥

अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्था ।
दावेते सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति ॥२३८॥

आनेवाले—दुःखों का पहिले से उपाय करने वाला और जिसकी बुद्धि में विपत्ति आ जाने पर शीघ्र ही उपाय भी आ जाता हो, वे सदा सुख से बढ़ते हैं और जो सोचता है कि, भाग्यवश जो होने वाला है अवश्य होगा, वह विनष्ट हो जाता है ॥२३८॥

राजिधर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः ।
राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥२३९॥

यदि धर्मात्मा राजा हो तो प्रजा भी धर्मिष्ठ, पापी हो तो पापी, और सम हो तो सम होती है अर्थात् सब प्रकार राजा के अनुसार चलती है; जैसा राजा होता है, वैसा ही प्रजा होती है ॥२३९॥

धर्मोर्थकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते ।

अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥२४०॥

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से जिसको एक भी नहीं रहता बकरी के गले के स्तन के समान उसका जन्म निरर्थक है ॥२४०॥

दह्यमानाः सुतिव्रेण नीचाः परयशोऽग्निना ।

अशक्तास्तत्पदंगतुं ततोनिदां प्रकुर्वते ॥२४१॥

दुर्जन दूसरे की कीर्ति रूप दुस्सह अग्नि से जलकर उसके पद को नहीं पाते इसलिये उसको निन्दा करने लगते हैं ॥२४१॥

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं मनः ।

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ॥२४२॥

विषयों में आसक्त मन बन्धन का हेतु है, विषय से रहित मुक्ति का, मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण मन ही है ॥२४२॥

देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि ।

यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधेयः ॥२४३॥

परमात्मा के ज्ञान से देह के अभिमान के नाश हो जाने पर जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ समाधिही है ॥२४३॥

ईप्सितं मनसः सर्वं कस्य सम्पद्यते सुखम् ।

दैवायत्तं यनः सर्वं तस्मात्सन्तोषदान् भवेत् ॥२४४॥

मन का अभीप्सित सब सुख किसको मिलता है ? जिस कारण सब दैव के वश है । इससे संतोष पर मरोसा करना चाहिये ॥२४४॥

अनवस्थितं कार्यस्य न जने न चने सुखम् ।

जनोद्धतिसुसर्गाद्द्वनं संगविवर्जिनात् ॥२४५॥

जिसके कार्य की स्थिरता नहीं रहती वह न जन में सुख

पाता है न वन में, जन उसको संगम में जलाता है और वन में संग के त्याग से ॥२४५॥

यथा स्वात्वा खनित्रेण भूतले वारि विंदति ।

नथागुरुगतांविद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति ॥२४६॥

जैसे खनने के साधन से खन के पाताल के जल को प्राणी पाता है वैसेही गुरुगत विद्या को सेवा से शिष्य पाता है ॥२४६॥

कर्मायत्तं फलंपुंसांबुद्धिः कर्मानुसारिणि ।

तथापि सुधियश्चार्याः सुविचारैव कुर्वति ॥२४७॥

यद्यपि फल पुरुष के कर्मके भाँधान रहता है और बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही चलती है, तथापि विवेकी महात्मा लोग विचारही के काम करते हैं ॥२४७॥

टकाक्षरप्रदातारं यो गुरुः नाभिवन्दते ।

श्वानयोनिशतं भुक्त्वा चांडालेप्यभिजायते ॥२४८॥

जो एक अक्षर भी देने वाले गुरुकी बन्दना नहीं करता वह कुत्ते की सौ योनि को भोगकर चाण्डालों में जन्म लेता है ॥२४८॥

युगान्ते प्रचलेन्मेरुः कल्पांते सप्तसागराः ।

साधवः प्रतिपन्नार्थान्नचलन्तिकदाचन ॥२४९॥

युग के अन्त में सुमेरु भी चलायमान होता है और कल्प के अन्त में सातों सागर, परन्तु साधू लोग स्थिर अर्थ से कभी नहीं विचलते ॥२४९॥

पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि अन्नमापः सुभाषितम् ।

मूढैः पापाणस्त्रण्डेषु रत्नसंख्याविधीयते ॥२५०॥

पृथ्वी में जल अन्न और प्रिय वचन ये तीन ही रत्न हैं,
मूखों ने पापाण के टुकड़ों को रत्न में गिना है ॥२५०॥

आत्मापराधवृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम् ।

दारिद्र्यदुःखवगोगाश्च बन्धनव्यसनानि च ॥२५१॥

जीवों को अपने अपराध रूप वृक्ष से दारिद्र्यता, रोग, दुःख,
बन्धन और त्रिपत्ति ये फल होते हैं ॥२५१॥

पुनर्वित्तं पुनर्मित्रं पुनर्भार्या पुनर्मही ।

एतत्सर्वं पुनर्लभ्यं न शरीरं पुनः पुनः ॥२५२॥

धन, मित्र, पृथ्वी ये सब चारम्बार मिलते हैं, परन्तु
शरीर चारम्बार नहीं मिलता ॥२५२॥

बहुनां चैव सत्वानाम् समवायोरिपुंजयः ।

वर्षाधाराधगेमेघ स्तृणैरपि निवार्यते ॥२५३॥

निश्चय है कि बहुत जनों का समुदाय शत्रु को जीत लेता
है वृण समूह भी वर्षा की धारा के धरने वाले मेघको निवा-
रण करता है ॥२५३॥

जले तैलं गले गुह्यं पात्रं दानं मनागपि ।

प्राज्ञेशास्त्रं स्वयं याति विस्तारं चस्तुशक्तितः ॥२५४॥

जल में तेल दुर्जन में गुप्त पार्ता, मुपात्र में दान बुद्धिमान

में शास्त्र ये थोड़े भी हों तो वस्तु की शक्ति से आपसे आप
विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं ॥२५४॥

धर्माग्याने श्मशाने च रोगिणां या मतिर्भवेत् ।

सा सर्वदैवतिष्ठेच्येत्कौन मुच्येत बन्धनात् ॥२५५॥

धर्म विषयक कथा के समय, श्मशान पर और रोगियों
को जो बुद्धि उत्पन्न होती है, वह यदि सदा रहती, तो कौन
ससार बंधन से मुक्त न होता ॥२५५॥

उत्पन्नपश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी ।

तादृशी यदि पूर्वस्यात् कस्यनस्यान्महोदयः ॥२५६॥

निन्दित कर्म के करने के पश्चात् पछताने वाले पुरुष को
जैसी बुद्धि उत्पन्न होती है वैसी यदि पहिले होती तो किसको
वही समृद्धि न होती ॥२५६॥

यस्माच्चप्रियमिच्छेतु तस्य ब्रूयात्सदाप्रियम् ।

व्याधोमृगवधंकतु गीतं गायनि सुस्वरम् ॥२५७॥

जिसको जिसके प्रिय की वाछें हो सदा उससे प्रिय
बोलना उचित है, व्याध मृगा के वध के निमित्त मधुर स्वर
से गीत गाना है ॥२५७॥

अत्यासन्ना विनाशाय दूरस्थानफलप्रदाः ।

सेव्यतामध्यभागेन राजवहि गुरु स्त्रियः ॥२५८॥

अत्यन्त निकट रहने पर विनाश के हेतु होते हैं, दूर रहने
से फल नहीं देते । इस हेतु राजा, अग्नि गुरु और स्त्री इनको
मध्य अवस्था से सेवना चाहिये ॥२५८॥

अग्निरापः स्त्रियोमूर्खः सर्पोराजकुलानि च ।

नित्यं यत्नेनसेव्यानि सद्यः प्राणहराणिपट् ॥२५६॥

अग्नि, जल, स्त्री, मूर्ख, सर्प और राजा के कुल ये सावधानता से सेवने के योग्य हैं, ये छः शीघ्र प्राण के हरने वाले होते हैं ॥२५६॥

स जीवति गुणा यस्य यस्य धर्मः सजीवती ।

गुणधर्मविहीनस्य जीवितं निष्प्रयाजनम् ॥२६०॥

वही जीता है जिसको गुण है, वही जीता है जिसको धर्म है, गुण और धर्म स हीन पुरुष का जीना व्यर्थ है ॥२६०॥

यदीच्छसि वशीकतु जगदेकेन कर्मणा ।

पुरापंचदशासेभ्यो गांचरन्ति निवारय ॥२६१॥

जो एकही कर्म से जगत को वश किया चाहते हो तो पहिले पन्द्रहों के मुख से मन गौ को निवारण करो, तात्पर्य यह है कि भांख, नाक, कान, जीभ, त्वचायें, पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। मुख, हाथ, पाँव, लिंग, गुदा ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श ये पाँच ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं, इन पन्द्रहोंसे मनरूपी गौ को निवारण करना उचित है ॥२६१॥

मस्ताव सदृशं वाक्यं स्वभाव सदृशं प्रियम् ।

धात्मशक्तिसमंकोपं योजानातिसंपदितः ॥२६२॥

प्रसंग के योग्य वाक्य, प्रकृति के सदृश प्रिय और अपनी शक्ति के अनुसार कोपको जो जानता है यह सुशिक्षित है ॥२६२॥

एक एव पदार्थस्तु त्रिधा भवति विदितः ।

कुण्ठपंकामिनिमांसं योगिभिः कामिभिः श्वभिः ॥२६३॥

एक ही देह, रूप, वस्तु तीन प्रकार की देख पड़ती है; योगी लोग उसे अति निन्दित मृतक रूप से, कामी पुरुष कांता रूप से और कुत्ते मांस रूपसे देखते हैं ॥२६३॥

सुसिद्धमौषधं च गृहच्छिद्रं च मैथुनम् ।

कुमुक्तं कुश्रुतं चैव मतिमान्नप्रकाशयेत् ॥२६४॥

सिद्ध औषधि, धर्म, अपने घर का दोष, मैथुन, कुबज्रका भोजन, निन्दितवचन इनका प्रकाश करना बुद्धिमानों को उचित नहीं है ॥२६४॥

नावन्मौनेन नीयन्ते कोकिलैश्चैव वासराः ।

यावत्सर्वजना नन्ददायिनी वाक् प्रवर्तते ॥२६५॥

जबलौ कोकिल मौन साधन में दिन बिताती है तबलौ सबजनों को आनन्द देने वाली घाणी प्रारम्भ नहीं होती ॥२६५॥

धर्मं धनं च धान्यं च गुरोर्वचनमौषधम् ।

सुगृहीतं च कर्तव्यमन्यथा तु न जीवन्ति ॥२६६॥

धर्म, धन धान्य, गुरु का वचन और औषध यदि ये सुगृहीत हों तो इनको मली भांति-से करना चाहिये; जो ऐसा नहीं करता वही नहीं जीता ॥ २६६ ॥

त्यजदुर्जनसंसर्गं भजसाधुसमागमम् ।

कुरुगुण्यमहोरात्रं स्मरनित्यमनित्यतः ॥२६७॥

खल का, सग छोड़ साधु की संगति को स्वीकार कर दिन रात पुण्य किया करे और ईश्वर का नित्य स्मरण करे इस कारण कि संसार अनित्य है ॥२६७॥

यस्य चित्तद्रवीभूतम् कृपया सर्वं जंतुषु ।

यस्य ज्ञानेन मोक्षेण किं जटा भस्मलेपने ॥२६८॥

जिसका चित्त सब प्राणियों पर दया से पिघल जाता है उसको ज्ञान, मोक्ष, जटा और विभूतिके लेपन से क्या ? ॥२६८॥

एकमेवाक्षरं यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् ।

पृथिव्यानास्तितद्रव्यं यदत्वाचानृणोभवेत् ॥२६९॥

गुरु जो शिष्य का एक अक्षर भी उपदेश करते हैं उस निमित्त पृथ्वी में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसको देकर शिष्य उच्छ्रण हो ॥२६९॥

खलानां कंटकानां च द्विविधैव प्रतिक्रियः ।

उपानन्मुग्ध भंगो वा दूरतो वा विसर्जनम् ॥२७०॥

खल और काँटे इनको दवाने को दोही प्रकार का उपाय है । जूता से मुर्र को तोड़ना या दूर से त्याग करना ॥२७०॥ कुचैलिनंदन्तमलोपधारिणं वहाशिनन्निन्दुरभाषिणंच । सूर्योदयंचास्तमितेशयानंचिमुञ्चतिश्रीर्यदिचक्रपाणिः ॥

घर्र के मैला रगने वाले को, दाँतों के मल को दूर न करने वाले को, बहुत भोजन करने वाले को, कट्टयादी को, सूर्य के उदय और अस्त के समय में सोने वालों को लक्ष्मी छोड़ देती है घाटे घट विष्णु भी हो तो क्या ॥२७१॥

त्यजन्ति मित्राणि धने विहीनं दाराश्च वृत्त्याश्च सुहृज्जनाश्च ।
ते चार्थचलन्तं पुनराश्रयन्ते चार्थो हिलोके पुरुषस्य वन्धुः २७२

मित्र, स्त्री, मेवक और वन्धु ये धनहीन पुरुषों को छोड़ देते हैं, वही पुरुष यदि धनी हो जाता है तो फिर उसी का आश्रय करते हैं अर्थात् धन ही लोक में वन्धु है ॥२७२॥

अन्यायोपार्जितं द्रव्यं दशवर्षाणि तिष्ठति ।

प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति ॥२७३॥

अनात से अर्जित धन दश वर्ष पर्यन्त उदरता है ग्यारहवें वर्ष मूल सहित नष्ट हो जाता है ॥२७३॥

अयुक्तं स्वामिनो युक्तं युक्तं नीचस्य दूषणम् ।

अमृतं राहवे मृत्युर्विषं शंकर भूषणम् ॥२७४॥

अयोग्य वस्तु भी समर्थ को योग्य हो जाती है और योग्य भी दुर्जन को दूषण कारक होती है । अमृत ने राहु को मृत्यु दिया और विष शंकर का भूषण हुआ ॥२७४॥

नद्भोजनं यद् द्विजं मुक्तशेषं—

तत्सौहृदं यत्क्रियते परस्मिन् ।

सा प्राज्ञता या न करोति पापं—

दंभं विना यत् क्रियते स धर्मः ॥२७५॥

यही भोजन है जो ब्राह्मण के भोजन से बचा है, यही मित्रता है जो दूसरे में की जाती है यही बुद्धिमान है जो पाप नहीं करता और जो विना दम्भ के किया जाता है यही धर्म है ॥२७५॥

मणिलुठानि पदाग्रे काचः शिरसि धार्यते ।

क्रयविक्रयवेलायां काचः काचा मणिर्मणिः ॥२७६॥

मणि पाँच के आगे लोटती हो और कांच शिर पर भी रफखा हा परन्तु क्रय विक्रय के समय कांच कांच ही और मणि मणि ही है । २७६॥

अनन्त शास्त्रं बहुलाश्च विद्या-

अल्पश्च कालो बहु विघ्नता च ।

यत्सारभूतं तदुपोमनीयं-

हंसो यथा क्षीरमिवांबुमिश्रम ॥२७७॥

शास्त्र अनन्त है और विद्या बहुत है, काल थोड़ा है और विघ्न बहुत है, इस कारण जो मार है उसको लेना उचित है, जैसे हस जल के मध्य से दूध को ले लेता है ॥२७७॥

बंधनैर्नानिग्वलुसंतिबहुनिभैर्नञ्जुकृतं बंधनमन्यत ।
दारुभेदनिपुणोऽपिषडंघ्रिः निष्क्रियो भवतिपंरुजकोपे ॥

बन्धन तो बहुत है परन्तु प्रांति का रस्ता का बन्धन और ही है, काठ के छेदने में निपुण भैरवा भी कमल के कोश में निध्यागर हा जाता है ॥२७८॥

द्विज्ञोपि चंदनतरुं जहति गन्धं ।

वृद्धोऽपि धारणपतिं जहति लीलाम् ॥

यन्त्रार्पिणो मधुरतां न जहति चक्षुः ।

क्षीणेऽपिनश्यति शीलगुणान्कुलीनः ॥२७९॥

चन्दन का फटा एश गन्ध को न्याग नहीं देता, वृद्धा गज भी रति विलान को नहीं छोड़ता, फाँट में परी ऊँच भी

मधुरता नहीं छोड़ती देरिद्री भी कुलीन और सुशीलता आदि गुणों का त्याग नहीं करता ॥२७६॥

। नध्यात् पदमोश्वरस्य विधिवत्संसारविच्छिन्नये ।
स्वर्गद्वारकपाटपाटनपटुः धर्मोऽपिनोपाजितः ।
नारीपोनपयोधरोरु युगलं स्वप्नेऽपिनालिंगितं ।
मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदकुठारावयम् ॥२८०॥

संसार में मुक्त होने के लिये विधिवत् ईश्वर के पद का ध्यान मुझमें न हुआ, स्वर्ग द्वार के फाटक तोड़ने में समर्थ धर्म का भी अर्चन न किया और स्त्री के दोनों पौनस्तन और जशों का आलिंगन स्वप्न में भी न किया अर्थात् मैं माता के युषापन रूप वृक्ष के काटने में केवल कुल्हाड़ी ही हुआ ॥२८०॥
कोऽर्थान्प्राप्यनगर्वितो विपयिणः कस्यापदोऽस्तगताः ।
स्त्रीभिःकस्थनखंडितं भुविमनः कोनामराज्ञःप्रियः ।
कः कालस्य न गोचरत्वमंगमत् कोर्थिगतो गौरवम् ।
कोवाद्दुर्जनदुर्गुणेषु पतिनः क्षमेगयातः पथि ॥२८१॥

धन पाकर गर्वी कौन न हुआ, किस विपयों की विपत्ति नष्ट हुई, पृथ्वी में किसके मन को स्त्रियों ने खण्डित न किया, राजा को प्रिय कौन हुआ, काल के यश कौन नहीं हुआ, किस शत्रुक ने गुफता पाई, दुष्टता में पड़कर संसार के पथ में कुशलता ने कौन पार गया ? ॥२८१॥

ननिर्मिताकेन नदृष्टपूर्वा नश्रूपतेद्वेमनयी कृरंगी ।
तथाऽपितृष्णागणुनंदनम्यथिनाशफालेधिपरीतबुद्धिः ॥

सोने की मृगी न पहिले किसी ने रची, न देखी और न किसी को सुन पड़ती है, तौ भी रघुनन्दन की तृष्णा उसपर हुई अर्थात् विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है ॥२८२॥

गुणः सर्वत्र पूज्यन्ते न महत्योपि सम्पदः ।

पूर्णन्दुः किं तथाबंधो निष्कलंको यथाकुराः ॥२८३॥

सर्व स्थान में गुण पूछे जाते हैं वही सम्पत्ति नहीं पूजी जाती, पूर्णिमा का चन्द्रमा भी क्या वैसा बन्दित होता है जैसा कि विना कलंक के द्वितीया का दुर्बल चन्द्र ॥२८३॥

परमोक्तगुणोयस्तु निर्गुणोऽपि गुणी भवेत् ।

इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्याऽपितैर्गुणैः ॥२८४॥

जिसके गुणों को दूसरे लोग वर्णन करते हैं वह निर्गुण भी हो तो गुणवान कहा जाता है, इन्द्र भी अपने गुणों की आप प्रशंसा करे तो उसमें लघुता पाना है ॥२८४॥

विवेकिनमनुप्राप्ता गुणायांति मनोज्ञताम् ।

सुतरारत्नमाभाति चामीकरनियोजितम् ॥२८५॥

विवेकी को पाकर गुण भी सुन्दरता पाता है जब रत्न सोने में जड़ा जाना है तब अत्यन्त सुन्दर देख पड़ता है ॥२८५॥

गुणैः सर्वज तुल्योपि सीदत्येको निराश्रयः ।

अनध्यमपिमाणिक्यं हेमाश्रयमपेक्षते ॥२८६॥

गुणों से ईश्वर के सदृश भी निरालम्ब अकेला पुरुष दुःख पाता है । अमोल माणिक्य ने भी सोना का अलम्बन किया अर्थात् उसमें जड़ जाने की अपेक्षा करता है ॥२८६॥

साहित्य प्रकरण

दूसरा भाग

अति क्लेशेन ये अर्था धर्मस्यातिक्रमेणतु ।

शत्रुणां प्रणिपातेन तेअर्थामाभवन्तुम् ॥२८७॥

अत्यन्त पीड़ा से, धर्म त्याग से और वैरियों के नमन से जो धन होता है, सो ईश्वर मुझको न प्राप्त हो ॥२८७॥

किंतयाक्रियते लक्ष्म्या यांचधूरीवकेचला ।

यातुवेश्येवसामान्या पधिकैरपिभुज्यते ॥२८८॥

उस सम्पत्ति को लोग फया कर सकते हैं जो धूल के समान असाधारण है, जो वेश्या के समान सब साधारण ही पधिकों के भी भोग में आ सकती हो, वह श्री की सदृश किस कामकी ? ॥२८८॥

धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीपुचाहारकर्मसु ।

अतृप्ताः प्राणीना सर्वेषांतायास्यंतीयान्ति च ॥२८९॥

धन में, जीवन में, स्त्रियों में, और भोजन में, अतृप्त होकर सब प्राणी गये, जायेंगे और जाते हैं इसलिये ईश्वर का भजन करना श्रेष्ठ है ॥ २८९ ॥

क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञहोमयलि क्रिया ।

न क्षीयते पात्रदानम् भयं सर्वदेहिनाम् ॥२९०॥

दान, यज्ञ, होम, बलि ये सब नष्ट हो जाते हैं, परन्तु सत्पात्र के दिये हुए दान और सब जीवों का अभयदान, ये क्षीण नहीं होते हैं ॥२६०॥

तृणं लघुतृणात्तूलं तूलादपि च याचकः ।

वायुनाकिन्ननीतोऽसौ मामयं याचयिष्यति ॥२६१॥

तृण सबसे लघु होता है, तृण से रुई हल्की होती है, रुई से भी लघु याचक है, तब इसे वायु क्यों नहीं उड़ा ले जाती ? यही कारण है कि वह समझती है, कि यह मुझसे भी मागेगा ॥२६१॥

वरं प्राणपरित्यागोमानभंगेन जीवनात् ।

प्राणत्यागे क्षणदुःखं मान भंगेदिनेदिने ॥२६२॥

मान गवाकर जीने से प्राण का त्याग अच्छा है, कारण कि प्राण त्याग से केवल क्षण भर का दुःख होता है और मान के नष्ट होने पर दिन दिन दुःख होता है ॥२६२॥

संसारकटुवृक्षस्य द्वेफले अमृतोपमे ।

सुभाषितं च सुस्वादु संगतिः सुजनेजने ॥२६३॥

संसार रूप कहवे वृक्ष के दो फल अमृत समान हैं, मधुर प्रिय वचन और सत्पुरुषों की संगति ॥२६३॥

जन्मजन्मयदभ्यस्तं दानमभ्ययनं तपः ।

तेनैवाभ्यासयोगेन देही चार्भ्यस्यते पुनः ॥२६४॥

जो जन्म २ दान अध्ययन-तप का अभ्यास किया करता है उस अभ्यास के योग से देही उसी अभ्यास को फिर २ करता रहता है ॥२६४॥

पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्वनम् ।

उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्वनम् ॥२६५॥

जो विद्या पुस्तक ही में रहती है और जो धन दूसरे के हाथों में रहता है, काम पढ़ जाने पर न वह विद्या है और न वह धन है ॥२६५॥

पुस्तकं प्रस्थयाधीनं नाधीतं गुरुसन्निधौ ।

सभामध्येनशोभन्ते जारगर्भा इवस्त्रियः ॥२६६॥

जिन्होंने केवल पुस्तक से पढ़ा और गुरु के निकट न पढ़ा वे सभा के बीच जैसे ही नहीं शोभते जैसे द्यमिचार द्वारा, गंभवती स्त्रियों ॥२६६॥

कृतेप्रतिकृतिंकुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम् ।

तन्नदोषो न पतति दुष्टेदुष्टं समाचरेत् ॥२६७॥

अपने प्रति उपकार करने पर, प्रत्युपकार करना और मारने पर मारना इसमें अपराध नहीं होता, इस कारण कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही आचरण करना उचित होता है ॥२६७॥

यद्दूरं घदुराध्यं यश्चदूरे व्यवस्थितम् ।

तत्सर्वं तपसासाध्यं तपोहिदुरतिक्रमम् ॥२६८॥

जो दूर है और जो कठिनता से प्राप्त हो सकता है वे सब तप परिधम (उद्योग) से सिद्ध हो सकते हैं इस कारण (उद्योग) तप ही प्रबल है ॥२६८॥

लोभश्चेद्गुणेन किपिशुनता यद्यस्ति किंपातकैः ।

सत्यं चेत्तपसाचकिंशुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन कि ॥

सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मन्त्रैः ।

सद्बिद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना ॥२६९॥

यदि लोभ है तो दूसरे दोष से क्या ? यदि चुगली है तो और पापों से क्या ? यदि सत्यता है तो तप से क्या ? मन स्वच्छ है तो तीर्थ से क्या ? यदि सजानता है तो दूसरे गुणों से क्या ? जो महिमा है तो भूषण से क्या ? यदि अच्छी विद्या है तो धन से क्या और यदि अपयश है तो मृत्यु से क्या अर्थात् अपकीर्ति मृत्यु से अधिक कष्टदायक है ॥२६९॥

पितारत्नाकरायस्य लक्ष्मीर्यस्य सहोदरी ।

शंखो भिक्षाटनं कुर्यान्नोदत्तमुपतिष्ठति ॥३००॥

जिसका पिता रत्नों की पान समुद्र है लक्ष्मी जिसकी बहिन है ऐसा शंख भीख मांगता है, सच है पहिले बिना दिये नहीं मिलता ॥३००॥

अशक्तस्तु भवेत्साधु ब्रह्मचारीचनिर्घनः ।

व्याधिष्टीदेवभक्तश्च वृद्धानारीपतिव्रता ॥३०१॥

शक्तिहीन होने पर साधु होता है, निर्घन ब्रह्मचारी होता है, रोगग्रस्त देवता का भक्त होता है, और वृद्धा स्त्री पतिव्रता होती है ॥३०१॥

नान्नोदकं समदानं न तिथिर्द्वादशी समा ।

न गायत्र्याः परोमंत्रो न मातुर्देवतंपरम् ॥३०२॥

अन्न, जल के समान कोई दान नहीं है, न द्वादशी के समान कोई तिथि है और न गायत्री से बढ़कर कोई मन्त्र है, न माता से बढ़कर कोई देवता है ॥३०२॥

तक्षकस्य विषदंते मल्लिकायाः विषंशिरै ।

घृदिचकस्यविषंपृच्छे सर्वांगेदुर्जनो विषम् ॥३०३॥

साँप के दाँत में, मक्खी के शिर में और पिच्छू की पूंछ में विष रहता है पर दुर्जन के सभ अङ्गों में विषही भरा रहता है ॥३०३॥

पत्युराज्ञां विनानारीउपोष्य व्रतचारिणी ।

आयुष्यं हरतेभर्तुः सानारीनरकं व्रजेत् ॥३०४॥

पति की आज्ञा विना उपवास व्रत करने वाली स्त्री स्वामी की आयु को हरती है और यह स्त्री चोर नरक में जाती है ॥३०४॥

न दानैः शुद्धते नारो नोपवास शतैरपि ।

न तीर्थसेवयातद्ब्रह्मर्तुः पादोदकैर्यथा ॥३०५॥

स्त्री न तो दानों से शुद्ध होती है न सेकड़ों उपवास और तीर्थों के सेवन से जैसी कि स्वामी के चरणोदक से शुद्ध होती है ॥३०५॥

पादशेषं पीनशेषं संध्याशेषं तथैव च ।

श्वानमूत्रसमंतोयं पीत्वाचांद्रायणं चरेत् ॥३०६॥

पाव धाने से जा जल शेष रहता है, जब पीने से जो बच जाता है और सन्ध्या करने पर जो अवशिष्ट जल रहता है सो कुत्ते के मूत्र के समान है इसको पीने से चान्द्रायण व्रत करना चाहिये इसके बिना शुद्धता नहीं होती ॥३०६॥

दानेनपाणिर्नतुकंकणेन स्नानेनशुद्धिर्नतुचंदनेन ।

मानेनतृप्तिर्नतुभोजनेन ज्ञानेनमुक्तिर्नतुमंडनेन ॥३०७॥

दान से हाथ शोभता है, कंकण से नहीं, स्नान से शरीर शुद्ध होता है चन्दन से नहीं आदर से तृप्ति होती है भोजन से नहीं ज्ञान से मुक्ति होती है ठापा तिलकादि भूषणों से नहीं ॥३०७॥

नापितस्यगृहेक्षौरं पापाणैर्गंधलेपनम् ।

आत्मरूपं जलेपश्यन् शक्रस्यापिश्रियं हरेत् ॥३०८॥

नाई के घर पर बाल बनाने वाला, पत्थर पर से लेकर चन्दन लगाने वाला, अपने मुख को पानी में देखने वाला इन्द्र भी हो तो उसकी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है ॥३०८॥

सद्य शक्तिहरातुं डी सद्य प्रज्ञाकरीवचः ।

सद्य शक्तिहरानारी सद्य शक्तिकरं पयः ॥३०९॥

कुन्दरु शीघ्र ही बुद्धि हर लेता है और वच भटपट बुद्धि देता है, स्त्री तुरन्तही शक्ति हर लेती है, दूध शीघ्र ही बल को दता है ॥३०९॥

परोपकारणं येषां जागतिहृदयेसताम् ।

नश्यंतिविपदस्तेषां संपदःस्युः पदेपदे ॥३१०॥

जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार जागता है उनकी विपत्ति नष्ट हो जाती है और पद २ पर सम्पत्ति होती है ॥३१०॥

यदिरामा यदिचरमायदितनयोचिनयगुणो पेतः ।

तनत्रे तनयोत्पतिः सुखरनंगरेकिमाधिक्यम् ॥३११॥

यदि सद्गुणी स्त्री है, यदि लक्ष्मी भी वर्तमान है, यदि पुत्र सुशील गुणों से युक्त है, और पुत्र के पुत्र की भी उत्पत्ति हुई तो फिर देव लोक में इससे अधिक क्या है ॥ ३११ ॥

आहार निद्रा भय मैयुनानि—

समानि चेतानि नृणां पशूनाम् ।

ज्ञानं नराणा मधिको विशेषो—

ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाः ॥३१२॥

भोजन, निद्रा, भय, मैथुन ये मनुष्य और पशुओं के समान ही हैं, किन्तु मनुष्यों को केवल ज्ञान ही विशेष है ज्ञान से रहित नर पशु के समान है ॥ ३१२ ॥

दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्ण तालैः

दूरी कृतां करी वरेण मदान्ध बुध्या ।

तस्यैव गण्ड युग मंडनं हानि रेषा—

भृंगाः पुनर्विकच पद्मवनेवसन्ति ॥३१३॥

यदि मदान्ध बुद्धि से गजराज मद् प्रेमी भौरों को हटा तो यह उसीके दोनों गण्डस्थल की शोभा की हानि हुई, भौरा तो फिर भी विकसित कमल वनमें ही रहता है । तात्पर्य यह है कि यदि किसी निर्गुण मदान्ध राजा के निकट कोई गुणी जा पड़े तो उस समय मदान्धों ने गुण का आदर न किया तो मानों अपनी लक्ष्मी की शोभाकी हानि किया है, क्योंकि काल की कोई सीमा नहीं है और पृथ्वी अनन्त है, गुणी का सत्कार कहीं न कहीं किसी समय में हो होगा ॥ ३१३ ॥

राजा वेश्या यमश्चाग्निस्तस्करो बालयाचकः ।

पर दुःखं न जानन्ति अष्टमोग्रामकण्टकः ॥३१४॥

राजा वेश्या यम, अग्नि और बालक याचक और आठवें
ग्राम कण्टक अर्थात् ग्राम निवासियों को पीड़ा देकर अपना
निर्वाह करने वाला ये दूसरे के दुःख को नहीं जानते ॥३१४॥

अथः पश्यसि किं बाले पतितं तव किं भुवि ।

रे रे मूर्ख न जानासि गतं तारुण्यमौक्तिकम् ॥३१५॥

हे बाले ! नीचे की क्या देखती हो तुम्हारा पृथ्वी पर क्या
गिर पड़ा है ! तब स्त्री ने कहा, रे रे मूर्ख ! नहीं जानता कि मेरा
तरुणता रूपी मोती चली गई, उसी को मैं हूँ रह रही हूँ ॥३१५॥

व्यालाश्रयापि विफलापिः संक्रण्टकापि

चक्रापि पंकिलभवापि दुरासदापि ॥

गन्धेन वन्धुरसि केतकिः सर्गजन्तोः

एको गुणः खलु निहन्ति समस्तदोषान् ॥३१६॥

हे केतकी ! यद्यपि तू सापों का घर है तो भी निष्फल है
तुझ में फाटे भी हैं टेढ़ी भी है कीचड़ से तेरी उत्पत्ति है और
तू दुःख से मिलती भी है, तथापि एक गन्धगुण से सब
प्राणियों की बन्धु हो रही है । निश्चय है कि एक भी गुण
सम्पूर्ण दोषों को नाश कर देता है ॥३१६॥

ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांडभांडोदरे

विष्णुर्येन दशावतारं गहने क्षिप्तः सदा संकटे ॥

रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः

सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ३१७

ब्रह्माण्ड रूपी चाक कुंमार जन्मा जे विष्णु ने दश अवतार लइने संकट सदा सहन कर्या जे रुद्रे हाथमां खोपड़ी लइने भिक्षाटन कर्तुं तेम सूर्ये हमेशा आकाशमां भ्रमण कर्या फिरे छेती येवा कर्मने नमस्कार छे ॥ ३१७ ॥

अवश्यं भावि भावानां प्रतिकारो भवेद्यदि ।

तदा दुःखैर्न लिप्येरनत्तरामयुधिष्ठिराः ॥३१८॥

प्रारब्ध प्रमाणे भोगवबु पड़ेछे, कदाचित अटका वेतो यणदुख लेपायमान करतुं नथी जेमके नल, राम, युधिष्ठिर ॥ ३१८ ॥

अयोध्यां मथुरा माया काशी कांची अर्वाङ्गिका ।

पुरी द्वारावती चैव सप्तैता भोक्तृदायिकाः ॥३१९॥

अयोध्या, मथुरा, मायापुरी (हरद्वार) काशी, कांची, उज्जैन, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी ये सात भोक्तृपुरी छे ३१९ येन यत्रैवं भोक्तव्यं सुखं वा दुःखमेववा ।

स तत्र यध्वा रज्ज्वेव बलाद्दैवेन नीयते ॥३२०॥

जने जेजग्या पर सुख अथवा दुःख भोगवाबुंछे । ते जग्या

पर जेम दोरंडी थी कोई ने घांधी लइ जाय ते रीते दैवतेनेते
स्थले लइजायछे ॥ ३२० ॥:

नीचा भ्रयोन कर्तव्यः कर्तव्यो महदाश्रयः ।

अजा सिंहप्रसादेन आरूढो गजमस्तके ॥३२१॥

नीचनो आश्रय नहीं करतां, मोटानोंज आश्रय करवो जेम
चकरो सिंह ना प्रसादे हस्ती नोम स्तकनी पदवी पाभ्यो । ३२१

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी

दैवं प्रधान मितिका पुरुषा वदन्ति ॥

देवं विहाय कुरु पौरुषमात्मशक्त्या

यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ॥३२२॥

उद्योगी पुरुष मनुष्यमां सिंह जेवोछे जेतेनेज लक्ष्मी
प्राप्तथायछे निरुद्यमी पुरुष दैवनेज प्रधान मानेछे, परन्तु दैवने
मुकीने शक्ति अनुसार उद्योग करयत्ने करीने जे सिद्धि न
न धायतो पछी कोने दोष देवो ? ॥ ३२२ ॥

अनर्घ्यमपि माणिक्यं हेमाश्रयमपेक्षते ।

अनाश्रया न शोभन्ते पंडिता वनिता लताः ॥३२३॥

मणिक उत्तमछे, पण कंचनना समागम वगर शोभतुं
नथी, तेज प्रमाणे विद्वान, स्त्री, अनेवेल ये सारा आश्रय वगर
शोभता न थी (वृद्धि पावता नथी) ॥ ३२३ ॥

जामाता पुरुषोत्तमो भगवती लक्ष्मी स्वयं कन्यका ।

दूतोयस्य बभूव कौशिक मुनीर्यज्वावसिष्ठः स्वयम् ॥

दाताश्री जनकः प्रदान समये चैकादशस्याग्रहाः ।

किं भूमो भवितव्यतां हतविधे रामोऽपियातो वनम् ३२४

जमाइ पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी छे ने साक्षात् लक्ष्मी जेवी कन्याछे (सीताजीछे) तथा विश्वामित्र जेवाटूतछे, वशिष्ठ जेवा गोरछे, ने जनक जेवातो कन्यादान थापनारछे जेजे समे लाभ भुवनमां, जेजे यथाग्रहछे जेबुं मुहुत लीयाछतां पण प्रारब्धनी यातशु कहेवी के रामचन्द्र जी ने वनमां जवु पड़यु ॥ ३२४ ॥

क्वचित्पाणी प्राप्तं घटितमपि कार्यं विघटय ।

स्प्रशक्यं केनापि क्वचिद् घटभानं घटयति ॥

तदेयं सर्वेषामुपरीपरितो जाग्रति विधा ।

बुपालम्भः कोऽयं जनतनु धनोपार्जनविधौ ॥३२५॥

कोई वखते 'हाथमां आवेलु काम खाल्युं जायछे' जे कोई वखते न जनीशके तेबुं काम वेनीजायछे । तेवीरीते सां ना विधि जाग्रत रहे लोछे, तो पछी, मनुष्य ने धन सम्पादन करवामां दोष को दोष कोने देधो ? ॥ ३२५ ॥

उद्योगः कलहः कण्डू धृतं मद्यं परस्त्रीयः ।

आहारो मैथुनं निद्रा सेवनात्तु विवर्धते ॥ ३२६ ॥

उद्योग. कजोया, खुजली, भुगार, दारुनुं व्यसन, पराई
स्त्री, आहार, रति सुख, निद्रा, पटली वस्तुनुं जम जेम सेवन
करते भवृद्धि धायेछे ॥ ३२६ ॥

खरं, श्वानं, गजं मत्तं रएहां च बहु भाविणीम्
राजपुत्रं कुमित्रं च दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ३२७ ॥

गधेहो. कुतरो, हाथी, (मदनमत्त) चाचाल स्त्री, राज-
कुमार, अने नठारो मित्र ए सर्वनो दूर थी त्याग करवो ३२७
कुशला शब्द वर्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः ।

कलौ वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुने बालकाइव ॥ ३२८ ॥

फाल्गुणमां जेम बालको मोडे थी मात्र बोले छे पण
विषयो मां अशक्त तेमज कलियुग मां वेदान्तिओं घातों
करवामां कुशलछे, पणचालवामां न थी ॥ ३२८ ॥

परदारं परद्रव्यं परिवादं परस्य च ।

परिहासं गुरोः स्थाने चापत्य च विवर्जयेत् ॥ ३२९ ॥

बीजानी स्त्री अन्यनुं द्रव्य, बीजानीसाथे वादविवाद,
अन्य पुरुषनी मशकरी, अने मोटे ठेकाणो उहा इनको त्याग
करवो ॥ ३२९ ॥

कोकिलानां स्वरूपं नारी रूपं पतिव्रतम् ।

विद्यारूपं कुरुषाणां क्षमारूपं तपस्विनाम् ॥ ३३० ॥

कोयलनु रूप तेनो स्वर छे नारी नू रूप पतिव्रता छे,
कुरुपानु रूप विद्या अने तपस्विनु रूपते क्षमा छे ॥ ३३० ॥

पादपानां भयं वातात्पद्मानां शिशिरो भयम् ।

पर्वतानां भयं वज्र माधुनां दुर्जनो भयम् ॥३३१॥

झाड ने पवननो भय छे, कमल ने शियालानो भय छे,
पर्वतने वज्रनो भय छे अने साधु पुरुषने दुर्जननो भय
छे ॥ ३३१ ॥

अतिपरिचयादवज्ञा संततगमनादनादरो भवति ।

मलये भिल्लपुरान्धो चन्दनतरुकाष्ठ मिन्धनंकुरुते ॥३३२॥

अति परिचय राखवाथो मान भग थई अनादर थाय छे,
जेम मलयाचल पर्वतने विपे बसनारी भिल्लनी स्त्रीओ चंदनना
काष्ठने जलाती छे ॥३३२॥

अनुचितकर्मारंभः स्वजनविरोधो बलीयसी स्पर्धा ।

प्रमदाजनविश्वासो मृत्युद्वाराणि चत्वारि ॥३३३॥

न करवानु काम करबुं सगां संबधो साथे विरोध, बल
वान् साथे स्पर्धा (हुज्जत) करवी ने खो जात थी विश्वास
राजनो ये चार मृत्युनां घर छे ॥ ३३३ ॥

आपद काले मित्रपरीक्षा शूरपरीक्षारणाङ्गणेभाति ।

विनये वंशपरीक्षा छयः परीक्षा निर्धनेपुंसि ॥३३४॥

आपद आव पडे त्यार मित्रनी परीक्षा थाय छे, तेम शूरनी

परीक्षा युद्धना स्थान ऊपर, नै कुलनी परीक्षा तेना विनय
उपरथो, नै श्रौती परीक्षा दुर्बल अवस्थामां थाय छे ॥ ३३४ ॥

मुखं पद्मदलाकारं वाचा चंदनशीतला ।

हृदयं क्रोधसंयुक्तं त्रिविधं घूर्तं लक्षणम् ॥३३५॥

मुख कमलना पुष्प जेवुं वाणी चन्दनना जेवी शीतल अने
हृदय क्रोध युक्त ये त्रण घूर्तनां लक्षण छे ॥ ३३५ ॥

संपूर्णंऽपि तडागे काकः कुम्भोदकं पिपति ।

अनुकूलेपि कलत्रे नीचः परदारलम्पटो भवति ॥३३६॥

संपूर्ण तडाग भर्युं होय तथापि कागडो खीनां मस्तक
उपरनां घडामांथी पाणी पाण छे तेनी माफक नीच पुरुष
पोताने अनुकूल खी छतां परदारा सेवन करे छे ॥ ३३६ ॥

अबला यत्र प्रबला बालो राजा निरक्षरो मन्त्री ।

नहि नहि तत्र धनाशा जीवितआशा दुर्लभो भवति ३३७

ज्यां खी बलवान होय राजा बालक होय मंत्री मूर्ख होय
त्यां धननी आशा तो शेनी पण जीववानी आशा में दुर्लभ
जाणवी ॥ ३३७ ॥

इन्दुकैरविणिवं कोकपटलीवाम्भोजिनीवल्लभं ।

मेघञ्चातकमण्डलीव मधुप श्रेणीवपुष्पव्रतम् ॥

माकन्दंपिक सुन्दरीव रमणो चात्मेश्वरं प्रोशितम् ।

चेतोवृत्तिरियं सदा नृपवरत्वाद्रिष्टु मुत्कंठते ॥३३८॥

જેમ કુમુંદિની ચન્દ્ર ને જેવા ઇચ્છા કરેછે ચક્રવાકની પંક્તિ સૂર્ય ને જેવા ઉત્કર્ણિત છે । પૈયાંના મળડલી મેઘને જોવા ઉત્કર્ણા કરેછે તેમ ભવરાયો પુષ્પનાં સમૂહને જોવા ઇચ્છેછે ને કોયલ આંવા ને જોવા ઇચ્છા રાંવેછે ધને : પ્રોશિત પતિ કો પરદેશ માં ગયેલા પતિ ને જોવા ઇચ્છેછે તેમ અમારા ચિત્ત ની વૃત્તિ સર્વદા તમને જોવા ઉત્કર્ણા કરે છે ॥ ૩૩= ॥

દોષાકરોઽપિ કુટિલોપિ કલંકિનોપિ ।

મિત્રાવસાથ સમયેપિ હિતોદયેઽપિ ॥

ચન્દ્રસ્તથાપિ હર્વલ્લભ તામુપૈતિ ।

નેવાશ્રિતેપુગુંણ દોષ વિચારણા સ્વાત્ ॥૩૩૬॥

ચન્દ્રમા જોકે દોષાકાર છે કુટિલ છે, કલંક વાળો અને મિત્રનો અસ્ત પામવા યા સમયમાં ઉદય પામનાર છે નોપેણ સર્વો શિવ ને પ્યારો છે પટલે જે પોતાનો આશ્રિત હોય તેના ગુણ દોષનો વિચાર નહિ કરવો ॥૩૩૬॥

અધિવેકમતિ નૃપૈતિ મંત્રિપુ ગુંણવત્સુ વેપ્રીતગ્રીવઃ ।

યદ્યત્વત્તારચપ્રવલા તત્ર કથં સહજના વસરઃ ॥૩૪૦॥

જ્યાં રાજા તથા મન્ત્રી અધિવેકી હોય તથા ગુણવાગની યાત સાંભલતાં યાંકી ડોક કરતા હોય અને દુષ્ટજન પ્રવલ હોય ત્યાં સારા માણસ નોજ યસા ફયાં યાંજ હોય ॥૩૪૦॥
માન્ધાતાં વ્ય મેહોપતિ કૃતયુગા લંકારભૂતોગતઃ ।

सेतुर्योनमहोदधौ विरचितः क्वासौदशा स्यान्तकः ॥
 अन्येचापि युधिष्ठिर प्रमृतयो यातादिबं मूपते ।
 नैकेनापि समङ्गता वसुमति नूनंत्थथा यास्यति ३४१

हे राज मांधाता राजा के जे सधली पृथ्वीनो पति अने सतयुग ना घरेणा जेवो हतो तेपण मरी गयो, रामचन्द्रजीके जेणे महासागर मां पाज बांधी अने रावण ने मायो तेपण हाल क्या छे । बीजा युधिष्ठिर आदि राजाओपण स्वर्ग वासी थयाछे । ते माना कोई साथे पृथ्वी गई नथी पण नमारी साथे आवशे खरी ॥ ३४१ ॥

रामे प्रवजनं बलेर्नियमनं पांडोः सुतानां वनम् ।
 वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपते राज्यात्परिभ्रंशनम् ॥
 कारागारनिशेवणञ्च मरणं सचिन्स्य लंकेश्वरो ।
 सर्वकालवशेन नश्यन्निरः कोवापरित्रायते ॥३४२॥

अर्थ—राम ने वनवास बली राजाने बन्दी पाण्डवोंने वनवास यादवों का नाश नल राजा तु पद भ्रष्ट रावण ने सहस्राजुंन तु बन्दी खानु ने अन्ते राम ना हाथ थो मरण माटे सर्व लोको कालने लीधेज दुःखी धायछे । ३४२ ॥

सर्वेवर्णाः शाक्त सर्वे न च शोवा न च वैष्णवा ।
 आदि शक्तिमुपासन्ते गायत्रिम् वेदमातरम् ॥३४३॥

अर्थ—सभी वर्ण के लोग शक्ति उपासक थे, न शैव थे न वैष्णव । आदि शक्तिकी उपासना करने वाले थे । गायत्री वेद की माता मानी जाती थी । ३४३ ॥

हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः ।

अनच्छयापि संस्पृष्ट दहतेन कि पावकः ॥३४४॥

अर्थ—भगवान् के स्मरण से पाप का हरण होता है, चाहे दुष्ट स्वभाव का भी हो जैसे इच्छा बिना अग्नि को छूने से जला देती है ॥ ३४४ ॥

एतदक्षरं गार्ग्यं विदिस्वाऽस्मिन् ।

लोके जुहोतीयजते ॥

यस्तप्यते बहुनि वर्षं सहस्राण्यन्तु ।

व देवास्य तद्भवति ॥ ३४५ ॥

अर्थ—हे गार्गी जा अविनाशी परमेश्वर ने जान्या बिना कोई हजारों वर्ष आ लोकमां होय याग तपस्या करे । तथापि ते स्थायी फल ने प्राप्त करतो नथी ॥ ३४५ ॥

यद्यप्यत दक्षरंगार्ग्यं विदिस्वा स्मालोकान प्रैति सकृपण
अथयएतदक्षरं गार्ग्यं विदिस्वा

स्मालोकानप्रैति सत्राक्षणः ॥३४६॥

अर्थ—हे गार्गी जेमाणस अविनाशी परमेश्वर ने न जानता ए लोकमां मरी जाय, ते कृपापात्र अने दीन छे । अनेजे अवि-

नाशी परमेश्वर ने जाणि ने आ लोक मारी जायछे ते ब्राह्मण छे ॥ ३४६ ॥

सुलभाः पुरुषा लोके सततंप्रियवादिनः ।

अप्रिय स्यापि पथ्यस्य श्रोतावक्ता च दुर्लभा ॥३४७

अर्थ—आ दुनियां मां हमेशा मोठे मीठू बोल नार धरामाण सो हैं सहेलाइ से मिले छे परन्तु कडुवुं पण हितकर्ता बचन सांभल नार तेमज कहे नार मलबा मुश्किल छे । ३४७ ॥

संतोषः परमोलाभः सतसंग परमं धनं ।

विचारं परमं ज्ञानं शयं च परमं सुखं ॥३४८॥

अर्थ—सन्तोष तेजमोटी लाभ, सतसंग नी प्राप्ति तेज मोटी दौलत, सत्य अमत्य नी विचार यंज सारा मांसारुं ज्ञान अने शमता तेजमादू सुखछे । ३४८ ॥

सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते

शुष्कैस्तृणैर्वन गजा बलि नो भवन्ति ।

कन्दैः फलै मुनिवरा क्षपयन्ति कालः ।

संतोष मेव पुरुषस्य परं निधान ॥३४९॥

अर्थ—सांप पवन पीते रहे छे पण दुर्बल थता नथी, हाथियों वन-ना सुखो घास खावा थी पण बल हीन थता नथी । श्रेष्ठ मुनियों कन्द तथा फल ना आहार कर काल खपावेछे, मतलब के सन्तोष तेज माणसनों मोटी भण्डार छे ॥ ३४९ ॥

सा श्रौर्या नमदं कुर्यात् सःसुखी तृष्णयोजितः ।

तन्मित्रो यत्र विश्वासः पुरुषोऽथो जितेन्द्रियः ॥३५०॥

अर्थ—जैसे दौलत मल्या छर्ता पणते वाचन अहकार नर्था तेज श्री मन्त जेणे तृष्णा जीती छे तेज सुखी जेनों विश्वास छे तेज मित्र अनेजेणे इन्द्रियों वश करीछे । तेज पुरुष छे । ३५० ॥

समेशुचौ वन्दिह वालुका विवर्जते शब्दजला श्रयादिभिः
मनोनुकूले नतु चतु पोडने गुहानिवाश्रयणे प्रयोजयेत्

अर्थ—एक सरखी शुद्ध अग्नि अने रेता बिना शब्द वाणा अने मण्डपादि वाली जगा भी अथवा जे मन ने अनुकूल लागे । अने आसने पीडादायक न होय एता निर्वात गुहा मां चित ने परमात्मा मां लगाडड । ३५१ ॥

न दुर्जन साधुदशामुपैति बहुप्रकारैरपि शिक्षमाणः ।

आमूलसिक्तः पयसा घृतेन

न निम्बवृक्षोमधुरत्वमेति ॥३५२॥

दुर्जनपुरुषको बहुप्रकार शिक्षा देने पर भी साधुदशा को प्राप्त नहीं होते है जैसे निम्बका पेड़ को मूलमें घृत और दूध का सिंचन करने पर भी मधुरता नहीं होती है ॥३५२॥

वापि कूप तडागानां आरामे सुरवेश्वरानाम् ।

उच्छेदने निशंको सविप्रो म्लेच्छमुच्यते ॥३५३॥

यावली पुत्रा नलाय बगीचा रवेश बालामकान शका रहीत जो नाश कर देता है सो ब्राह्मण म्लेच्छ कहलाता है ॥३५३॥

सूचना


प्रिय पाठकगण,

युद्ध के कारण कागज की मंहगी तथा अभाव होजाने से और मेरा स्वास्थ्य ठीक न रहने से पुस्तक छपाने में विलम्ब हुआ। फिर भी अब तक जो साहित्य विभाग की छपाई हो चुकी है। उसकी जिल्द बनवाकर इच्छुक जनों के समीप प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि इसके अवलोकन से आप लोगों को सन्तोष होगा।


निवेदक—

स्वामी पूर्णानन्दतीर्थ





मुद्रक—
श्री धन्नुलालि, प्रयोध प्रेस, राजमन्दिर, काशी ।



प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्नि-
र्न चलति खलुवाक्यं सज्जनानांकदाचित् ॥३५६॥

सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो, कमल पर्वत के शिखर पर विकसित हो, मेरु पर्वत चलायेमान हो, अग्नि शीतल हो जाय तो भी सज्जन पुरुषों का बचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता ॥ ३५६ ॥

उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ।

पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विपवर्धनम् ॥ ३५७ ॥

जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने से उसमें विष की ही वृद्धि होती है, उसी प्रकार मूर्खों को ज्ञान देने से वह शान्त नहीं होता. उल्टा क्रोधित हो जाता है ॥ ३५७ ॥

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।

नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ॥ ३५८ ॥

क्रिया हुआ शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगना ही होगा चाहे कोटि कल्प क्यों न व्यतीत हो जाय बिना भोगे, कर्म का नाश नहीं होता ॥ ३५८ ॥

मलयाचल गंधने त्विन्धनं चन्दनायते ।

तथा सज्जन संगेन दुर्जनः सज्जनायते ॥३५९॥

मलयाचल की सुगंध से जलाने वाली लकड़ी भी सुगन्धित

चन्दन हो जाती है, उसी प्रकार सज्जन की संगत से दुर्जन भी सज्जनता प्राप्त कर लेता है ॥ ३५९ ॥

स्थानं प्रधानं न बलं, प्रधानं ।

स्थानेस्थितः का पुरुषोऽपि शूरः ॥

जानामि नागेन्द्रं तव प्रभावं ।

कंठेस्थितो गजसि शंकरस्य ॥३६०॥

स्थान ही प्रधान है बल प्रधान नहीं, स्थान पर रहा हुआ कायर पुरुष भी शूरवीर हो सकता है । हे नागेन्द्र ! तेरा प्रभाव मैं जानता हूँ कि तुम शंकर की प्रीति में रह कर गजना करते हो ॥ ३६० ॥

पुण्यतीर्थे कृतयेन तपः क्वाप्यतिदुष्करम् ।

तस्यपुत्रोभवेद्दृश्यः समृद्ध्या धार्मिकः सुधोः ॥३६१॥

जो पुण्यरूपी क्षेत्र में भक्ति दुष्कर तप करता है उसका पुत्र आज्ञांकित, समृद्धियुक्त, धार्मिक और सुबुद्धिवाला होता है ॥३६१॥

कल्पद्रुमः कल्पितमेवसूते

साकामधुक्कामि तमेवदोग्धिः ।

चिन्तामणिरिचिन्तितमेवदत्तो

सतां हि संगः सकलं प्रसूतेः ॥३६२॥

जिम प्रकार कल्पवृक्ष इच्छित फल देता है कामधेनु से-

इच्छित फल प्राप्त होता है, चिंतामणि रत्न भी मनोरथ पूर्ण करता है । उसी प्रकार सत्पुरुष की संगत से सर्व कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ३६२ ॥

गुणवज्जनसंसर्गाद्यातिसर्वोऽपि गौरवम् ।

पुष्पमालाद्रसंगेन सूत्रं शिरसि धार्यते ॥३६३॥

गुणी पुरुष के संसर्ग से सब कोई गौरव युक्त हो जाता है जिस प्रकार पुष्प की माला के संसर्ग से सूत का डेरा भी मस्तक पर धारण किया जाता है ॥ ३६३ ॥

नरस्याभरणंरूपं रूपस्याभरणं गुणः ।

गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा ॥३६४॥

मनुष्य का भूषण भौंदर्य, सौंदर्य का भूषण रत्नगुण, सद्गुण का भूषण ज्ञान, और ज्ञान का भूषण क्षमा है ॥३६४॥

क्षमावलमशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ।

क्षमावशीकृतिलोके क्षमया किं न सिद्ध्यति ३६५

जिस प्रकार अशक्त का बत क्षमा है उसी प्रकार शक्त का भी भूषण क्षमा ही है, क्षमा पृथ्वी पर वशीकरणभूत है, इमजिये क्षमा से क्या सिद्ध नहीं हो सकती ? ॥३६५॥

परंपां फलोदादं कुर्यान्न वैशुन्यं प्रमुद्रियम् ।

वैशुन्येन गताराहो श्चंद्राकींक्षणीयनाम् ॥३६६॥

बड़े मनुष्य को प्रिय किन्तु दूसरे को क्लेश उत्पन्न करने वाली ऐसी चुगली न करना चाहिये । देखो चंद्र और सूर्य चुगली करने से राहु के भक्ष्य होगये ॥ ३६६ ॥

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः ।

तस्मात्तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ॥ ३६७ ॥

मधुर बोलने से सब मनुष्य संतुष्ट होते हैं. इसलिये हमेशा मधुर भाषण करना, बोलचाल में कृपणता न दिखलाना चाहिये ॥ ३६७ ॥

लक्ष्मीर्वसति जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे मित्रवांधवे ।

जिह्वाग्रबंधनं प्राप्तं जिह्वाग्रमरणं ध्रुवम् ॥३६८॥

जिस प्रकार लक्ष्मी मित्र और भाई जीभ में वास करते हैं उसी प्रकार बंधन और मुक्ति भी जिह्वा में है ॥ ३६८ ॥

आत्मबुद्धिः सुखायैव गुण्युद्धि-विशेषतः ।

परंबुद्धिर्विनाशाय स्त्री बुद्धि प्रलयावहा ॥२६९॥

अपनी बुद्धि अनुसार कार्य करना सुखकर होता है, किन्तु गुरु की बुद्धि अनुसार कार्य करना अविक श्रेयस्कर है किन्तु दूसरों की और स्त्रियों की बुद्धि अनुसार कार्य करने से अनिष्ट परिणाम प्राप्त होता है ॥ ३६९ ॥

शोभन्ते विद्यया विप्राः क्षत्रिया विजयश्रिया ।

श्रियानुकूलदानेन लज्जया च कुलांगनाः ॥२७०॥

जिस प्रकार विद्या से ब्राह्मण शोभायमान होता है, क्षत्रिय विजय की कीर्ति से शोभायमान होता है, लक्ष्मी सुपात्र के पास जाने से शोभायमान होती हैं, उसी प्रकार लज्जा से गृह लक्ष्मी शोभायमान होती है ॥ ३७० ॥

पुत्रपौत्रवधूभृत्यैः संपूर्णमपि सवदा ।

भार्याहीनगृहस्थस्य शून्यमेवगृहं मतम् ॥३७१॥

पुत्र पौत्र और नौकर चाकरो से गृह शोभायमान होता है किन्तु स्त्री शून्य गृहस्थ का घर शोभायमान नहीं होता ॥३७१॥

अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रं नैव च नैव च ।

अजापुत्रं वलिदद्याद्देवोदुर्वलघातकः ॥३७२॥

अश्व, हस्ती और व्याघ्र का कोई बलिदान नहीं देता किन्तु बकरे का ही बलिदान दिया जाता है इसमें सिद्ध होता है कि देव भी दुर्बलो का घातक होता है ॥ ३७२ ॥

नास्तियज्ञंश्रियः किञ्चित्घ्नतं नैवोपासनं ।

या तु भर्तारिशुश्रूषा तथा स्वर्गं जयत्यसौ ॥३७३॥

जो स्त्री अपने पती की सेवा में अनुरक्त रहती है उसको यज्ञ मंत्र उपास आदि की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि यह तो सेवा से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकती है ॥३७३॥

भर्तादेवोगुरुर्भर्ता धर्मतीर्थं व्रतानि च ।

तस्मात्पसर्वं परित्यज्यपतिमेकं भजेत् सती ३७४

सती स्त्री के लिये पती ही देव, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है इसलिये सब बातें छोड़ कर सत स्त्री को पती सेवा ही करनी चाहिये ॥३७४॥

क्षान्तितुल्यंतघोनास्ति संतोषात्परमं शुभम् ।

नास्तितृष्णापरो व्याधिर्न च धर्मोदयापरः ॥३७५॥

शान्ति समान कोई तप नहीं है संतोष समान कोई सुख नहीं है तृष्णा समान कोई बाधा नहीं, और दया समान कोई धर्म नहीं है ॥३७५॥

उपभोक्तुं न जानाति श्रियं प्राप्तोऽपि मानवः ।

आकण्ठजलमग्नोऽपिश्वालिहृत्येव जिह्वया ॥३७६॥

लक्ष्मी का प्राप्त करके जो मनुष्य उसका उपयोग करना नहीं जानता वह मनुष्य उस कुत्ते के समान है जो गले तक पानी में रहता हुआ भी पानी जीभ से चाटता है ॥३७६॥

सांसारिक सुखासक्तं ब्रह्मज्ञोऽस्मित्तिवादिनम् ।

कर्मब्रह्मोभेय भ्रष्टं तं त्यजेदन्त्यज यथा ॥३७७॥

ससार के सुख में निमग्न होते हुए भी मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ ऐसे कहने वाले को क्रिया और ब्रह्मत्व से भ्रष्ट होने वाले तुच्छ मनुष्य की तरह त्याग देना चाहिये ॥३७७॥

सत्यानुचारिणी लक्ष्मीः कीर्तिस्त्यागानुसारिणी ।

अभ्याससारिणी विद्या बुद्धिकर्मानुसारिणी ३७८

जिस प्रकार लक्ष्मी सत्यानुचारी है, कौर्ति दान का अनुसरण करती है उसी प्रकार विद्याभास का और बुद्धिकर्म का अनुसरण करती है ॥३७८॥

अन्नदानात्परं दानं विद्यादानमतः परम् ।

अन्नेनक्षणिकात्तृप्तिर्यावज्जीवन्ति विद्यया ॥३७९॥

अन्नदान श्रेष्ठ है विद्यादान इससे अधिक श्रेष्ठ है क्यों कि अन्यदान से क्षणित तृप्ति होता है किन्तु विद्या दान के यावत् जीवन तृप्ती प्राप्त होता है ॥३७९॥

लोभमूलानि पापानि रसमूलानि व्याधय ।

इष्टमूलानिशोकानि त्रिणित्यक्त्वासुखीभव ३८०

लोभ पाप का मूल है, स्वाद व्याधि का मूल है, प्रीति शोक का मूल है इमलिय तीनों को त्याग करने से ही मनुष्य सुखी हो सकता है ॥३८०॥

विपस्य विपयाणां हि दृश्यते महदन्तरम् ।

उपभुक्तविषं हन्ति विषयः स्मरणादपि ॥३८१॥

विष और विषय में बहुत ही भिन्नता है क्यों कि विष खाने से नाश करता है किन्तु विषय का चिन्तन मात्र से नाश करता है ॥३८१॥

आज्ञाभंगोनरेन्द्राणां विप्राणां मानखण्डनम्

पृथर्कशय्या चकारिणामशस्त्रवध मुच्यते ३८२

राजा की आज्ञा का उल्लंघन ब्राह्मण का मस्तिष्क का छेदन स्त्री की पुरुषसे भिन्न शय्या यह तीनों हस्याके समान है ॥३८२॥

पंडितः सहसागत्यम् पण्डितैः सह संकथाः ॥

पण्डितैः सहमित्रत्वं कुर्वाणोनावसीदति ॥३८३॥

पंडित के साथ गमन बातचीत और मित्रता करनेवाला कभी दुःख को प्राप्त नहीं होता ॥३८३॥

मातृवत् परदाराणि परद्रव्याणिलोष्टवत् ।

आत्मवत्सवंभूतेषु यः पश्यति स पंडितः ॥३८०॥

पर स्त्री का माताके समान तथा दूसरे का धन मिट्टीके समान और सर्व आत्मा का अपना आत्मा के समान देखता है वही पंडित है ॥३८४॥

पड़दोषाः पुरुषेण ह हातव्या भूतिमिच्छता ॥

निद्रातंद्राभयक्रोधंमालस्य दीर्घसूत्रता ॥३८५॥

इस दुनिया में अभ्युदय चाहने वाले मनुष्य को निद्रा तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता आदि छः दुर्गुणों का त्याग करना चाहिये ॥३८५॥

न यस्य चेष्टितं विद्यान्नकुलं न पराक्रमम् ।

न तस्य विश्वसेत्प्राज्ञो यदीच्छेच्छ्रयमात्मनः ३८६

अपना श्रेय चाहने वाले सुप्त मनुष्य को चाहिये की वह

उस मनुष्य, का विश्वास न करें जिसके आचार, कुल और परा-
क्रम से अनभिज्ञ हो ॥३८६॥

वचस्तत्रैवक्तव्यं यत्रोक्तंसफलं भवेत् ।

स्थायिभवतिचात्यन्तराग शुक्लपटेयथा ॥ ३८७ ॥

जिस प्रकार धवल वस्त्र पर पूर्ण रूप से रंग लग जाता है
उसी प्रकार जहाँ फल की प्राप्ति हो वहाँ पर ही बोलना
चाहिये ॥३८७॥

प्रत्यक्षेगुरुवः स्तुत्याः परोक्षे मित्र वान्धवाः ।

कर्मान्तेदोपमृत्याश्च पुत्रन्वैव तथा स्त्रियः ॥३८८॥

गुरु की स्तुति उनके समक्ष करना चाहिये मित्र और भाई
की बढ़ाई दूसरों के पास करना चाहिये परन्तु स्त्री और पुत्र
की बढ़ाई कभी न करनी चाहिये ॥३८८॥

उत्तमंस्वार्जितंभुक्तं मध्यमं पितुरर्जितम् ।

कनिष्ठं भ्रातृवित्तञ्च स्त्रीवित्तमधमाधमम् ॥३८९॥

अपनी स्वयं जाति परिश्रम से उपार्जन कर व्यय करना
यहाँ उत्तम है पिता के उपार्जन पर निर्वाह करना वह मध्यम
भाई के उपार्जन से जीवन व्यतीत करना कनिष्ठ और स्त्री के
उपार्जन किया हुआ धन का उपयोग करना महा अधम है ॥३८९॥

घृतकृन्मसमानारी तस्माद्भारसमः पुमान् ।

तस्माद्घृतं च चर्हि च नैकत्रस्थापयेद्बुधः ॥३९०॥

घो के कुम समान स्त्री है और पुरुष अग्नि समान है
तलिये, सुष्ठ मनुष्य को चाहिये कि घो और अग्नि दोनों पास
रखें इससे अनिष्ट होता है ॥३९०॥

प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितं धनं ।

तृतीये नार्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति ॥३९१॥

जिसने बाल्यावस्था में विद्या नहीं पढ़ी युवावस्था में
लक्ष्मी प्राप्त नहीं की प्रौढ़ावस्था में पुण्य संचय नहीं किया वह
वृद्धावस्था में क्या कर सकेगा ॥३९१॥

मृगामृगैः सङ्मनुव्रजन्ति

गावश्च गोभि स्तुरगास्तुरंगैः ।

मूखाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः

समान शीलन्यसनेषु सख्यम् ॥३९२॥

जैसे मृग मृगों के सहवास में रहता है गौ गाय के संग में
में अश्व अश्वों के साथ रहता है वैसे ही मूर्ख लोग मूर्खों का
और बुद्धिमान विद्वानों का संग चाहता है इससे सिद्ध होता है
कि समान गुणशीलों से ही मित्रता होती है दूसरों से
नहीं ॥३९२॥

कुपात्रदानाच्च भवेद्दरिद्रो

दारिद्र्यदोषेण करोति पापम् ।

पापप्रभावान्नरकं प्रयाति

पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी ॥ ३६३ ॥

कुपात्र को दान देने से मनुज्य दरिद्र होता है और दरिद्रता के दोष से पाप कर्म करता है पापा चरण करने से नर्क की प्राप्ति होती है इस प्रकार वह बार बार दरिद्री और पापी होता है ॥३९३॥

येशान्तदान्ता - श्रुतिपूर्ण कर्णा ।

जितेन्द्रियाः स्त्रीविषये निवृत्ताः ।

प्रतिग्रहे संकुचिताभिहस्ता

स्तेब्राह्मणा स्तारयितुं समर्थाः ॥३६४

शान्त, सहनशील, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, इन्द्रियों को वश में रखने वाला, स्त्री संसर्ग से विरक्त, दान ग्रहण करने में सन्तुष्ट होने वाले ब्राह्मण में ही उद्धार करने की सामर्थ्य होती है ॥३९४॥

अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं

क्षमादया शान्ति जनप्रियत्वम् ।

निर्लोभी दाता भयशोकहीनं

ज्ञानस्यचिह्नं दशलक्षणानि ॥ ३६५ ॥

क्रोध का न होना वैराग्य, इन्द्रियों पर विजय, क्षमा, दया,

शान्ति, लोक प्रियता, निर्लोभी, दान शीलता, भय और शोक रहित यह दश ज्ञान के लक्षण है ॥ ३९५ ॥

वनेषु दोषाः प्रभवन्ति रागिणां

गृहेषु पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः ।

अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते

निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ॥३९६॥

रागी और विषयी पुरुष को वन में भी यह दोष रह सकते हैं अपने घर में रह कर भी जितेन्द्रिय होकर रहना वह तप करने के बराबर होता है जो पुरुष अनिन्द्य कर्म और विषय से निवृत्त रहता है उसका घर ही तपोवन समान है ॥३९६॥

नभोभूपापूपा कमलवन भूपा मधुकरो

वचोभूपासत्यवरविभवभूपावितरणम् ।

मनोभूपामैत्रीमधुसमयभूपामनसिजः

सदोभूपाशक्ति सकलगुणभूपाचविनयः ॥३९७॥

सूर्य आकाश का, भमरा, कमल का, सत्य वाणी का, वैभव का दान, चित्त का मित्रता, धसन्त ऋतु का कामदेव, सत्य पुरुष का अच्छे वचन, और सर्व गुणों का भूषण विनय है ॥३९७॥

क्वचिद्भूमौशायी क्वचिदपि चपयैकशयनः

क्वचिच्छाकाहारीक्वचिदपिचशात्यौदनरुचिः

कचिस्कंधाधारी कचिदपिचदिव्याम्बरधरो

मनस्वी कार्यार्थनगणयतिदु खंन चसुखम् ३६८

कभी जमीन पर सोना पड़ता है, ता कभी सुंदर पलंग पर कभी धनस्पति खाकर रहना पड़ता है तो कभी मिष्ट भोजन मिलता है, कभी कौपिन पहनना पड़ता है, तो कभी दिव्य वस्त्र प्राप्त होते हैं, फिर भी बुद्धिमान पुरुष कार्य वशा सुग्य और दुःख को नहीं समझते ॥३९८॥

प्रायेणात्र कुलान्वितं कुकुलजाः श्रीवल्लभं दुभगा

दातारं कृपणां ऋजूनृजवोवित्तां न्वितं निधेना ।

वरूप्यापहताश्चकांत चपुपं धर्माश्रयंपापिनो

नानाशास्त्रविचक्षणचपुरुषं निन्दन्तिमूर्खाजिनाः ३६९

इस स्राष्ट में स्वाभाविक तौर से नीच कुल वाले आम कुल वाले की, दुर्भागो भाग्यशालियों की, कृपण दातार को, दुष्टजन सत्पुरुषों की, निर्धन धनपति की, कुरुपवाला स्वरूपवालों की, पापी लोग धर्मिष्ठों की और मूर्ख विद्वानों की निन्दा करता है ॥३९९॥

यौवन धन संपत्ति. प्रभुत्वमविवेकिता ।

एकैकमप्यनर्थायकिमुपत्रचतुष्टयम् ॥४००॥

नव यौवन धन को प्राप्ति प्रभुता, और विवेक शून्यता चारो अनर्थ कारो है, जिसमे यह चारो है, वह क्या अनर्थ नहीं कर सकता ॥४००॥

अस्त्रंगमयति पूताङ्कोपोऽरीनृत्तंशुना ।

पादस्प र्शेपुरक्षांसिदुष्कृ तिनवधूनतम् ॥४०१॥

श्राद्ध के दिन राने से उसका फल प्रेत को मिलता है क्रोध करने से शत्रु को फल मिलता है असत्य बोलने से फल श्वान को मिलता है पैर का स्पर्श करने से राक्षस को फल मिलता है और श्राद्ध का अन्न फेंकने से श्राद्ध का फल पापी को प्राप्त होता है ॥४०१॥

नाग्निमुखेनोपधमेन्न ग्नानेक्षतच स्त्रियम् ।

नामेध्यांपूसीपदेग्नौनचपादौपूताययेत् ॥४०२॥

अग्नि को मुख से प्रज्वलित करना नहीं, नग्न स्त्री को देखना देखना नहीं, अपवित्र वस्तु अग्नि में डालना नहीं, और पैर के तलुओं को सेकना नहीं ॥४०२॥

अमावस्यागुरूहन्ति शिष्यांहन्ति चतुर्दशी ।

ब्रह्माष्टकापौर्णमास्यौतस्मातापरिवर्जयेत् ॥४०३॥

अमावस्या के दिन अध्ययन करने से गुरु का नाश होता है चतुर्दशी के रोज शिष्य का और अष्टमी और पूर्णिमा के दिन अध्ययन करने से वेद नहीं आता इसीलिए अध्ययनमें इन तिथियों को त्यागना चाहिए ॥४०३॥

हिरण्यमायुरन्नंच भूर्गोश्चाप्योप तस्तनुम् ।

अश्वचक्षु स्त्वयं वासो धृतं तेजस्तिलापजा ४०४

सुवर्ण और अन्न का दान लेने से आयु क्षिण होती है ।
 पृथ्वी और गौ का दान लेने से शरीर कृश होता है, अश्व का
 दान लेने से चक्षु का वस्त्र का दान लेने से त्वचा का घृत का
 दान लेने से तेल का और तिल का दान लेने से सन्तति का नाश
 होता है ॥४०४॥

दमन्त्र्यान्नृपतिविनश्यति संग्तात्सुता "
 लाभनादिपूऽनध्ययनात्कुलंकुतनया
 च्छोलंखलोयासनात् हिमद्यादनवक्षेणादपि
 कृपिः स्नेहः पूवासाश्रयात्मैत्रीचा पूण्या
 त्मृधिघरनया त्यागात्प्रमादाध्वनम् ॥४०५॥

दुष्ट मन्त्री से राजा का, स्त्री के संसर्ग से योगा का लाडप्यार
 से पुत्र का, अध्ययन करने से ब्राह्मण को, कुपुत्र से कुल का
 दुर्जन की सेवा से स्वभाव का, मदिरा से लज्जा का, द्वेष भाल
 न करने से खेतों का प्रवास करने से रनेठ का, अविनय से
 मैत्री का अनीति से ममृद्धि का, और अपात्र को दान देने से
 और प्रमाद से धन का नाश होता है ॥४०५॥

यध्यात्रानिजभालपट्टलिखितं स्तोत्रं मह द्वाधनं ।
 तत्प्रामोतीमरुस्थलेऽपिनितरां मेरीततोताधिकम् ।
 तद्धीरोमववित्तवत्मुकृपणां वृत्तिवृथामाकृताः
 कूपेपश्य पयोनिधावपिघटोगृहणादितुन्दंजलम् ॥४०६॥

विधात्री ने जिसके भाग्य में कम या अधिक जो धन लिखा है, वह निजंन स्थान में भी प्राप्त होता है। इससे अधिक मेरा पर्वत पर जाने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये धैर्य धारण करना और धनपतियों के पास अधिक कृपणता न दिखलाना क्योंकि घट कुण्ड और समुद्र से समान ही जल भरता है ॥४०६॥

जाड्यं हीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ केतवं
शूरेनिर्घृणता मुनौ विप्रतिता दैन्यं प्रियांलापिनी ।

तेजस्वीन्य वलिसता मुखरता वक्तव्यं शक्तिः स्थिरं

तत्कोनामगुणो भवेत्सगुणीनां यो दुर्जनैर्नाकिताः ॥४०७॥

लज्जा शील पुरुषको मूर्ख, व्रत करने वालेको दम्भी, पवित्रको धूर्त शूरवीर को निर्दय, मरल को बुद्धिहीन, प्रियवक्ता को दीन तेजस्वी को गर्विष्ठ, चतुर को बकवादो और स्थिर को अशक्त कहते हैं तो गुणज्ञ पुरुषों में ऐसा कौन सा गुण है जिसको दुष्टों ने दापी न बनाया हो ॥४०७॥

पितापुत्रौ सहासोतद्वैविप्रो क्षत्रियावपि ।

वृध्धौ वैश्यो च शूद्रो च न त्वन्यावितरेतरम् ॥ ४०८ ॥

पिता और पुत्र, ब्राह्मण और द्राह्मण क्षत्रिय और क्षत्रिय, वैश्य और वैश्य, शूद्र और शूद्र वृद्ध और वृद्ध यह सब एक साथ बैठ सकते हैं इसके विपरीत वर्ण वाले एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते ॥४०८॥

घहवोमत्यदं प्राप्तास्त्वाष्ट्रकायाधवादय
 वृषयर्वाधलिर्वाणोमयश्वाथविभीषणः ।
 सुप्रोवोहनुमानृत्तोगजोशृध्रोवणिक्रधः
 व्याधःकुब्जावृजेगोप्योवज्ञपत्न्यस्तथापरे
 तेनाधीत श्रुतिगणा नोपासीत महत्त्वाः
 अव्रतातपातपसः सत्संगांन्माप्नुवागताः ॥४०९॥

वृत्रासुर, प्रह्लाद, वृषपर्वाधलि, वृष्णिवाणासुर मयदानव,
 विभीषण, सुप्रोव, हनुमान, जाम्बवन्त, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधर,
 धर्म व्याधि कुब्जा, व्रजागता यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नीयां
 और ऐसे दूमरे बहाने हैं वेदजन थे न अधिक पढ़े लिखे भी
 थे महात्माओं की सेवा भी नहीं किया, और तप भी न किया था
 केवल सत्संग से ही मुझे प्राप्त हुए हैं ॥४०९॥

पंचैतेपांडुपुत्राः क्षितिपतितनया धमधीमार्जुनाद्याः
 शूरामत्य प्रतिज्ञाः द्रढतरवपुषः ।
 केशवेनापि गूढाः ते विराः पाणीपात्रेकृषणजनग्रहे
 भिक्षु चर्यां प्रवृत्ताः क्रोधाकार्ये समर्थे
 भवति विधिवशाद् भावनीकर्मरेखा ॥४१०॥

युधिष्ठिर, भीम अर्जुनादिक पाण्डव पाण्डव राजकुमार,
 शूरवीर, म यप्रतिज्ञ, बलवान्, जिसके रक्षक भी कृष्ण थे

तथापि कृपण के यहां हस्तरूपी पात्र में भिक्षा मांगने गये थे इससे सिद्ध होता है कि विधि विरुद्ध कार्य करने में कौन समर्थ हुआ है ॥४१०॥

बोधयन्ति न या चन्ते भिक्षाद्वारा ग्रहे ग्रहे

दियतां दियतां नित्य मदातुफलमिद्रशम् ॥४११॥

मिक्षुक भिक्षार्थ घर घर याचना नहीं करते किन्तु वह हम लोगों को उपदेश करते हैं कि आप दान दीजिए क्योंकि दान न देने से हमको यह फल मिला है जिससे हम घर घर मांगते हैं ॥४११॥

देहित्यचनं श्रुत्वा हृदिस्थाः पंचदेवताः

मुखान्निर्गत्यगच्छन्ति श्रो,ह्री,ध्री, घृतिकोर्तपः ॥४१२॥

“इतना” कहने ही में शरीर में से श्रो, लज्जा, बुद्धि धैर्य और कीर्ति यह पांचो देव मुख में निकल कर नष्ट हो जाते हैं ॥४१२॥

तीक्ष्णधारेणखड्गेन वरंजिह्वादिधाकृताः

न तु मानं परित्यज्यपदेद्देहितिहिमापितम् ॥४१३॥

स्वभाव को छोड़ कर हमको दीजिए ऐसा कहने में यही अच्छा है कि तिक्ष्ण धार धार शस्त्र से जिह्वा को दो टुकड़े ही कर दिया जाय ॥४१३॥

न विषम् विषमोत्याहु ब्रह्मस्वं विषमुच्यते ।

विषमेकाकिनंहन्तिब्रह्मस्वंपुत्रपौत्रिकम् ॥४१४॥

विष विष नहीं कहलाता किन्तु ब्रह्मऋण ही विष है विषपान करने वाला स्वयं मरता है किन्तु ब्रह्म ऋणी अपने पुत्र पौत्रादिक का भी नाश करता है ॥४१४॥

मद्यप्यस्यकुतः सत्यंदयामांसाशिनः कुतः ।

कामिन्यश्चकुतोविद्यानिर्धनस्यकुतः सुखम् ॥४१५॥

मद्य पीने वालों में सत्य कहाँ मांसाहारी में दया कहाँ, कामी पुरुष में विद्या कहाँ और निर्धन को सुख कहाँ ॥४१५॥

दैवं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम् ।

समुद्रमथनान्त्वमेहेरिर्लक्ष्मीहरोविषम् ॥४१६॥

सदैव भाग्य ही फल देता है विद्या और पुरुषार्थ नहीं विष्णु और शंकर को समुद्र मन्थन करने से लक्ष्मी और विष प्राप्त हुआ था ॥४१६॥

सभावान मवेष्टव्यावक्तव्यं वासमं जराम् ।

अद्भुवन विद्भुवन चापिनरो भवतिक्लिचशः ॥४१७॥

सभा में जाना नहीं, अगर जाना तो मूठ बोलना नहीं, सत्य जानने पर असत्य बोलने से या मौन रहने से मनुष्य पाप का भागी होता है ॥४१७॥

पिपिलि कार्जितंधान्यं मत्तिका संचितमधु ।

लुब्धनेसंचितद्रव्यंसमूल चयिनश्यति ॥४१८॥

चींटी का प्राप्त किया हुआ अन्न, मत्तिकाओं का, संकय किया हुआ मधु, कृष्ण का धन, और अधिक ज्ञान नहीं ठहर सकता ॥४१८॥

अस्थिरं जीवितं लोके अस्थिरेधनयौवने ।

अस्थिर पुत्रदाराश्रधर्मकिञ्चिद्वियं स्थिरम् ॥४१९॥

इस लोक में जीवन, धन, यौवन, पुत्र, स्त्री आदि स्थिर नहीं केवल धर्म और कीर्ति ही स्थिर है ॥४१९॥

यथाहिग्रस्त मूढको भोक्तुमिच्छतिकीटकान् ।

तथा मृत्युदराश्लोकासुखमिच्छन्तीशाश्वतम् ॥४२०॥

सांप मेटक को निगलना हं, किन्तु मेटक मत्तिका मच्छर की इच्छा रखना है, इनी प्रकार मौन के मुख में फँसे हुए मनुष्य अनेक प्रकार की इच्छा का भोग करता रहता है ॥४२०॥

अविप्लुक्त प्रविष्टानां विहारो नैव विद्यते ॥४२१॥

जिसको काशा प्राप्त है उसको दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं ॥४२१॥

धर्माप्रयजिनस्वयः प्रचलितं सत्यं चद्रैगत

पृथ्वीमंदकशा नृपथहृदिता लीन्यं गतायासना ।

लोकास्त्रिपुरतास्त्रियश्चपला पुत्राःपितुर्द्वेषिणोः
साधुसीदतीदुर्जनप्रभवतिप्राप्तेकलौयुगे ॥४२२॥

धर्म का दूर होना, तप का नष्ट होना, सत्य दूर जाना
पृथ्वी का निरस होना, राजा का दण्ड देना, ब्राह्मण का लोभी
होना, लोगोंको रानी आसक्त होना. स्त्रियोंकी चपलता पुत्र पिताका
द्वेषी साधुका दुःखी होना, दुर्जन को सुख प्राप्त होना, यही कली
का प्रभाव है ॥४२२॥

कलौयुगे कलमपमानसानां नान्यत्रधर्मखलु निश्चयेन ।
रामेतिवर्णं द्वयमादरेणसदा पठन् मुक्तिमुपैतिजंतुः ॥४२३॥

कलयुग में मनुष्यों के चित्त पापयुक्त होने के कारण धर्मा-
चरण विधि पृथक नहीं होता, किन्तु मात्र 'राम' यह दो शब्द
प्रेम से निरन्तर स्मरण करने से मनुष्य का अन्तःकरण शुद्ध
होकर ज्ञान से मुक्ति पाता है ॥ ४२३॥

आशायापेदा सास्ते दामा सर्वलोकस्य ।

आपायेपांदासी तेषांदासायते लोकः ॥४२४॥

आशा के जो दास हैं, वह सबके दास होते हैं, किन्तु आशा
जिसकी दासी है उसके मत्र दाम होते हैं ॥ ४२४ ॥

मातरं पितरं पुत्रं भ्रातरं वा गृहत्तमम् ।

लोभाविष्टो नरो हन्ति स्वामिनं वासहोदरम् ॥४२५॥

लोभ युक्त मनुष्य माता, पिता, पुत्र, भाई, मित्र और स्वामी सबकी हत्या कर देता है ॥ ४२५ ॥

लोभाविष्टो नरो वित्तं वित्ततेन स चापदम् ।

दुग्धं पश्यति मार्जारो यथानलं गुडाहृतिम् ॥ ४२६ ॥

जिस प्रकार विल्ली दूध का देखती है किन्तु लाठी के मार को नहीं देखती इसी प्रकार लोभी पुरुष धन को ही देखता है दुःख को नहीं ॥ ४२६ ॥

वयोवृद्धा स्तपोवृद्धा ये च वृद्धा बहुश्रुताः ।

सर्वे ते धनवृद्धानां द्वारितिष्ठन्ति किंकराः ॥ ४२७ ॥

वयोवृद्ध, तपोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध सब धनपति के दास हो सकते हैं ॥ ४२७ ॥

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।

न हि सिंहे भ्यसृप्तस्य प्रविशन्ति मुखे गजाः ॥ ४२८ ॥

कार्य उद्यम से ही सिद्ध होता है केवल भावना ही से नहीं होता। जैसे सोये हुये सिंह के मुख में गज अपने आप प्रविष्ट नहीं होते ॥ ४२८ ॥

उद्योगिनः करालम्बं करोति कमलालया ।

अनुद्योगी करालम्बकरोति कमलाग्रजा ॥ ४२९ ॥

लक्ष्मी उद्योगी मनुष्य को ही प्राप्त होती है और आलसी केवल दरिद्रता का ही उपभोग करता है ॥ ४२९ ॥

नयत्नकांतिशतकौ रपिदुष्टसुधीर्भवेत् ।

किंमर्दितोऽपिकस्तुर्षां लशुनोयाति सौरभम् ॥४३०॥

लाख प्रयत्न करने पर भी दुर्जन सज्जन नहीं हो सकता जैसे लसुन, कस्तूरी के साथ रहने पर भी अपनी दुर्गन्ध नहीं छोड़ता ॥ ४३० ॥

नविनापरवादेनरमतेदुर्जुनोजनः काक सर्वरसान्मुक्ते
विनामेष्यं न तृप्यति ॥ ४३१ ॥

दुर्जन पुरुष. दूसरे की निन्दा में ही सुख प्राप्त करता है, जैसे कौआ सर्व पदार्थ खाते हुए भी विना विषा के तृप्त नहीं होता ॥ ४३१ ॥

गर्वंनोदूहतेननिन्दन्तिपरान्नोभापतेनिष्ठुरं

प्रोक्त केनचिदप्रियं च सहते क्रोधं चनालम्बते ।

भ्रत्वाकाव्यमलक्षणं परकृतं संतिष्ठते मूकव ।

दोषांश्लादयतेस्मयनकुरुतेद्वेषतस्स तांलक्षणं ॥४३२॥

अभिमानका, दुसरेकी निन्दाका, कठोर वचन बोलनेका अभाव और अप्रिय वचन सहन करने की शक्ति, क्रोधातुर न होना, दुसरे के धनाया दुआ दोष युक्त काव्यो से सन्तुष्ट होना, मौनो की तरह दुसरो के दोष को छुपाना और स्वयं दोष से धचना यह सब सन्त पुरुषो के लक्षण है ॥ ४३२ ॥

घृष्टं घृष्टं पुनरपिपुनश्चन्दनं चासुगन्धं
द्विन्नं द्विन्नं पुनरपिपुनः स्वादुचंचेत्तुकाण्डम् ।
दग्धं दग्धं पुनरपिपुनः काञ्चनं कान्तवर्णं
न प्राणान्तेप्रकृतिविकृतिर्जायतेचोत्तमानाम् ४३३

जैसे चंदन को जैसे २ घं सोंगे अधिक सुगन्ध देता है, गन्ने को कोल्हू में पीसने से उसमें से मीठा रस प्राप्त होता, स्वर्ण को तपाने से उसका रंग और तिलखर जाता है वैसे ही महापुरुषों की प्रकृति प्राणान्त तक बदलती नहीं है ॥४३३॥

गुणायन्तेदोषाः सुजनवदनेदुर्जनमुखे
गुणादोषायन्तेतदिदमपि नोविस्मयपदम् ।
महामेघःक्षारं पिबति कुरू तेषारिमधुरं
फणीक्षीरंपित्वावमतिगरलं दुःसहतरम् ॥ ४३४ ॥

सज्जन पुरुष के मुख से दोष भी गुण होता है और दुर्जन के मुख से गुण भी दोष होता है जैसे मेघ क्षार जल पीकर भी मीठा जल बरसाता है। और सर्प दूध पीकर भी जहर उत्पन्न करता है ॥४३४॥

यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरु जंघावज्जरादरतो ।
यावच्चंद्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयोनायुषः ॥

आत्मश्रेयसितावदेवविदुषा कायः ।

प्रयत्नो महान्संदिग्धे भवने प्रकृपस्वननं मृत्युद्यमः कीद्रशः

विद्वान् पुण्यों को, शरीर जब तक स्वस्थ है अर्थात् सब इन्द्रियां पूर्ण शक्तिमान है, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिये क्योंकि महान प्रयत्न करके गृह में अग्नि लग जाने से कुंवा खोदना इस तरह से मृत्यु आगया क्या होगा ।

परयोनिपतेत् विन्दुकोटिपूजाविनश्यति ।

जपहानितपहानि ब्रह्महत्या सुपदे पदे ॥ ४३६ ॥

पर खों के संसर्ग से जप तप की हानी, कोटिशः पूजा का नाश और कदम २ पर ब्रह्महत्या का पाप लगता है ॥४३६॥

मद्यांति प्रमदां द्रष्टुं सुरांपित्वानमायति ॥४३७॥

मद्यपान से जो नशा चढ़ता है उससे कहीं अधिक का वासना युक्त दृष्टि से खों को देखने से होता है ॥४३७॥

ननित्यं लभते दुःखं ननित्यं लभते सुखं ।

शरीरम वायतनं दुःखस्य च सुखस्य च ॥४३८॥

निरन्तर दुःख या सुख नहीं रहेंगे क्यों कि शरीर सुख और दुःख दोनों के रहने का स्थल है ॥४३८॥

रोहते सायके विधं चनं परंशु नाहतम् ॥

वाचादुरक्तया विधं नसंराहेना वाक्षतम् ॥४४०॥

शर का घाव अच्छा हो जा सकता है, कुल्हाड़ी से नष्ट किया
पवन फिर से हरा भरा हो सकता है। किन्तु बध्न रूपी घाण
ने घायल किया हुआ मनुष्य अच्छा नहीं हो सकता ॥ ४४० ॥

सद्योद्दातियश्चात्र सदैकाग्रमनानरः ।

नसद्गुगानवाप्नोती त्येवमाह पराशरः ॥ ४४१ ॥

जो मनुष्य एकाग्रता पूर्वक अन्न का दान देता है वह मनु-
ष्य कभी भी दुःखी नहीं होता यह पराशर मुनि का का कथन
है ॥४४१॥

स्त्रवन्ति न निवर्तंते स्रोतांसि सरितामिव ।

आयुरादायमर्त्यानां तथारात्र्यहनीपुनः ॥ ४४२ ॥

जैसे नदी के प्रवाह में बढ़ता हुआ पानी वापस नहीं लौटता
वैसे दिन रात व्यतीत होना मनुष्य की आयु वापस नहीं
लौटती ॥४४२॥

मानंहिस्वाप्तियोभूयात् क्रोधंहित्वा न शोचति ।

कामंहिस्वाथेवान् भूयात् लोभंहित्वा नुस्त्रीभयेन् ४४३

अभिमान का त्याग करने से कल्याण होता है क्रोध त्याग
करने में शोक का त्याग होता है। यादृशना का त्याग करने में
लक्ष्मी प्राप्त होती है और लोभ के त्याग से सुख प्राप्त होता
है ॥४४३॥

रूपमारोग्यमर्थेश्चिधर्माश्चैवानुशंगीकान् ।

देदातिध्यायतो नित्यमयवर्गप्रदोहरी ॥ ४४५ ॥

परमात्मा रूप, आरोग्यता, अर्थ, धर्म और लाभ जिमकी च्छा हो ध्यान करने से देता है, वही सेवा करने से मोक्ष भो जाता है ॥४४५॥

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जिवो ब्रह्मैवनापरः ।

इति यस्यद्रढाबुद्धिः समुक्तोनात्र संशयः ॥४४७॥

ब्रह्म सत्य और जगत् मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है—ऐसी जिसकी भावना है, वही मुक्त है इसमें संशय नहीं है ॥४४७॥

ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्व वाक्संयमो ।

ज्ञानस्योपशमः, श्रुतस्य विनयो, वित्तस्यपात्रेव्येषः ॥

अक्रोधस्तपसः, क्षमा प्रभवितुधर्मस्य निर्व्याजता ।

सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् ॥४४८॥

ऐश्वर्य का भूषण नम्रता है, शौर्य का वाक्प संयम, ज्ञान का भूषण संतोष है, सुजने का फल विनय, धर्म का सुपात्र में दान, तप का फल अक्रोध, शक्ति का क्षमा धर्म का सत्य इन सब में तो सबका कारण है परन्तु सबसे बड़ा फल (भूषण) शील है ॥ ४४८ ॥

नारायणो गणेशुद्रे म्बिकायां भास्करे तथा ।

भेदभावो न कतव्यः कृतश्चेत ब्रह्मवातीसः ॥४४९॥

नारायण, गण, रुद्र, अम्बिका तथा सूर्य में भेद भाव नहीं करना चाहिये, यदि करेगा तो वह ब्रह्म घाती होगा ॥४४९॥

हरिरूपी महादेवो लिंगरूपो जनार्दनः ।

ईशद्व्यन्तरं नास्ति भेदकं नरकं व्रजेत् ॥ ४५० ॥

हरी रूपी महादेव है लिंग रूपी जनार्दन है जो इसमें थोड़ा भेद मानता है वह नरक में जाता है ॥४५०॥

स्नेहमूलानि दुःखानि स्नेह जानि भयानि च ।

शोकहर्षो तथायासः स्नेहात् सर्वप्रमाणजे ॥४५१॥

दुःख का मूल स्नेह है, स्नेह से वृत्ति उपजती है, वह भयानक है, शोक हर्ष प्रयास यह सब स्नेह से ही पैदा होते हैं ॥४५१॥

ॐ वणंकीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं ।

अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यं चाप्यनिवेदनम् ॥४५२॥

श्री विष्णु का श्रवण, कीर्तन, अस्मरण, पारसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्यता, सख्य, आत्म निवेदन यह नौ प्रकार की भक्ति है ॥४५२॥

नालेनैवस्थित्यापादेनैकेन कुञ्चितद् ग्रीचं ।

जनयतिकुमुदभ्रांतो वृध्ययकोभालमत्साभाम् ॥४५३॥

कमल नाल की तरह एक पाद से गड़वा गर्दन संशुचित कर मतय इयषक के लिये यगला कमल भ्रान्ति कराता है ॥४५३॥

पश्य लक्ष्मणपंपायां वरुः परमधार्मिक ।

शनैर्मुच्यतिपादाग्रं प्राणीनां वधशंकया ॥ ४५४ ॥

हे लक्ष्मण पपा म वरु भा परम धार्मिक है जो अन्य प्राणियों के वध की शंका से पैर भी धीरे २ रस्ता है ॥४५४॥

सहवासी विजानाति सहवासी विशेषितम् ।

वकंकिंवर्यसेराम येनाहं निष्कूलिकृतः ॥ ४५५ ॥

हे राम ! सहबात वाला ही जान सकता है सहबासी ही पहचानता है । आप बगुले को क्या बड़ाई करते हैं उसने तो मेरा कुल ही नष्ट कर दिया ॥५५५॥

क्षमाशस्त्रकरेयस्यदुर्जनः किंकरिष्यति ।

अतृणेपतितो वन्हो स्वयमेवोपशाम्यति ॥ ४५६ ॥

जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र हो उसका दुर्जन क्या कर सकता है ? जैसे बिना फूस के उमर में पड़ी आग स्वयं शान्त हो जाती है ॥५५६॥

स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दन्ताकेशानखा नरा ।

इति संचित्यमतीमान संस्थानंनपरित्यजेत् ।४५७॥

दाँत, केश, नख और नर, यह स्थान—पतित शोभित नहीं होते । इसलिये बुद्धिमान् पुरुष को संस्थान नहीं छोड़ना चाहिये ॥५५७॥

कस्त्वं भद्र खलेश्वराहेमिति किं घोरेवने स्थोयताम् ।

शार्दुलाभिरेव हिंसपशुभिः खाद्योहमित्याशया ॥

कस्मात् कष्टमिदं त्वया व्यवसितं मदेह मांसाशिनः ।

प्रत्युपन्न नृमांस भक्षणधियः ते धनन्तु सर्वान्नरानरान्

हे भद्र तुम कौन हो ? दुष्टेश्वर । इस घोर वन में क्यों पड़े हो शालादि हिंसक पशु जिसमें मुझे खालें । आप इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं ? मेरे मांस से वह नृमांस के लोभी हो जायेंगे जिससे सब मनुष्यों को खा जायेंगे । अर्थात् दुष्ट पुरुष अपना यह सब हानि करके भी दुसरे की थोड़ी हानि चाहता है ॥५५८॥

मानुष्यं वरचंशजन्य विभवो दिर्घायुरारोग्यता ।

सन्मित्रं सुसुतः सतो प्रियतमा भक्तिश्च नारायणे ॥

विद्वत्त्वं सुज्जनत्वं मिन्द्रिय जयः सत्पात्रदानैरतिः ।

तेषुण्ये विना त्रयोदशगुणाः संसारी नाम दुर्लभाः ४५९

उत्तम वंश में जन्म, विभव, आयु, आरोग्यता अच्छे मित्र, सुपाल मंतान सतो स्त्री, भगवद्भक्ति, विद्वता, सुज्जनता, इन्द्रिय जय, सत्पात्र के दान में प्रीति यह १३ वस्तुएँ मनुष्य को विना पुण्य नहीं प्राप्त होती ॥४५९॥

अनुकूले विधौ देयं यतः पूरयता हरीः ।

प्रतिकूले विधौ देयं यतः सर्व हरिष्यति ॥४६०॥

' भाग्य की अनुकूलता में दान दो क्यों कि हरी पूरा करेंगे ।
प्रतिकूलता में भी दो क्यों कि वही सब हरण करेंगे ॥४६०॥

। चत्वारोधन वाहायधर्माग्नि नृप तस्कराः ।

तेषां ज्येष्ठा वृमानेन त्रयः कुपन्ति वांधवा ॥४६१॥

धर्म अग्नि राजा, चोर यह चारो धन का अप हरण करने
वाले हैं इनमें सर्व प्रधान धर्म का जो पालन करता है तो शेष
तीनों भाई कुपित हो जाते हैं ॥४६१॥

अभिगम्योत्तमदानं आहुतं मेवमध्यमं ।

अधमं याच्य मानंस्यात् सेव्यमानंतु निष्फलं ४६२

किसी घर जाकर दान देना उत्तम, बुलाकर देना मध्यम,
मांगने पर देना अधम, सेवा करा कर दान देना निष्फल होता
है ॥४६२॥

न्यायार्जितधनं चापि विधिवत् यत्प्रदोयते ।

अर्थिभ्यः अध्यायुक्तं तद्दानं इतिस्मृतं ॥४६३॥

न्याय पूर्वक अर्जित किया धन यदि विधिवत् दिया जाय तो
उसे सात्विक दान कहा है ॥४६३॥

गुशब्दस्य अधकार रूशब्दस्तत् तिरोधिक ।

अंधकारनिरोधिस्त्वात् गुरुरित्यभीधी धीयते ॥४६४॥

अन्धकार को 'नष्ट करने से ही गुरु को गुरु कहा गया
है ॥४६४॥

राज्येनहि सुखंदुखं संधी विग्रह चिंतया ।

पुत्रादपि भयं यत्र तत्र सौख्यंहिक्रीदशम् ॥४६५॥

राज्य में सुख नहीं अपितु सन्धि, विग्रह मान आदि की चिन्ता से दुःख ही है, भला जहां पुत्र से भी भय हो वहां सुख कैसा ॥४६५॥

अंभोधीस्थलतां स्थलंजलधितां धूलिलवः शैलतां ।

मेरुमृतकण्ठां तृणं कुलिशतां वज्रतृण प्रायतां ॥

अग्निशीतलताम् हिमंदहनताम् आयातियस्येच्छया
लीलादुर्ललिताद्भुत व्यसनीने कालायतस्मै नमः ४६६

जो सागर को मेरु, और मेरु को सागर, पर्वत को राई, राई को पर्वत, तृण को वज्र, वज्र को तृण, अग्नि में शीतलता, वरफ में जलन अर्थात् जैसे इच्छा हो वैसे कर दे ऐसी दुर्ललित लीला में संसक्त काल देव को नमस्कार है ॥४६६॥

अकृष्ट फलमूलानि वनवास रतः सदा ।

कुरुते रहहः आध्वऋषिविप्रउच्यते ॥४६७॥

बिना जोते बोये खेत के फल मूल खावे और वन में प्रीति करे उसे ब्राह्मण कहते हैं ॥४६७॥

एक हारेण संतुष्टः पट्कर्म निरतः सदा ।

ऋतुकालीमिगामो च सविप्रोद्विजउच्यते ॥४६८॥

एकादारी हो, सदा पदु कर्म में लगा हो, ऋतुकाल में ही स्त्री संसर्ग करे ऐसा ब्राह्मण ही द्विज कहलाता है ॥४६८॥

लौकिकेरतकर्माणिपशुनां परिपालकः ।

वाणिज्यंकृपि कर्माणिसुविप्रो वैश्यउच्यते ॥४६९॥

लौकिक कार्यों में संलग्न रहे, पशुपालन करता हो, वाणिज्य और कृपि कर्म को करने वाला ब्राह्मण वैश्य कहलाता है ॥४६९॥

लाक्षादि तैल नीलीनां कौस्तुभ मधु सर्पिपम् ।

विक्रियामांस मद्यानाम् सविप्र शूद्रउच्यते ॥४७०॥

लाग, तल, नील, कौस्तुंब, मधु, घो, मांस, मध का बेचने वाला ब्राह्मण शूद्र कहलाता है ॥४७०॥

परकाये विहंताश्चर्दाभिकं स्वार्थं साधकः ।

छल द्वेषो मृदुकुरोविप्रोमार्जार उच्यते ॥ ४७१ ॥

पर कार्य को नष्ट करने वाला, दांभिक, स्वार्थ साधक, छल और द्वेष करने वाला ब्राह्मण मार्जार कहलाता है ॥४७१॥

वासुदेवा र्च नं हत्वा दुष्टकर्माणि करोतोयः ।

कामधेनु' अतिक्रम्य अकक्षीरं सइच्छते ॥४७२॥

वासुदेव की पूजा को छोड़ कर जो दुष्ट कर्म करता है । कामधेनु दुग्ध को छोड़ कर घद आरु के दूध की इच्छा करता है ॥ ४७२ ॥

संप्राप्य भारतेजन्म सत्कर्मस्तु परान्मुखः ।

लब्ध्याजन्मामर प्रार्थ्यं श्रमीशां किमशोभते । ४७३ ।

भारतवर्ष में जन्म पाकर जिसने सत्कर्मों से मुंह मोड़ा, देवताओं से प्रार्थ्य उस देह की क्या शोभा है ? अतः सत्कर्म करो ॥ ४७३ ॥

सद्बुद्ध्या वदिकाचिंता वराकोदरपूरणे ।

शुकोप्यशनमाप्नोतिहरेराम इति ब्रुवन ॥ ४७४ ॥

यदि पास में सद्बुद्ध्या है तो विचारे पेट के भरने की क्या चिंता, क्योंकि तोता भी हरे राम ! कह कर मौज से पिंजरे में बैठा खाता है ॥ ४७४ ॥

अति दूरतां निजस्वरूपम्

गुरु शास्त्रान्न विचारयेत् यदि ।

निकटं गुरुशास्त्र वेदनात् प्रकटं

स्यात् स्वतनौ स्वयं हीतत् ॥ ४७५ ॥

गुरु वाक्य और शास्त्रों का यदि विचार नहीं करता तो स्वरूपता बहुत दूर है । और यदि इन दोनों पर विचार किया तो बहुत समीप है और वह अपने तनमें ही प्रकट हो जायगा ४७५

वधीरयति कर्णं पिवरं वाच

मूकयति नयन मंधयति ।

विकृतयति गात्र्यष्टि

संपत्त्रोगो यमद्भुतो राजन् ॥४७६॥

हे राजन् ! कान से बहरा, बाणी को बन्द एवं आंख से अंधा शरीर से असुन्दर करने वाला यह सम्पत्तिरूपी रोग है ॥४७६॥

एके सत्पुरुषाः परार्थं घटकाः

स्वार्थं परित्यज्यते ।

सामान्यस्तु परार्थं मुद्यम

भृतः स्वार्थाविरोधेनये ॥

ते मी मानुष राक्षसाः

परहितं निघ्नन्ती स्वार्थायये ।

येनिघ्नन्ती निरर्थकं

परहितंते के न जानी महे ॥ ४७७ ॥

एक तो वेद सत्पुरुष हैं जो अपना काम छोड़ कर दूसरे का कार्य सिद्ध करते हैं । दूसरे सत्पुरुष वह है जो अपने स्वार्थका नाश न होने देकर दूसरे का काम होने देते हैं, अपने स्वार्थ के लिये जो दूसरे का कार्य नष्ट कराते हैं यह राक्षस प्रकृति के पुरुष कहलाते हैं, और जो निरर्थक दूसरे का कार्य नष्ट करते हैं उन्हें क्या बहें वह भगवान् जानें ॥४७७॥

मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नैकशय्यासनोमवेत् ।

बलवान् इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमधि कर्षति ॥ ४७८ ॥

माता, बहिन और लड़की के संग भी एक खाट पर न बैठे, क्योंकि इंद्रिय बलवान् हैं वह विद्वान को भी खींच लेती हैं ॥ ४७८ ॥

अहो प्रकृति सादृश्यं श्लेष्मणे दुर्जनस्य च ।

मधुरेकोप मायान्ति कटुके नैव शाम्यति ॥ ४७९ ॥

आश्चर्य को घात है कि कफ की तरह दुर्जन की भी उल्टी प्रकृति है, मधुरता से बढ़ते हैं और कटुता से शान्त होते हैं ॥ ४७९ ॥

यो मज्जन्नि निमजयन्ति चपरान्सो ।

प्रस्तरादुस्तरे वार्धो वीरतरति वानर मटांसोतारयन्ते ॥

जो खुद डूबते तथा अन्य को डूबाते हैं वहाँ कठोर पत्थर राम प्रभाव से तैर कर वानर वीरों को उतारते हैं ॥ ४८० ॥

नजातु कामः कामाना उपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्ण वस्त्रेव भूयएवाभिवर्जते ॥ ४८१ ॥

काम के उपभोग से शान्ति नहीं होती जिस प्रकार हवन में विष्ण्यात्र देने से अग्नि शान्त होने की वजाय बढ़ती है ॥ ४८१ ॥

अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापह ।

क्षेत्र दारा यहन्तचिपडेतेआततायिन ॥ ४८२ ॥

आग लगाने वाला, विप देने वाला शस्त्र लेकर

मरने आने वाला, घन हरण करने वाला दारा को अपहरण करने वाला यह छ. आतताई हैं ॥४८२॥

आततायी न मायांतं हन्या देवा विचारयन् ।

नाततायी वधे दोषो हन्तुर्भवतिकश्चन ॥४८३॥

आततायी को आते देख कर बिना विचारे ही मार देना चाहिये, आततायी को मारने का तो कोई दोष नहीं होता ॥४८३॥

स्मृत्योविरोधेन्या यस्तु बलवान व्यवहरत ।

अर्थ शास्त्राच्य बलवत् धर्मशास्त्रमिति स्थिति ४८४

दो स्मृतियों में जहां विरोध दिखाइ दे वहां न्याय क आधार पर काम करना, न्याय में विरोध आवे तो लोक व्यवहार करे, व्यवहार में आवे तो अर्थ शास्त्र के अनुकूल करे अर्थ शास्त्र के विरोध में धर्म शास्त्र को माने ॥४८४॥

कुसङ्गा संग दोषेण साधुर्याति विक्रया ।

एकरात्रौ प्रसंगेन काष्ठ घंटा पिटंबना ॥४८५॥

कुसंग के संग दोष से सज्जन भी विकार को प्राप्त होते हैं, एक रात्रि के प्रसंग दोष से गऊ के गले में काठ का घंटा पड़ा हरिया गऊ भागे नहीं अतः घमके गले में लकड़ी लटका देते हैं ॥४८५॥

त्रिमासै पूर्यते कार्यं चित्रकोट्यैर्नपूर्यते ।

एवं संत्यपि राजेन्द्र लाभात् लोभ प्रचर्तते ॥४८६॥

नीन भाम के लिये द्रव्य दिया है, लेकिन तीन करोड़ नहीं दिया । हे राजेन्द्र लाभ होने से लोभ में प्रवृत्ति होती है ॥४८६॥

प्रशान्त चित्ताय जितेन्द्रियाय

दयार्द्धभावाय गुणान्विताय ।

लोकोपकारस्य धृतव्रताय ।

नमोऽस्तु नस्मै पुरुषोत्तमाय ॥४८७॥

प्रशान्त चित्त, जितेन्द्रिय, दयार्द्धभाव गुणी, लोकोपकार के लिये व्रत धारण करने वाले पुरुषोत्तम को नमस्कार है ॥४८७॥

मित्रद्रोही कृतघ्नश्च तथाविश्वास घातक ।

अपस्ते नरकं याति यावत् चन्द्रदिवाकरौ ॥४८८॥

मित्र द्रोही कृतघ्न तथा विश्वासघाती यह तीनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चन्द्र रहते हैं तब तक वहाँ यास रहता है ॥४८८॥

अहोदुर्जनं संसर्गात् मान हानौ पदे पदे ।

पायकालोह संगेन मुद्गरैरभिहन्यते ॥ ४८९ ॥

आश्चर्य है कि, दुर्जन के संसर्ग से पद पद पर मान हानि होती है लौह के संसर्ग से पायक भी दूधियों से पिटती है ॥४८९॥

गवाशनानांस शृणोति वाक्यम्

“ अहं हिराजन् विदुषां वचांसि ।

नचास्य दोषो न च मद्गुणोवा

संसर्ग जादोष गुणा भवन्ति ॥४६०॥

हे राजन् ! यह कसाइयों की बातें सुनता है और मैं ऋषियों की बातें सुनता हूँ, इस बोलने में न इसका दोष न मेरा गुण, संसर्ग से गुण दोष आते हैं ॥४६०॥

परैः प्रोक्ता गुणायस्य निगु णोपिगुणीभवेत् ।

इन्द्रोपिलघुतांघातिस्वयं प्रख्यापितै गुणैः ॥४६१॥

जिसका दूसरे वर्णन करते हैं वह निगुण भी गुणी ही जाता है । और अपने गुणों का स्वयं वर्णन करना से इन्द्र भी शुद्धता का प्राप्त होता है ॥४६१॥

अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरं ।

सदालोकहितासक्ता यथारत्नदीपोत्तमाः ॥४६२॥

जिस प्रकार उत्तम रत्नरूपी दिवा स्नेह पाल रथि दशान्तर को न देखता हुआ भी उजाला ही देता है ठीक उसी प्रकार साधु भी, स्नेहपाल आदि का ध्यान रखते हुये सर्वदा लोक कल्याण में लगा रहता है ॥ ४६२ ॥



तृतीय भाग ।

* वाण प्रस्थ-कपिल गीता *

५१ २१

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्माऽवस्थितः सदा ।

तमवज्ञायमानमर्त्यः कर्तुतेऽर्चाविडम्बनम् ॥ २१ ॥

सब जीव मात्र में भूतात्मा मैं सदा स्थित रहता हूँ। मेरी अवज्ञा करके जो पुरुष केवल मूर्ति पूजा करता है वह केवल विडम्बना मात्र है ॥ २१ ॥

यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् ।

हित्वा र्चां भजते मौढ्याद्भस्मन्येव जुहोतीसः ॥ २२ ॥

सबके शरीर में व्यापक ईश्वर को छोड़ कर जो पुरुष पूजा करता है वह मूर्खतावश राख में हवन करता है ॥ २२ ॥

द्विपतः परकाये मां मानो नोभिन्न दर्शिनः ।

भूतेषु बध्व वैरस्य न मनः शान्ति मृच्छति ॥ २३ ॥

सब प्राणियों का देह में विराजमान मुझ परमेश्वर से जो द्वेष करता है ऐसे उन प्राणियों का मन कभी शान्त नहीं होता ॥ २३ ॥



ज्ञान भण्डार

भाग ३

मनुस्मृति वानप्रस्थ प्रकरण

एवं ग्रहाश्रमेस्थित्वा विधि वत्स्नातको द्विज ।

वने वसेत् नियतो यथा वह्नितिन्द्रियः ॥ १ ॥

इस प्रकार स्नातक ब्राह्मण विधि पूर्वक घर में रह कर जि-
तेन्द्रिय हो वनवास ले ॥ १ ॥

ग्रहस्थ स्तयदापश्ये ह्वलिपलित मात्मनः ।

अपत्य स्यैव चापत्ये तदारण्यं श्रमा श्रयेत् ॥२॥

गृहस्थ जब सफेद बाल आते देखें तो पुत्र पीत्रादिकों को घर
बार सौंप श्रम में बले जाय ॥ २ ॥

संत्यज्य ग्राम्य महार सर्वं चैवपरिच्छदम् ।

पुत्रेषुभार्यां निक्षिप्य वनंगच्छे त्सैह्यवा ॥ ३ ॥

ग्राम्य को सर्व वस्तुओं का त्याग कर और स्त्री को
पुत्रों को सौंप वन को चले जाय अथवा उसे भी साथ ले जाय । ३ ॥

अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्नि परिच्छदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसे नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

अग्नि होत्र की सामग्री लेकर वन में चला जाय एवं नियम पूर्वक जितेन्द्रिय होकर वन को चले जाय ॥ ४ ॥

वसीतं चमंचिरंवासायं स्नात्वा त्रगेतथा ।

जटाश्चविभ्रूयानित्यंश्मश्रुलोमनखानिच ॥ ५ ॥

मृग चमं पहिरे अथवा शट पहिरे दोनों समय स्नान करें ।
जटा, नख, दाढ़ी, नखादि न कटावें ॥ ५ ॥

अग्नि नात्मनि वैतान्स मारोप्ययथाविधि ।

अनग्नि रनिकेतः स्यान्मुनि मूल फलाशनः ॥ ६ ॥

अग्नि का अपनी आत्मा में आरोप कर अग्नि से रहित हो
मुनि वेप घर फलाहार कर रहे ॥ ६ ॥

अप्रयन्तत सुखार्थिषु ब्रह्मचारी धराशयः ।

शरणेश्वमभयश्चैव वृक्षमूल निकेतनः ॥ ७ ॥

सुख के लिये प्रयत्न न करे ब्रह्मचारी रहे । पृथ्वी पर शयन
करे, ईश्वर शरण में जाकर निर्भय वृक्षमूल में रहे ॥ ७ ॥

तापसेध्वे विप्रेषु यात्रिकं भैद्य माहरेत् ।

ग्रहमेधिषु चान्येषु द्विजेषुवनवासिषु ॥

ग्रामादाहृत्यं वापिन्यात् दष्टोग्नास्तान्वने वसन् ।

प्रतिगृहेषुटे नैवपाशिनाशक तेनवा ॥ ८ ॥

वन में तपस्वी ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा ले आवे अन्य

वनवासो द्विजों के घर से तथा ग्राम से भिक्षा लाकर भी
ऽ प्रास करे ॥ ८ ॥

ए ताश्चान्यांश्चसेवेत वीभाविप्रोवनै वसन् ।

विधिधाश्रोपतिपदि रात्मसंसिध्ये श्रुति ॥ ९ ॥

यह तथा अन्य दीक्षा धारण कर मोक्ष के लिये पृथक् २
पनिपदों तथा श्रुतियों को पढ़े ॥ ९ ॥

वनेषु विहृत्येषु तृतीयं भाग मायुषः ।

चतुर्थं मायुषोभागं त्यक्त्वा संगान्परिव्रजेत् ॥१०॥

इस प्रकार आयु का तीसरा भाग धानप्रस्थ आश्रम में बिता
कर पीछे अग्नि होत्र और स्त्री को छोड़ कर संन्यास धारण
करे ॥ १० ॥

अधित्य विधिवद्देदान् पुत्रांश्चो त्पाद्य धर्मतः ।

ऋणानि त्रिणपा कृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् ॥११॥

विधिवत् वेदाध्ययन कर, धर्म पूर्वक पुत्रादि उत्पन्न कर, देव
हृषि और पितृ ऋण से मुक्त हो मोक्ष की अभिलाषा करे ॥११॥

इष्टाचशक्तितोयज्ञै र्मनोमोक्षेनिवेशयेत् ।

अनताकृतमोक्षंत सेवमान ब्रजत्यधः ॥ १२ ॥

यथा शक्ति यज्ञ करके ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करे
अन्यथा नरकगामी होता है ॥ १२ ॥

वक्तं चान्नं समश्नया दिवा वाहृत्य शक्तितः ।

चतुर्थकालकावो स्यात् स्यादप्यष्टकालकाः ॥१३॥

संन्यासि रात्रि या दिन में यथा शक्ति भोजन करे चतुर्थ प्रहर में या पष्टम प्रहर में ॥ १३ ॥

एदभक्ष्यं स्यात्तदा देयात् वलिभिन्ना चिशक्तितः ।

अमूलफलमित्र भिर रर्चियद् आश्रमागतात् ॥१४॥

जो स्वयं भोजन करे अथवा मूल फल कन्द आदि से आश्रम पर आये हुये आनिधि का सत्कार अवश्य करे ॥ १४ ॥

आश्रमांद श्रमंगत्वाद्दत्त होमोजितेन्द्रियः ।

भिन्नावली परिश्रांतः प्रव्रजम् प्रेत्य वर्धते ॥१५॥

जब होम, भिन्ना वलि आदि से परिश्रान्त हो जाय तो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाकर शान्ति लाभ करे ॥ १५ ॥

॥ इति वान प्रस्थाश्रम ॥

अभ्यासने वेमानाम् आचारस्य च वर्जनात् ।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युविप्रांजिघांसति ॥१६॥

वेदों के न पढ़ने से आचार त्याग तथा आलस्य और अन्य दोष से मृत्यु बाह्यण का नाश करता है ॥ १६ ॥

वेदस्मृर्तिसदाचारः स्यस्य च प्रियमात्मनः ।

एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम् ॥१७॥

युद्ध मे हिंसा का दोष नहीं ॥ १७ ॥

एतद्दैनन्तरंगार्गिब्राह्मणा अभिवदति ।

अस्थूलमनष्व ह्रस्व मदीध मलाहि मस्नहे ॥१८॥

वेद, स्मृति, सदाचार और स्वात्म प्रिय कर्म यह धर्म के साक्षात् चार लक्षण हैं ॥ १८ ॥

यच्छाय मनसोवाय्व नाकाश मसंग परसेमगंध ।

मचक्षुमश्रोत्र मवगमनोऽतेजस्जकमप्राणप्रमुखममात्रं

स्तएववा अक्षरस्य प्रशासनेगार्गियावा पृथिव्योविधृत ॥१९॥

हे गार्गि ! ब्राह्मण जिसकी पूजा करता है वह अविनाशी ब्रह्म है । वह न ह्रस्व न अणु न दीर्घ लोहित, अस्नेह, अगंध, अत्रक्षु, बिना माता, वाणी, तेज, मन आदि से रहित प्राण प्रमुख मात्र है ॥ १९ ॥

पुंखानुंपुंखविपये अणतत्परोऽपि-

ब्रह्माव लोक नधियंनजहातिपोगी ।

संगीत नृत्यलवसंगताऽपि मौलीस्थकुंम

परिक्षण घीन टीवकारः ॥२०॥

हे गार्गि ! इसी अविनाशी पुरुष के शामन से स्वर्ग और पृथ्वी स्थित है ॥ २० ॥

यस्तुचिज्ञानवानभवतिसर्जनस्कः सदाशुचि ।

सत्तुतत्पदमामोति यस्मात् भूयो न जायते ॥२१॥

सांसारिक घट्टिह विषय भोगों को देखते हुये भी योगी ब्रह्म भाव का त्याग नहीं करता, जैसे संगीत, ताल, नृत्य लय का ध्यान रखते हुये भी नाचने वाली शिर के घड़े की रक्षा का ध्यान रखती है ॥ २१ ॥

शान्तोदान्त मुपरत स्तितित्तुः समहितो ।

भूत्वाआत्मन्यवोत्मानं पश्यति ॥ २२ ॥

जो ज्ञानवान शुद्ध चित्त तथा स्ववशेन्द्रिय है वह उस पद को प्राप्त करता है जहां से फिर पैदा नहीं होता ॥ २२ ॥

संसारिक सुखसक्तं ब्रह्मज्ञस्मितिवादिनम् ।

कर्मब्रह्मोभयभ्रष्टं नत्मजदेन्यजंयया ॥२३॥

शान्त, कान्त और तितित्तु। आरत से युक्त पुरुष आत्मा में ही परमात्मा को देखता है ॥ २३ ॥

सत्यंज्ञान मनन्तब्रह्मयोवेदंतिहितंगुहायां परमेव्यो ।

मननूसोश्रु ते सर्वात्कामानुसहब्रह्मणा विपश्चिता ॥२४॥

सांसारिक सुखों में आसक्त 'मैं ब्रह्मज्ञ हूँ' ऐसा कहने वाले स्वयं भ्रष्ट का त्याग दें ॥ २४ ॥

सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूयगुवाशयः ।

सर्वकोपिसमभगवान तस्मात्सर्वतः शिवा ॥२५॥

जो सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप और अनन्त स्वरूप ब्रह्म को अपनी आत्मा के परमाकाश में देखता है वह ब्रह्माकार होकर सर्व सुख भोग करता है ॥ २५ ॥

नैनमूर्ध्वं नतिर्यश्च नमध्येपरिजग्रमत् ।

नतस्यप्रतिमाअस्तियस्यनाममहद्यशः ॥२६॥

उसका मूल शिर और ग्रीवां सर्वात्र है, सर्व प्राणियों की आत्मा में उसकी जगह है। वह सर्वा व्यापक होने से सर्वात्र पहुंचना है और वह मंगलगम्य है ॥ २६ ॥

वस्तुविज्ञानवानभवतियुक्तैनयनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणिसवयानिसदस्वाइव सारथे ॥२७॥

उसे ऊपर नीचे टेढ़े से कोई पकड़ नहीं सकता इसलिये उसकी प्रतिमा नहीं और उसका नाप यह अंश है ॥ २७ ॥

अमृतं चैव अगत्यश्च द्वयंदेहेप्रतिष्ठितम् ।

मृत्युरापपद्यते मोहात्तुसत्येनापद्यतमृतम् ॥२८॥

जो ज्ञानवान अपने मन को वश में रखता है वह मर्था की तरह अपनी इन्द्रो रूपी घोड़ों को अपने कब्जे में रखता है ॥२८॥

पठन्तुशास्त्राणिय जन्तुदेवान्कुर्वन्तुकर्माणि भजन्तुदेवताः॥

आत्मैकवांधेनविनापिमुक्तिर्नसिद्ध्यतिब्रह्मशतान्तरेऽपि॥२९॥

शास्त्र पढ़ो, यज्ञ करो, शुभकर्म करो; देवताओं की सेवा करो, परन्तु आत्मवांध विना सैकड़ों युग में भी मुक्ति न मिलेगी ॥ २९ ॥

ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवोब्रह्मैवेवनापरः ।

इतिपस्यदृष्ट्वा बुद्धिसमुक्तोनात्र संशयः ॥३०॥

ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है जीव ब्रह्म के भिन्न नहीं है।
ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है वह मुक्त ही है इसमें संशय
नहीं ॥ ३० ॥

कुशला ब्रह्मवार्त्तायाम् वृत्ति हीनाः सुरागिणः ।

फलौ वदोन्तिनीर्भातिं फालगुने बालकाइव ॥ ३१ ॥

ब्रह्म वार्ता में कुशल वृत्ति हीन रागी ऐसे अनेक वेदान्ती
कलियुग में है जैसे पत्र गण में बालक कहते हैं ॥ ३१ ॥

आत्मा प्रकाशकः स्वेच्छो देहस्तामसमुच्यते ।

तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किम ज्ञानं प्रपश्यते ॥ ३२ ॥

आत्मा स्वेच्छ प्रकाश स्वरूप है और शरीर तामस है उनका
अभेद रूप से देखने वाला क्या अज्ञान नहीं देखता अपितु यह
अज्ञानी ही है ॥ ३२ ॥

नमोक्षो नभस पृष्ठेनपाताल भूतले ।

अज्ञान हृदय ग्रंथी बाशो मान्दइति स्मृतः ॥ ३३ ॥

आकाश, पाताल या पृथ्वी म नहीं है अपितु हृदय से अज्ञान का नाश हाना ही मोक्ष है ॥ ३३ ॥

मृदांभार सहस्रेषु कोटिकुंभ जलेस्तया ।

कृत शौच अशुद्ध्यात्मा स चांडाल इति स्मृतः ॥ ३४ ॥

हजारों भार मिट्टी तथा करोड़ों घड़े जल से से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध मन वाला चाण्डाल के तुल्य है ॥३४॥

यथा पूर्वं माया परिकलितं वृष्टिं निज सुखं ।

स्वयं भातं अपि न परिपश्यति सहजम् ॥

तथेदानीज्ञानां जन विमल चक्षुर्जगदिदं ।

चिदा कांशेपश्यन्नपि न परिपश्यामिपितया ॥३५॥

जिस प्रकार पूर्व माया के प्रभाव से आत्म सुख प्राप्त नहीं होता लेकिन जब उसने ज्ञानाञ्जन आज्ञा और चिदा काश को देखा तो अज्ञान नष्ट हुआ ॥३५॥

अंतस्थ तिमिर नाशायशब्द बोध निरर्थकम् ॥ ३६ ॥

अन्तस्थ अन्वकार के नाश के लिये शब्द बाध निरर्थक है ॥ ३६ ॥

अमुज्य संसार नरोरबोध मूलस्य नोन्मूल विनाशनाय ।
विश्वेश्वराराधन धीजजाता तत्त्वाय धोधाइनपरोभ्युपाय ॥३७॥

इम संसार रूपी वृक्ष का नष्ट करने के लियं विश्वेश्वर के
आराधन के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं ॥३७॥

स्नानं तेन समस्त तीथ सलिले सर्वापिदत्तावनी ।
यज्ञानां च सहस्रविष्टमखिला देवाश्च संपूजिता ॥
संसाराच्च समुध्रना स्वपितर स्त्रैलोक्यपूज्योप्सर्सा ।
यस्य ब्रह्मविचारणेक्षण मपिस्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् ॥३८॥

उसने सर्व तीर्थों में स्नान कर लिया. सम्पूर्णा पृथ्वी दान
में देदी, हजारों यज्ञ कर लिये समस्त देव पूजन कर लिया.
संसार सागर में अपने पिताओं का उद्धार कर लिया. वह त्रैलो-
क्य पूज्य हो गया जिसका मन एक जग भो ब्रह्म में विचार स्थिर
हो गया ॥३८॥

सम्यग्दर्शन संपन्नं कर्मभिर्न निबध्यते ।
दर्शनेन विद्यो नस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ३९ ॥

जिसने अच्छी प्रकार दर्शन कर लिया वह कर्म बन्धन
में नहीं फँसता जो दर्शन विहीन है वह संसार बन्धन में पड़ने
दे ॥ ३९ ॥

तंदुर्दश गूढ मनु प्रविष्टं गुहाद्दिनं गन्धरेष्टं-पुराणं ।

अध्यात्म योगाधि गमेनदेव मत्वाधीरो हर्ष शोकं जहाति ॥४०॥

जिसका दर्शन दुर्धर और अप्रत्यक्ष है, वह गुहा में स्थित आच्छादित है । उसका अध्यात्म तत्व से प्रत्यक्ष होता है. उस देव को जान कर धीर पुरुष हर्ष शोक को तज देता है ॥४०॥

पठका पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्रचितका ।

सर्वोव्यसनीनोमूढाः यः क्रियावान् सपंडितः ॥ ४१ ॥

पढ़ने वाला पाठ करने वाला तथा अन्य भी शास्त्र चितक मय कव्यसती और मूढ़ हैं लेकिन जो क्रियावान् हैं वही पण्डित है ॥ ४१ ॥

सांग श्रुतौ पुराणकंडो वेदान्त तर्क अपियोग मिमांसा ।

ज्ञातास्मते निखिल संशया शैलवज्र !

स्वात्माव बोध विफलोपाकदर्षि ॥ ४२ ॥

सम्पूर्ण पुराण वेद कंडो पुराण, न्याय मिमांसा आदि मयको जानने वाला यदि आत्मज्ञ नहीं तो कठन्त्री के सदृश निष्फल है ॥४२॥

सुचितितं औषधमातुराणां न नाम मात्रेण करोत्यरोगम् ॥४३॥

उत्तम औषध भी रोगी का नाम जप से ही निरोग नहीं करता ॥४३॥

अविदित परमानन्दो वदति जनी विपमेव रमणीयं ।
तिल तैल मेव शृष्टं घेननं दृष्टं घृतं क्वापि ॥ ४४ ॥

जिसने परमानन्द को नहीं जाना वह विषयों में रमण करता है क्यों कि जिसने घृत नहीं देखा वह तेल की ही प्रशंसा करता है ॥४४॥

मीन स्नानरताः फणीयवनभुक् मेपस्तु पर्णाशजाः ।
नीराशः खलुपाचका प्रति दिनं शेते विले मूपका ॥
भस्मोन्धुल न तत्परो ननुखरोध्या नार्थिरुदः वकः ।
सर्वे तेन प्रयांति मोक्ष पदवीं भक्ति प्रधानं तपः ॥ ४५ ॥

मीन निरन्तर स्नान में रहता है, सर्प हवा तथा मंदा पत्ते खाता है । पाचक प्रतिदिन निराश हाता है. चूड़ा विल में सोता है, खर सर्वदा भस्म (धूल) में मस्त रहता है वक्र सर्वदा ध्यान में तात्पर रहता है फिर भी मुक्त नहीं हांता इमलिये भक्ति प्रधान तप ही मोक्ष का कारण है ॥४५॥

अत्यन्त मलीनो देह देहो चात्यन्त निर्मलः ।
उभयोर्नन्तरं प्रात्वा कस्यशौच विधियते ॥ ४६ ॥

देह अत्यन्त मलिन है देही अत्यन्त निर्मल है दोनों का अन्तर जान कर कहा किसका शौच करना चाहिये ॥४६॥

मुक्तिमिच्छसि चेतात्त विषयान विषवत्यज ।

क्षमार्जवदयातोष सत्य पीयुष वह्मजः ॥ ४७ ॥

हे भाई यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह त्याग करो, तथा क्षमा, आर्जव, और सन्तोष का अमृत की तरह सेवन करो ॥४७॥

ज्ञानामृतेनतृप्तस्य कृतकृत्यस्ययोगिनः ।

नैवास्ति किंचित्कर्तव्यमस्तिचेन्न स तत्त्ववित् ॥ ४८ ॥

ज्ञानामृत से तृप्त कृतकृत्य योगी का कुछ कर्तव्य नहीं क्यों कि वह तत्त्ववित् है ॥४८॥

नि सकल्पो यथाप्राप्त व्यवहार परोभव ।

क्षये सकल्प जालस्य जीवो ब्रह्मत्वमाप्नुयात् ॥ ४९ ॥

निसंकल्प होकर जो स्वयं ये प्राप्त भोगों को भोगे जाल के क्षीण होने से वह जीव संकल्प ब्रह्म ही जाता है ॥४९॥

यदा नाहं तदा मोक्षोपदाह बधनं तदा ॥ ५० ॥

जहां तक मैं हूँ वहां तक बन्धन है जहां मैं नहीं वहां मोक्ष है ॥५०॥

न मोक्षो नत्रसः पृष्ठेषाताले चान्यभूतले ।

संसयस्यक्षये चित्तक्षयो मोक्ष इतिस्मृत ॥ ५१ ॥

मोक्ष आकाश पाताल या पृथ्वी पर नहीं अपितु चित्तका संयश क्षीण होना ही मोक्ष है ॥५१॥

सानुं रागां स्त्रियं द्रष्ट्वा मृन्धु वा समुपस्थितं ।

अविहलमनोः स्वस्यो मुक्त एव महाशयः ॥ ५२ ॥

स्त्री अथवा काल को देख कर जिमका मन चलाय मान नहीं होता वह ज्ञानी गुमुक्षु है अर्थान् वह सर्वत्र एकाकार दृष्टि रखता है ॥५२॥

परिमहेप् वैराग्यं प्राया मूढस्य दृश्यते ।

देहे विगलिसांशस्य क्वरागः क्वविरागताः ॥ ५३ ॥

प्राय गूढ़ पुष्टों को परिमह में वैराग्य दिखायी देता है । शरीरादि "स्व" में नहीं, लेकिन जिसका देहाध्यास नष्ट हो गया उसके लिये क्या त्याग और क्या विरागता सर्वत्र तदाकार देखना है ॥ ५३ ॥

नाभि नन्दति मरणं नाभिनन्दति जीर्णतम् ।

कलमेव प्रतिक्षेत् निर्दर्शमृतकोवे ॥ ५४ ॥

न मरने की इच्छा करे न जीने की काल का अवलोकन करता रहे कि किम समय क्या होता है ॥५४॥

अधमा प्रतिमा पूजा जयहोमाश्च मध्यम ।

धत्तमा मानसी पूजा सोऽहं पूजा महान्मानाम् ॥५५॥

मानसी पूजा उत्तम है, और महात्माआ की पूजा तो सोडह है ॥ ५५ ॥

देहोदेवालयो प्रोक्ता जीवोदेवसदा शिवः ।

त्यजेत् अज्ञान निर्मालयम् सोह भावेन पूजयेत् ॥५६॥

देह का देवालय और जीवका सदाशिव देव कहा है । अज्ञान निर्माल्य को छोड़ सोऽहं भाव से उसे पूजना चाहिये ॥५६॥

अभेद दर्शनं ज्ञान ध्यान निर्विशयं मन ।

स्नान मनामल त्याग शौच इन्द्रिय निग्रह ॥ ५७ ॥

अभेद दर्शन ही ज्ञान है, मन का निर्विषय होना ही ध्यान है मन का मैल त्याग स्नान और इन्द्रिय निग्रह ही शौच है ॥५७॥

ब्रह्मानन्द पिवेत भेद्यं आहारे देह रक्षणे ।

इत्येवमाचरेत् विद्वान् न एव मुक्ति माप्नुयात् ॥५८॥

ब्रह्मानन्द का पान और भक्षण करे एका देह रक्षण के लिये आहार करे, बुद्धिमान व्यक्ति इतना ही करे तो मुक्ति प्राप्त हो ॥ ५८ ॥

ना पुत्राया शिष्याचै पुन ।

योवाए तदक्षरं गार्ग्य विदित्वा'

स्मात्सलोक्तान्प्रेति सकृपणः ॥ ५९ ॥

शिष्य यदि भाव रहित हो तो उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश न दे हे गार्जि ! जो इस लोक से आत्मा को बिना जाने जाता है वह कृण है ॥ ५९ ॥

तरति शोक आत्मवित् ॥६०॥

आत्मज्ञ पुरुष ही शोक से परे है ॥६०॥

निरोग उपविष्टोवा रुग्णो वा विलुठन्भुवि ॥

मूर्धितोवा स्यजस्येप ।

प्राणान्भान्ति न सर्वथा ॥६१॥

ब्रह्मवेत्ता निरोग हो अथवा रोग युक्त हो भूमि पर पड़ा हो अथवा मूर्धित हो प्राणों का त्याग कर दे तो भी वह मूर्ख वेत्ता ही वहां अविधा नहीं चमकता ॥६१॥

यावत्त्रैव प्रविचरति चरत् मारुतोमध्यमार्गं ।

यावत् बिन्दुनं भवति दृढ प्राणवतः प्रघंधात् ॥

यावध्याते सहज सदसं जायतेनैव तत्त्वम् ।

तावत् ज्ञानं वदति तदिदं दंभ मिथ्याप्रलापः ॥६२॥

जब तक चलता वायु मध्य मार्ग (सुषुप्ता) में प्रवेश नहीं करता, तब तक बिन्दु प्राण वायु ब्रह्म रंघ में स्थिर नहीं होता । जबतक ध्यान में प्रकाशमय तत्त्व प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक यदि ज्ञान प्राप्ति कही जाती है तो वह प्रलाप मात्र है ॥६२॥

द्रव्यत्यागे तु कर्माणि भोगत्यागे व्रतान्यपि ।

सुख त्यागे तपो योगी सर्व त्यागी समापना ॥६३॥

द्रव्य त्यागने पर कर्म भाग त्यागने में व्रत, सर्व प्रकार का सुख त्याग ने से तप और तब योग प्राप्ति हाती है ॥६३॥

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाश्रुतेन ।

त्यागे नेकेनामृतत्व मानशु प्राप्त (कटोपनिषद्) ॥६४॥

यह आत्मा वाला मेधा या बहु श्रुत लभ्य नहीं यह ता भिर्फ एक त्याग से ही प्राप्त होती है ॥६४॥

यो वैभूमानत्सुखम् नाल्पे सुखमस्ति ॥६५॥

ब्रह्म दशा में ही सुख है अल्प में नहीं ॥६५॥

अविज्ञा तमविजानतां विज्ञातमयिजानतां ॥६६॥

जो कुछ नहीं जानता वह उसे जानता है जो सब कुछ जानता है व उस नहीं जानता ॥६६॥

तस्ये तपोदंम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः ।

सर्वाङ्गा निसत्यमायतनं ॥ ६७ ॥

उसकी तप, दम, कर्म ये प्रतिष्ठा है वेदों के सर्वांग और मध्य उसने घर हैं ॥६७॥

यद् हरये विरजेत्तद् हरेव प्रव्रजेत् ॥६८॥

जिप्त दिन पक्का वैराग्य हो । उसी दिन गृह त्याग कर दे ॥६८॥

इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ती ।

न चे दिहा वेदोन्महति चिनष्टि ॥ ६९ ॥

यदि इस शरीर में ब्रह्मप्राप्ति हुई तो ठीक नहीं तो अमूल्य रत्न खोया समझो ॥६९॥

असतो माद्सग मय तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मृत्योर्मा अमृतं गमय (श्रुति) ॥ ७० ॥

अमत्य मेंसे सत्य प्राप्त कर, अन्धकार त्याग प्रकाश में आओ मृत्यु से अमृत प्राप्त कर ॥७०॥

पूर्वं निरतरंभ्यस्त ब्रह्मै वास्मिन्निवासना ।

हरत्य चिद्या विक्षेपान् रोगानिव रसायनम् ७१

अहं ब्रह्मास्मि' इम निरन्तर-अभ्यास रूपी वामना रसायन मे मर्त्य भाव रोगों को नष्ट होजा हैते ॥७१॥

देहात्म बुद्धिजं पापं न तद् गोवध कोटिभिः

आत्माहं बुद्धिजं पुण्यं न भतो न भविष्यति ॥७२॥

मैं देह हूं ऐसी बुद्धि करना करोड़ों गो वध के पाप के समान है । मैं आत्मा हूं ऐसी बुद्धि के समान और कोई पुण्य नहीं ॥७२॥

अमन्य मान. क्षत्रिय कश्चिदन्य ।

नाधोयतेनाण इवास्य व्याधः ॥

क्रोधाल्लोभान्मोह भयान्तरात्मा ।

सर्वै मृत्युस्त्यच्छरीरे यएषा ॥ ७३ ॥

कोई अविवेकी परमात्मा सम्बन्धी अध्यात्म शास्त्र को नहीं जानता और पढे हुए वेद को जानता तो उसे देहाध्याम निरर्थक है। क्रोध लोभ मोह यह तुम्हारे शरीर में मृत्यु है ॥७३॥

अस मानारापो संमानात्तप क्षयः ।

अर्चित पूजिनो विप्रोद्गुग्धा गौरीवसोदति ॥ ७४ ॥

सम्मान से तप वृद्धि और सम्मान से तप क्षय होता है, इसलिये अर्चन पूजन को जो राग पूर्वक प्रदण करता है वह पुरुष सम्पूर्ण दुही हुई गउ की तरह दुःखी होता है ॥७४॥

भोगेनत्वित्ररेक्षयित्वा संपद्यते ॥ ७५ ॥

भोग के पाप पुण्य का क्षय करके परमात्म स्वरूप में अनेक प्राप्त होता है ॥७५॥

सन्यांसितौ किकशो पूत्रया सैपहि ।

स्वसिद्धे ह्युप वर्हणेः किं ॥

सस्यं जलौ किं पुरुधा ज्ञया ।

ग्यादिक् वल् कलादै सति किंदुकुलै ॥ ७६ ॥

जमोत्त रूपी खाट रहने से खाट की क्या जरूरत । हाथ रूप तकिया रहने से तकिया की क्या जरूरत, हाथ रूपी पात्र रहने से जलपात्र की क्या जरूरत वल्कल रूपी वस्त्र रहने से वस्त्र की क्या अपेक्षा करना ॥७६॥

चिराणि किं पथिनं सन्ति दिशन्ति ।

भिक्षां नैवां धृपापर भृतः सरिताप्यशुष्यन् ॥

रुद्धां गुह्यकिमजितऽवतिनोप सन्नान ।

कस्मात् भजन्ति कवभोधन दुर्मदान्थान् ॥७७॥

क्या रास्ते में पड़ेकटे पुराने कपड़े नहीं ? क्या वृक्षां ने भिक्षा देना छोड़ दी । क्या नदियों में अमृत रूपी जल सूख गया है क्या गुफाएँ बन्द हो गई फिर यति धनाढ्य व्यक्तियों की सेवा क्यों करते हैं ॥७७॥

कर्मणा तेन तेनैषा विस्तारं मनुगच्छति ।

दोषा विष वेगस्य यत् क्षोर विस्तरायते ॥७८॥

लक्ष्मी दैविक कर्म यज्ञादि से नहीं बढ़ती, अपितु धूत चारो आदि दोषों से लक्ष्मी विस्तृत होती है अर्थात् लक्ष्मी पाप कराती है ॥ ७८ ॥

एतयै न मात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा ।

पुत्रेपणा याश्चयित्तंपण याश्च लोकेपणा ॥

याश्चव्युत्थायार्थो भिक्षाचर्यं चर्यं चरति ॥ ७९ ॥

इस आत्मा को जानकर विद्वान, पुत्र, धन, लोभ की इच्छा से
उत्थान पाकर भिक्षा वृत्ति में रहते हैं ॥ ७९ ॥

विरस्ता तिशया नंदं वैष्णव परमं पदं ।

पुनरा वृत्ति रहितं कैवल्यं प्रति पद्यते ॥ ८० ॥

निरति शया नंद वैष्णव पदको प्राप्त कर पुनरावृत्ति रहित
कैवल्यधाम को प्राप्त करता है ॥ ८० ॥

कृष्यं तमं प्रतिकृष्येदा कृष्टः कुशलं वदेत् ।

अतिवादां स्तितिक्षेत तु यमन्येत कंचन ॥ ८१ ॥

कोई क्रोध करे तो उसकी साथ क्रोध नहीं करे, कोई निन्दा
करे तो उससे कहो तुम्हारा कुशल हो, अ यन्त बोले तो क्षमा
एवं किसी का उपकार नहीं करना ॥ ८१ ॥

वन्नसन्ते न चासन्तं ना श्रुतं नायहु ।

श्रुत नसुकृत नद्वुर्वृत्तां वदेकेश्चित्सवैयति ॥ ८२ ॥

जिसको न सदाचारी न दुराचारी न अधम न उत्तम कुछ भी
नहीं गिनाता ॥ ८२ ॥

नमेवैकं जानथ आत्मा म मन्या वाचो विमुच्छथ ।

नानुध्यायंद् बहुशब्दात् वाचोवि विग्लाप हितम् ८३

जा आत्मा को जानता है और कुछ वाण्य स नहीं कहता

क्योंकि वाजी काम रूत है। इसी लिये वह अपना सिद्धान्त
श्रीरों के आगे नहीं रखता ॥ ८३ ॥

आत्मानं चेद्विजानी यादयमस्मिति पुरुषः ।

किमिच्छन् कस्य कामापशरीरमनुं संज्वरेत् ॥८४

मैं 'आत्मा हूँ' इस प्रकार जो आत्मा को जानता है
वह और न किसी को इच्छा करता और न किसी की कामना में
शरीर को सुखाता है ॥ ८४ ॥

अंतः शीतलतायातु लब्धायां शीतलं जगत् ।


अंतस्तृष्णो पतप्तानां दाव दाह मिदं जगत् ॥८५

आन्तरिक शीतलता जिसने प्राप्त करली उसके लिये समार
शान्त है, जिसके अन्तःकरण में तृष्णा है उसके लिये संसार
भी तप्त है ॥ ८५ ॥

दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः ।

यस्तिष्ठति सतु ब्रह्मन् ब्रह्मेव ब्रह्मं चित् स्वयम् ॥८६॥

दर्शन तथा अदर्शनका त्याग करके जो अद्वैत वादी रहता है
वह पुरुष स्वयं ब्रह्म है ॥ ८६ ॥



सन्यास दशा

शीतनि वाणोर्थ

कौपिन युगलं वासः कथा शीत निवारिणिं पादुके।
चापि गृहणी यात् कुर्यान्नन्यस्य संग्रहम् ॥ १ ॥

दो कौपीन एक आच्छादन वस्त्र तथा एक खड़ाऊं के अतिरिक्त और कुछ संग्रह न करे ॥ १ ॥

दडान्म्रनोस्तु संयोग सर्व दैव विधीयते ।

न दंडेन विना गच्छेदिषु क्षेपत्रयं बुद्ध ॥ २ ॥

दंडमे सर्वदा शरीर का सम्बन्ध रखना दण्ड के बिना बुद्धि मत्त् तोन डग भी न जाय ॥ २ ॥

दड त्यागे शतं चरेत् ॥ ३ ॥

दंड त्याग करने पर शतं प्राणायाम करे ॥ ३ ॥

न शीतं नचोपजं न दुःखं न सुखं न माना ।

वमानेच पडर्मि चर्जत् ॥ ४ ॥

शीत, उष्ण, दुःख, सुख, मान अपमान यह ६ वस्तु त्याग देने चाहिये ॥ ४ ॥

निंदा गर्व मत्सर दंभदर्पेच्छाद्वेष सुख दुःख काम ।

क्रोध लोभ मोह हर्षा सूयाहं कारादिश्च हित्वा ॥ ५ ॥

जो, गर्व, मत्सर, दम, दर्प, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, असूया, अहंकारादि को छोड़ कर ॥ ५ ॥

स्ववपुः कुणपभिवदृश्य तथे ।

। तस्तद् पुर मध्वस्तं ॥ ६ ॥

अपने शरीर का मुर्दा समझे क्योंकि ज्ञान होने के बाद शरीर तो मरा ही हुआ है । इस लिये यागी का निन्दा प्राण्य है ॥ ६ ॥

अनित्याशुचि दुःखानात्म सुनित्य ।

शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ७ ॥

अनित्य, अशुचि, दुःख, अनात्म बुद्धि सुख, आत्मख्याति यह सब अविद्या के स्वरूप हैं ॥ ७ ॥

गवां सर्पि शरीरस्थं न करोत्यं गपोपण ।

तदेव कर्म रचितं पुनस्तस्यैव भेषजं ॥

एवं सर्व शरीरस्थ सर्पिवत्परमेश्वरः ।

विना चोपासनां देवो न करोति हितं नृपु ॥८॥

जैसे गऊ के शरीर में रहता हुआ दूध और घी अन्न पोषण के लिये नहीं होता, यदि वही अलग कर लिया जाय तो पुष्टिकारक होगा । इसी प्रकार सम्पूर्ण शरीर व्यापी ईश्वर विना उपासना के फल नहीं देता ॥ ८ ॥

ज्ञानदंडोद्धृतोयेन एकदंडोस उच्यते, काष्ठदंडोद्धृतो-
येन सर्वाश ज्ञान वर्जितःस याति नरकान्घोरान् महारो-
रेव संज्ञितान् । तितिक्षा ज्ञान वैराग्यशमादिगुणवा-
र्जितः भिक्षामात्रणेयोजीवीत्सपापी यतिं वृत्तिहा ॥९॥

भिक्षा का पात्र वही है कि जिसने ज्ञान दण्ड धारण किया है और जिसने दर्शनाथ काष्ठदंड धारण किया है वह महारौरव में पड़ता है । तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य शमादि गुणों से वर्जित जो भिक्षा मात्र से जीता है वह यति वृत्ति नष्ट करने वाला है ॥ ९ ॥

यतिपरमहंसस्तुतुर्पाख्यश्रुति चेदतिः ।

यमश्चेनियमेयुक्तोविष्णुरूपिन्निदंडमृत् ॥१०॥

चतुर्थ अवस्था में श्रुति से कहे मार्ग से यम-नियम से युक्त विष्णु-रूप भी, दण्ड को धारण करने वाले ही परमहंस होते हैं ॥ १० ॥

नचोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्रांगविद्यया ।

नानुशासन वादाभ्यांभिक्षांलिप्यतेनकर्हिचित् ॥

एककालं परेत्भैक्ष्यं न प्रसज्जेतविस्तरे ।

भैक्ष्येप्रसक्तोहियति धिपयेशचपिसज्जति ॥११॥

उत्पात का कथन, नक्षत्र विद्या द्वारा या यहम करके संन्यासी का भिक्षा नहीं देनी । एक समय भिक्षा करना चाहिये, हिस्तर

पर नहीं सोना चाहिये, भिक्षा में जो यति असक्त हैं वह विषयों में भी असक्त हो जायगा ॥ ११ ॥

आशांभ्वरोनिनमस्कारो न स्वध्याकारानेनिंदांस्तु-
तियद्रिच्छिकोभवेत् भिक्षुनवाहनं नविसर्जनं-
न मंत्रं न ध्यानं नोपासनं न लक्ष्यं नालक्ष्यं-
न पृथङ्गं नापृथङ्गः न चाहं न त्वं न च सर्वं चानि-
केतस्थितिरेवसभिक्षुः सौवर्णादिनां नैव
परिग्रहेत्लोकं नावलोकयेच्या ॥ १२ ॥

आशा से दूर, स्वाहा, स्वधाकार से वर्जित, निन्दा स्तुति रहित, आवाहन, विसर्जन, मंत्र, ध्यान, उपासना लक्ष्य पृथक् लक्ष्य, आदि न करने चाहिये। निर्वाहस्थान में स्थित दीप की तरह से रहे वही भिक्षु है। न लोक वासना रखे, स्वर्णादि किसी से न ले ॥ १२ ॥

लोभवेत्पूर्वं संन्यासी तुलयाचै धर्मतोयवि ।

तस्मैप्रणामः कर्त्तव्योनेतरायकदाचन ॥ १३ ॥

जिसने अपने से पहिले संन्यास लिया होय उसको नमस्कार करना। दूसरे का कभी नहीं।

स्वमाहृतपर्णेषु स्वयंशीर्णेषु चापुनः ।

भुंजीतनवदारचक्षुकरं जानांचर्मणके

आपद्मापिनकांस्येपुमलाशीकांस्यभोजनः,

सौवर्णेराजतेताम्रेमृत्मध्येत्रपुशीसयोः ॥१४॥

आपत्ति आने पर भी अपने लाये हुये पत्ते पर खाये और लाये कुश पर सोये) कांसी, सोना, रूपा, ताम्र, कलई, शीशा आदि धातु वालों में नहीं खाना चाहिये ॥ १४ ॥

एकएवचरोभित्यंसिध्यार्थेमसहायकः ।

सिद्धिमेकस्थपश्यन्हीतज्जहातिनहोयते ॥१५॥

एकान्त सिद्धि के लिये इकला विचरे, नौकर आदि को साथ न रखे ऐसे पुरुष को न कुछ त्याज्य है न उसे कोई त्यागता १५

स्थावरंजंगमंवीजं तैजसविपयायुधं ।

पडेतानिनग्रहणीयाद्यतिमुत्रपुरीपवत् ॥१६॥

आसन, पात्र का लोभ, संचय, शिष्य संग्रह, दिवा और सोना वृथा बोलना यह छः संन्यासी के लिये बन्धन के कारण हैं स्थावर, जंगम, विद, तैजस, विपम, आयुध इन सबको मृत्र और पुरीप की तरह त्याग देना चाहिये ॥ १६ ॥

योऽन्यथासंतमात्मानमन्यथाप्रतिपाद्यते ।

किंतेननकृतंपापंचौरैणात्मापहारिणा ॥१७॥

जो वास्तवमें कुछ और है, और अपनेको कहता है कुछ और उस आत्म बंधक से क्या सचा ? उसने सब पाप कर लिये ॥१७॥

असुर्यानामतेलोकाश्चन्वेन तमंसाऽवृताः ॥

तांस्तेप्रत्यापि गच्छतियेकेचात्महंनोजनाः ॥१८॥

जो आत्मघाती पुरुष हैं वे असुर संम्वन्धो तथा घोर अंध-
कार में लीन हैं, इसी को वह मरणान्त में पाते हैं ॥ १८ ॥

अनादि निधनं विष्णुं सत्रलोकमहेश्वरं ।

लोकाध्यक्षंस्तुवन्नित्यं सर्वदुखातिगोभवेत् ॥१९॥

अनाद्यनन्त सर्वलोकाध्यक्ष महेश्वर सर्व लोक पति विष्णु
को स्मरण करने से सम्पूर्ण दुःखों से छूट जाते हैं ॥ १९ ॥

अदीक्षितायेकुर्वन्ति जपपूजादिकाः क्रियाः ।

निष्फलं तत्प्रिये तेषांशीलायामुमयोजवत् ॥२०॥

हे प्रिये ! मद्गुरु से दीक्षा लिये बिना जो पूजादि क्रिया
करते हैं उनकी वह सब क्रिया निष्फल जाती है, जैसे ऊमर में
घोज घोया ॥ २० ॥

यत्पूर्णाण्डेफ घोष स्तद्ब्रह्माह-

मस्मितिकृतकृत्यो भवति ॥२१॥

जब पूर्णाण्ड का घोष होता है, तब "मस्मि" यह शब्द न
होकर शून्य शून्य हो जाता है ॥ २१ ॥

यंधंहादनिवारयत् ।

मुमर्थं मंगिलं देयादिश्यातितोर्थं महेश्वरः ॥२२॥

जीवन मुक्ति विवेक के द्वारा हृदय बंधन नाश करते हुये तीर्थ रूपी गुरु से अभिन्न श्री महेश्वर सम्पूर्ण पुरुषार्थ दो ॥२२॥

संगंत्यजेत मिथुन वृत्ति नां मुमुक्षु ।

सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि ॥ २३ ॥

प्रवृत्ति वाले पुरुषों का संग न करो, सर्वात्म भाव से मुमुक्षु बहिरिन्द्रियों का दमन करे ॥ २३ ॥

भेदाभेदोसपदिगलितोपूण्य पापं विशीर्षे,

मायामोहोत्तयमधिगतौ नष्ट संदेह वृत्तिः ।

शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्यतत्त्वायबोधं,

निस्त्रैगुण्येपयि विचरतां कोविधिः कौनिपेधः ॥२४॥

सपदि भेदा भेद, पुण्य पाप, माया मोह, संदेह वृत्ति के नष्ट होने पर शब्द से अतीत, त्रिगुण रहित आत्मबोध प्राप्त त्रिगुण रहित पथ में विचरने वाले के लिये क्या विधि और क्या निपेध है ॥ २४ ॥

सर्वप्रावस्थितं शान्तं न प्रपद्ये जनार्दनम् ।

ज्ञानचक्षुर्विहीनत्वादंधः सूर्यमिबोदितं ॥२५॥

सर्वे स्थान शान्त परमा मा को जो नहीं देखता, ज्ञान चक्षु से रहित उसे उदय कालीन सूर्य को न देखने वाले अन्धे की तरह समझे ॥२५॥

कृष्णवलोक तोयेषा गविद्या याति संज्ञवं ।

परमात्म स्वरूपा स्नद्गुरुन् प्रणतोस्माहम् ॥२६॥

जिमके कृष्ण फटाक्ष से अविद्या नष्ट हो जाती है, उस परमात्म स्वरूपा गुरु को नमस्कार है ॥ २६ ॥

इष्टमिष्टमिदं नेतियोऽन्नन्नपि सञ्जते ।

हितं सत्यं मितं वक्तं तमजिह्वं प्रचक्षते ॥ २७ ॥

जो इष्ट अनिष्ट को "नहीं समझता, जो खाना नहीं जानता हित् सत्य और मित धालने वाले उसे गूंगा समझो ॥ २७ ॥

अथ जातांघयानारी तथाशोडपवार्पिकिम् ।

शतवयचि योद्रष्ट्वानिर्विकारसपठकः ॥२८॥

आज उत्पन्न होने वालो पांडरी या वृद्ध्या को देख कर जिसका मन विह्वल नहीं होता उसे पण्डक कहा है ॥२८॥

वर्णाश्रमादयोदेहे माययापरिकल्पताः ।

मात्मनोबोधरूपस्यममतेसन्ति सर्वदा,

इतियावेदवेदान्तेः सोतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥२९॥

वर्णाश्रमादिक देह के विषय हैं, आत्म बोध रूप में यह रहते नहीं, मैं बोध स्वरूप हूँ ऐसे व्यक्तिके लिये वह कृद्द नहीं ॥२९॥

यस्यवर्णाश्रमी चारी गलितः स्वात्मदर्शनात् ।

सवर्णानाश्रमाना सर्वनितित्य स्वात्मविस्थितः ॥३०॥

आत्म साक्षात्कार होने के बाद जिसका वर्ण और आश्रम का आचार गलित हो गया वह सर्ववर्गाश्रमों को अंगीकार करके अपनी आत्म स्थिति लान है ॥३०॥

न देहो नेद्रियमाणो न मनो बुध्यह ।

कृति न विर्त्त नैव माया च नचत्योमादिकं जगत् ॥

न कर्त्ता नैव भोक्ता च नच भोजयिता ।

तथा केवलचित्सदो ब्रह्मैवात्मायथार्थतः ॥३१॥

देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि अहंकार, मायात्योमादि जगत् तथा कर्ता, भोजयिता यह सब कुछ नहीं केवल एक मात्र चित्तद ब्रह्म ही यथार्थ है ॥ ३१ ॥

सत्प्रयमानारागाद्याविवेकतानबन्धिनातदा ।

तदैवदक्षन्तेकुलस्तेषां प्ररोहणां ॥३२॥

रागादि सृणो को उद्भूत होते ही जो विवेक बन्धि से जला देते हैं उन्हें का कुल घटना है ॥ ३२ ॥

यथानिरधनोर्बन्धि स्वयोनावुपशाम्यति ।

तथा वृत्तिज्ञयाचिरं स्वयोनावुपशाम्यति ॥३३॥

जिस प्रकार ईंधनके बिना बर्हि स्वयं शान्त हो जाती है, उसी प्रकार वृत्ति क्षयसे चित्त स्वयं शान्त हो जाता है ॥ ३३ ॥

अपकारिणे क्रोपश्चेद् क्रोपेकोपा कथंनते ।

धर्मार्थकाम-मोक्षाणो प्रसह्येपरिपथिनी ॥३४॥

यदि तुम्हें अपने अपकारि पर ही क्रोध आता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी रत्नों को नष्ट करने वाले अपकारी क्रोध पर ही तुम्हारा क्रोध क्यों नहीं होता ॥ ३४ ॥

फलांन्वितो धर्मं यशोर्धनार्थनाशनः ।

स चेवपाथः स्वशरीरतायनः न चहेना मुञ्च,

हिताय यः संतामनांसिकोपः सद्युपाश्रयेत् कथं ॥३५॥

क्रोध यदि अन्य की हानि रूप फलका होने वाला है तो हे पथ क्रोध करने वाले को ही धर्म, अर्थ, तथा धरा नाश करता है यदि उसका फल दूसरे को न दे सको तो अपने शरीर को ही नष्ट करता है भला जिससे इस लोक और परलोक दोनों में भलाई नहीं ऐसा क्रोध सज्जन कैसे अपने चित्तमें रखेंगे ॥ ३५ ॥

निवृत्तो ब्रजतोयापियस्य चक्षुर्नदूरगम् ।

॥ चक्षुषु मां त्यक्त्वा परिमाटसोऽन्ध्य उच्यते ॥३६॥

बैठे या चलते जिसकी दृष्टि १६ हाथ आगे नहीं जाती वह परिमाट अन्धा कहा गया है ॥ ३६ ॥

ननिन्दां नस्तुतिं कुर्यान्न किञ्चिन्मर्माणि स्मृशेत् ।

नातिवादि भवेद्-त्सर्वत्र-समो भवेत् ॥

न संभावेत्त्रियंकांचित्पूर्वद्रष्टां च न स्मरेत् ।

कथां ववर्जयेत्सां न मरयेत् लिखितामपि ॥३७॥

न निन्दा करो न स्तुति करो न कोई मर्म छूओ ज्यादा न बोले समभाव से रहे किसी स्त्री से न बोले देखकर स्मरण न करे, स्त्री का चित्र भा न देखे ॥ ३७ ॥

यो जागर्ति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रत विद्यते ।

यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥३८॥

जो सुषुप्ति में जागता है, जो विद्या रूपान्द्रा में साता है, जिसका निर्वाणना बोध है उसे जीवन मुक्त कहा गया है ॥ ३८ ॥

हृदयात्सं परित्यज्य सर्वमेव महामतिः ।

यस्तिष्ठति गतव्यग्रसमुक्तपरमेश्वरः ॥३९॥

जो महापुरुष हृदय में से सर्व विषय वासनाओं को त्यागकर चित्तको व्यग्रता से मुक्त है वह महापुरुष परमेश्वर है ॥ ३९ ॥

विचारितमलं शास्त्रं चिरमुद्गाहित मिथः ।

संत्यक्तं वासना न्मौनाद्रत्नेनास्त्युत्तमपदं ॥४०॥

पूर्ण रीति से शास्त्र का विचार किया होय चरों के द्वारा उसे ग्रहण किया होय जिमने वासना त्यागदी होय और मौन हो उसे उत्तम कोई पद नहीं ॥ ४० ॥



नियम

इ सा, सत्या, स्तेय, ब्रह्मचर्यापरिग्रहायमाः ।

शौच, संतोष, तप स्वाध्यायेश्वर प्रतिधानानिनियमोः ॥४१॥

यम, नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिमह
यम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रतिधान यह
नेयम है ॥ ४१ ॥

पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय ।

यमान सेवेत सततं ननित्यं नियमान बुधैः ॥

यम न पतत्य कुर्वाणे नियमान केवलाद् भजन् ॥४२॥

चतुर पुरुष को सर्वदा यमों का सेवन करना चाहिये सदा
नियमों के पालन से यम की भी चिन्ता नहीं क्योंकि यमको न
सेवन करने वाला केवल नियमों के द्वारा पतित होता है ॥४२॥

द्विविषयान् पंचमनश्चैवाति ।

चंचलंचिचायेदात्पनारेदिमन् प्रत्याहारः संउच्यते ॥४३॥

शब्दादि पांच विषयों के कारण पांच इन्द्रिय तथा चञ्चल
मनको विषयों से रोक आत्म ज्योति के चिन्तन में लगना
प्रत्याहार है ॥ ४३ ॥

मनः संकल्पक ध्यात्वा संक्षिप्यात्मनि बुद्धिमान् ।

धारयिष्यां तथात्मानं धारणासामक्षीर्तिता ॥४४॥

सर्व सङ्कल्पो को छोड़ कर मनके बल आत्मा का ही चिन्तन करे उम धारणा कहते हैं ॥ ४४ ॥

निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्प सधोमत ।

प्रचार सत्तुविज्ञेय सुपुत्प्यन्योत्सम ॥

लियतेत सुप्तोहिन्नि गृहीत न लियते ।

तदेव निर्भय ब्रह्मज्ञानालोक समंतत ॥४५॥

बुद्धिमान मनुष्य का निगृहीत मन सुपुत्ति के तुल्य न होकर उससे बिलक्षणता वाला है क्योंकि सुपुत्ति में मन लय हो जाता है और-निग्रह किया मन लय नहीं प्राप्त करता । वही निर्भय ब्रह्म है । जबकि पुरुष चतुर्थ अवस्था में पहुँचाता है ॥ ४५ ॥



पांडुकयोपनिषद्

यदा नलीकते चित्तं न च विक्षिप्यते पुन ।

अनिद्रं नमना भास निपपन्न ब्रह्मतत्तदा ॥४६॥

जब चित्त न लीन होता और न विक्षेप प्राप्त करता और अचता तथा अनादक हा जाता है तो ब्रह्मरूप हा जाता है ॥४६॥

समाधि निर्धूत मन्तस्य चेतसो ।

निवेशतस्यात्मनि यत्सुख भवेत् ॥

नशक्यते वर्णयितुं गिरा-तदास्वयं ।। ७७ ।।

तदंतकरणेन गृह्यते ॥ ४७ ॥

समाधि से पथित्र हुवे मनको आत्मा में लगाने वाले को जो सुख होता है, उसको वर्णो नहीं कह सकती वह, केवल अन्तःकरण के अनुभव की वस्तु है ॥४७॥

यदापां चाधितिष्ठं ते ज्ञानानी मनसासह ।

बुद्धिश्चनविचेष्टते तमाहुपरमांगति ॥४८॥

जब मन सहित पांचो ज्ञानेन्द्रिय स्थिरता को प्राप्त होती हैं तथा बुद्धि भी व्यापार नहीं करती वही अवस्था सर्वोत्तम कही गई है ॥ ४८ ॥

तद्यथा अहिनिलवमनी बलिपके-

मृतामत्पस्ता एव भवेदं शरीर सेत ॥ ४९ ॥

जिस प्रकार सांप केंचुली छोड़ कर फिरता है उसी प्रकार शरीर भी अलग रहे कर सोता है ॥ ४९ ॥

तत् सन्निधौ वैरत्यागः क्रियाफलात्त्वावितर्कः ।

रत्नोपस्थानवीर्यं लाभः (जननादि-भयाभावः) ।

जन्म कथता संबोधः शौचात्स्वांग जुगुत्सापरै

रसंसर्गसत्त्वशुद्धिः सौमनस्यैकोश्रयोन्द्रियजयात्म, ..

दर्शनयोग्यत्वानि च संभवन्ति ।

संतोषादनुत्तमः सुखलाभः,
कार्येन्द्रिय बुद्धिशुद्धिरशुद्धित्तया तपसः ।
स्वाध्यायादिष्ट देवता समयोगः ॥
समाधिसिद्धिरीश्वर प्रतिधानात् ॥ ५० ॥

अहिंसा की प्राप्ति में वैर त्याग, वाणी के द्वारा दूसरे की क्रिया तथा उसका फल देने की सामर्थ्य आती है। अनिष्टदा होते हुये भी योगी को सर्व रसों की प्राप्ति होती है, शौच से सत्व सुद्धि सुमन से एकाग्रता तथा इन्द्रिय जय तथा आत्म दर्शन की योग्यता। सन्तोष सं अनुत्तम सुखलाभ होता है, तपस्या से कार्येन्द्रिय बुद्धि का शुद्ध तथा अशुद्धिना नष्ट होता है। स्वाध्याय से इष्ट देवताओं का संप्रयोग ईश्वरके प्रतिधान से ईश्वर निद्धि होती है ॥ ५० ॥

अच्छेदांड मनसिमाज्ञस्तयच्छेज्ञान,
आत्मविज्ञानमात्मनिमहत्ति,
नियच्छे तयच्छेच्छांत आत्मनि ॥५१॥

वाणी को मनमें, मनकी ज्ञानात्मा में, ज्ञानात्मा को विशेष अहंकार में विशेष अहंकार को सूक्ष्म में एवं सूक्ष्म अहंकार को शुद्ध चैतन्य आत्मा में फल करना चाहिये ॥५१॥

मौनयोगासनं योगस्तिनिक्षैकान्तशीलता ।

विस्पृहत्वं समत्वं च सप्ततौन्येकदंढिनः ॥५२॥

मौन, योग, आसन, तितिक्षा, एकान्त-शीलता, निस्पृहत्व यह एक दण्डधारी संन्यासी के लक्षण हैं ॥ ५२ ॥

अहमसंस्थं मनः कृत्वा न किं चिदपिचितत्येत् ॥५३॥

आत्मामें मनको लगाकर और कुछ भा चिन्तन न करे ॥ ५३ ॥

द्वौ क्रमौ चित्तनाशायं योगी ज्ञानं च

राघवं योगस्तद्वृत्तारोधोहिज्ञानसम्यगवक्षण

असाध्यः कस्य चियोगः कस्यचिज्ज्ञाननिरचयः

प्रकारौद्वौ ततो देवो जगाद् परमेश्वरः ॥५४॥

हे राघव ! मना नाश के दो उपाय है १-योग और २-ज्ञान, योग वृत्तियों के निरोध को तथा ज्ञान आत्म दर्शन से होता है । किसी किसी को ज्ञान देर से होता है, किसी किसी को अभ्यास देर से होता है, ईश्वर ने यह दो ही उपाय कहे हैं । दांधेकाल के निरन्तर अभ्यास से ही यह साध्य है ॥ ५४ ॥

द्रष्टानुश्रविक विषयवितृष्णस्य वशीकार !

संज्ञा वैराग्यं ॥ ५५ ॥

प्रत्यक्ष तथा सुने हुवे विषयों से तृष्णा रहित पुरुष उस विषय में जो तितिक्षा उसे वशीकार वैराग्य कहते हैं ॥ ५५ ॥

चित्तेऽर्थविरतेर्वाशात् सत्त्वात्मनिस्थिते ।

शुद्धे सत्त्वापतिरूदाहृता दशाचतुष्टया ॥

भ्यासादसंसर्गफलातुषारुढ सत्वचमकारा

प्रोक्ता भूमिकापि चकाभ्यासात्स्वात्मारामतया

संसक्तिनामिका भृशंयाभ्यां तराणा बाधानां-

पदार्थानाम भावनात् । परत्युनचिरं प्रयत्नेनावबोधनं !

पदार्थाभाविनिनाम पण्डि भवति भूमिका ।

भूमिपटक चिराभासाभेद स्वानुयंलं भवात् ।

यत्स्रभावेकनिष्ठत्वंसाज्ञेयातुर्यगागतिः ॥५६॥

हमें अपने स्वरूप को देखना चाहिये । उसके लिये वैराग्य
आदि साधनों की आवश्यकता है । इच्छा और शुभेच्छा नाम
की प्रथम भूमिका कही गई है । गुरु सेवा तथा स्वधर्म
का निरन्तर श्रवण मनन करना और उसीमें रत रहने को विचा-
रणा नाम वाली दूसरी भूमिका समझो । विचारणा तथा
शुभेच्छा दोनों, भूमिकाओं के अनुभव के बाद इन्द्रियां अपने
अपने विषय को प्रदण न करें और मन की संकल्प अवस्था सम
हो जाय उसे तनु मानस नाम की तीसरी भूमिका कहते हैं । तीनों
भूमिकाओं की सिद्धि प्राप्ति के बाद सभी बाह्य विषयों से
निवृत्ति एवं धारामना हो जाने पर चित्तशुद्धि अर्थात् माया

और उससे उदन्न होने वाले कर्मों का न्यास हो जावेगा । सन्दन्तर त्रिपुटी का मय्यम्बरूप आत्मा में लय होगा और विकल्प समाधि रूप जा स्थिति हांगी उसका नाम सत्वापत्ति नाम की चौथा भूमिका है । चारों भूमिकाओं के बाद बाह्यानन्तर विषयों से संप्राप्त होकर समाधी की परिपक्व अवस्था की प्राप्ति से परमानन्द ब्रह्म मात्रात्कार युक्त जो चित्त की अवस्था होती है उसका नाम असंसक्ति अर्थात् पांचमां भूमिका है । पांचमां भूमिका क अभ्यास से जब आत्मा के विषय में अत्यन्त रती हो और बाहर व भीतर के पदार्थों की प्रतीति न हो और जब अत्यधिक प्रयत्न करने पर पदार्थों का भान न हो, इन प्रकार की जो अन्तःकरण की अवस्था हो उसका नाम पदार्थ भाविनी नाम की छठी भूमिका है । दीर्घ काल तक उक्त छः भूमिकाओं का अभ्यास होने पर जब प्रयत्न करने पर भी भेद की प्रतीति न हो और जब चित्त केवल स्वरूप में ही लीन हो जाता है तब तुर्यानाम की सातवां भूमिका सिद्ध हातो है ।

श्री घर्षीष्ट मुनि ने उक्त मात्र भूमिकाओं में से प्रथम तीन भूमिकाओं को जाग्रत अवस्था वाली कहां हैं । यह सही भी है । यह जगत् जाग्रत भेद बुद्धि से ही दीखता है । और पीछे की सभी भूमिकाओं में नाम रूपात्मक जगत् का छोप हो जाता है । 'मै' और 'सुकले भिन्न' इस प्रकार का भेद नहीं रहता । इस प्रकार जो सद्ज्ञान प्राप्त हाता है मुमुक्षु उसी की उपासना करते हैं । १५६।

द्वैत्यब्रह्मास ब्रह्मद्र मोनाह नाप्यन हंक्रति ।
 केवलं क्षीण मनन आस्ते क्यनिर्गत ॥
 अद्वैतं केचिदिच्छन्तिद्वैत मिच्छन्ति केचन ।
 समंब्रह्म न जानन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितं ॥
 अत शून्योवद्विशून्य, शून्यकुंभरुपांवरै ।
 अन्त पूर्णो बहिर्पूर्ण पूर्णकुंभश्वाणवे ॥५७॥

सुपुष्टि नाम की पांचमी भूमि को प्राप्त होने पर जिनकी सभी भेद रूप आशाएं निरुत्तर हो जाती हैं ऐसी पुरुष केवल अद्वैत स्वरूप में स्थित रहता है। वह बाहर के सभी व्यवहार करता हुआ भी सदा अन्तर्मुखी रहता है और थका हुआ सोया हुआ मांस देता है। इसके अभ्यास में जो भोगी रत है वह वासना रहित होकर गौड़-सुपुष्टि नाम की अवस्था को प्राप्त होता है। इस अवस्था में वह न स्तरूप है न असत् रूप, अहंकारी या अहंकार रहित वाला नहीं—केवल मनन रहित ऐसी पुरुष द्वैत तथा अद्वैत से रहित रहता है। जितने ही द्वैत को चाहते हैं तो जितने ही अद्वैतताको, परन्तु यदि सर्वत्र सम ब्रह्म तो दोनों ही रहित है। वह तो बाहर तथा भीतर आकाश के धाँति पूर्ण है। गौड़ निर्विकल्प समाधि को प्राप्त वाले फीवरटा संस्कार रूप से सेप रहता है।

मनसश्चेन्द्रियाणां च एकाग्रयं परमं तपः ।

नज्जायः सर्वधर्मैर्भ्यः सधर्मः परउच्यते ॥५८॥

मन और इन्द्रियों की एकाग्रता ही परम् तप है। और यह तप सर्व धर्मों में श्रेष्ठ है ॥ ५८ ॥

श्रद्धावां लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं मच्चिरेणाधि गच्छति ॥५९॥

श्रद्धा वाले को ज्ञान प्राप्त होता है, उससे जितेन्द्रिय होता है। और ज्ञान प्राप्ति से शीघ्र ही स्थायी शान्ति मिल जाती है ॥ ५९ ॥

तस्य पुत्रादाय मुपयन्ति ।

सुहृद् साधु कृत्यां द्विपः तः पापकृत्याः ॥६०॥

उसका उत्तराधिकार शिष्य या पुत्र ग्रहण करता है उसका मित्र पुण्य कमाता है और द्वेषी पाप कमाता है ॥ ६० ॥

यस्यानुभवपर्यां तातत्रेव बुद्धिप्रवर्त्त ।

तद्द्रष्टृगोचर सर्वमुच्यन्ते सर्वपातकैः ॥६१॥

जिम्हके माझात्कार होणे तक तत्र के विषय में बुद्धि चलती है, उसकी दृष्टि में पड़े हुए सब जीव सर्व पाप मुक्त हैं ॥ ६१ ॥

सर्ववेदं संवापत्तत्सत्रं यन्मरणं तदेव भृथः ।

लीयन्तेपत्र भूतानि निर्गच्छन्तियतः पुनः,

तेन त्रिगपरं ष्यौर्मः निष्कलः परमः शिवः ॥६२॥

विश्वेशो जनको उमाच जननी गंगा च मात्रीश्वसा ।
हुंडीव भैरव दंडपाणीसद्रशाज्येष्टमम भ्रातरम् ॥
सा काशीमणिकर्णिका च भगिनी जायाममेयंपती ।
सत्कर्माणि सृतासदैवशुभदाकाश्यां कुडुंब मम ॥६६॥

विश्वेश जनक, उमा जननी, गंगा मौमो हुंडी भैरव दण्ड पाणी
जैसे मेरे थड़े भाई । वह काशा मणि कर्णिका भगिनि, तथा बुद्धि
स्त्री सत्कर्म लड़के रुबंदा शुभ फल देने वाली काशी में मेरा सब
कुटुम्ब है ॥ ६६ ॥

शिवः शिवोक मस्मितिं वादिनं यञ्च कञ्चन ।
आत्मवासहतादात्म्ये भागिनं कुरुते भृशम् ॥६७॥
श्री गौर्या सकलार्थदा निजयदा भोजेन मुक्तिपदम् ।
मौठं विह्वनंहरन्त मवद्यं श्रीहुंडो हुंडा सीना ॥
चंदे चर्म जपालि कापे करणैः वैराग्यसोख्यात्परम् ।
मदिसन्तमन्त विधुरं श्री काशोकेशं भजे ॥६८॥

श्री गौरी सकल अर्थको देने वाली, स्वयं मुक्ति प्रदाना, विशाल
धन कभी मनको जलाने वाले हुंडो राज ऐसी शस्त्र चर्म कपालि
वीराग्य में सुगम मानने हैं. नहीं है ऐसी वाणामे विधुर श्री काशी
पति का भजो ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

प्रातर्वदिक कर्मतः तदनुस्त् वेदान्त संचितया ।

पश्चात् भारतमोक्ष धर्म कथया वासिष्ठ रामायणात् ॥

सायं भागवतार्थं तत्त्व कथया रात्रौनिदिध्यासनात् ॥

कालोगच्छतु न शरीर मरणं प्रारब्ध कंठार्पितं ॥६६॥

सुबह वैदिक कर्म, इसके बाद वेदान्त चिन्तन इसके पीछे महाभारत मोक्ष धर्म कथा, रामायण, योग—वाशिष्ठ तथा सायंकाल भागवतके अर्थ की तत्त्वकथा, रात्रिमें निदिध्यासन इस प्रकार जिस व्यक्ति का समय व्यतीत जाता है, उसको शरीर का परण नहीं होता उसके गले में प्रारब्ध रूपी माला पड़ी है ॥६९॥

वस्त्रैश्च भूषणैश्चैव शोभास्यात् वाहयोपिताम् ।

विद्यया तपसाश्चैव राजग्ने िजनन्दना ॥७०॥

वस्त्र और भूषण से वेश्याओं की शोभा होती है विद्या और तप से द्विज बालक शोभित होते हैं ॥ ७० ॥

आत्मानं चेद्विजानोयादयमस्वितिपुरुष ।

किमिच्छत् कस्य कामाय शरीरमनु संज्वरेत् ॥७१॥

आत्मा जो यह जानता है कि यही परम पुरुष है । फिर क्या चाहता हुआ, किम काम के लिये शरीर को पीड़ित करता है ॥ ७१ ॥

विधारित मलंशास्त्रं चिरमुद्ग्राहिनमिधः ।

सन्त्यक्तवासनान्मौनाद्रतेनास्त्युचमं पदम् ॥७२॥

अर्हेतं शास्त्रका विचार तथा गुरु शिष्य संवाद द्वारा वासना त्याग तथा वापो मंयम मे बढकर कोई उत्तम पद नहीं ॥ ७२ ॥

दर्शनादर्शनेहित्वा स्वयं केवल रूपतः ।

यस्तिष्ठति सत्तुब्रह्मन् ब्रह्मनमब्रह्मत्स्वयम् ॥७३॥

ब्रह्म को जानता हूँ, या ब्रह्म को नहीं जानता इस भ्रम को छोड़कर जो मन्ना पुनर अद्वितीय चैतन्य रूपे आदर्श स्थापित करता है वह परब्रह्म ही है ॥ ७३ ॥

शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्पसमाधितः ।

सुसंपादः क्रमात् सोऽपि मविकल्प समाधिना ॥७४॥

निर्विकल्प समाधि मे मनो राज्यको जीत सकता है, और वह भी क्रममे मविकल्प समाधि मे मादम है ॥ ७४ ॥

बुद्ध तत्त्वेन धीदोष शून्ये नैकान्त वासिना ।

दीर्घ प्रणव मुञ्चार्य मनोराज्यं विजीयते ॥ ७५ ॥

धो दोष शून्य, एकान्त वामी बुद्धि तत्व के द्वारा दीर्घ ओंम उच्चारण कर मनोराज्यको जीति सकता है ॥ ७५ ॥

जिते तस्मिन् वृत्ति शून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत् ।

एतत्पदं वशीष्टेन रामाय बहु घेरितम् ॥ ७६ ॥

उम मनोराक को जीत-लेने पर, मन मूक की तरह शून्य हो जाता है । यह स्थान वशिष्ठ ने रामको बहुत बार कहा है ॥७६॥

द्रश्य नास्तितो बोधेन मनसोद्रश्य मार्जनम् ।

संपन्नं चेत्तद्दुत्पन्ना परानिर्वाण निवृत्तिः ॥ ७७ ॥

दृश्य कुछ नहीं जब ऐसा ज्ञान हो जायगा तो इसके द्वारा मनसे दृश्य रूपो कूड़ा झाड़ निकलना ॥ ७७ ॥

निद्रा भिक्षे स्नान शौचे नेच्छामिव करोमिव ।

दृष्टारश्चेत् कल्पयन्ति किमे स्यःदन्य कल्पनात् ॥७८॥

निद्रा, भिक्षा, स्नान, शौच की मैं इच्छा नहीं करता, जब देखने वाले ही कल्पना करते हैं तो मुझे कल्पना करने की क्या आवश्यकता ॥ ७८ ॥

गुंजा पुंजादि दद्येत नान्या रोपीत बन्दिना ।

नान्यारोपित संसार धर्मा नेव महं भजे ॥ ७९ ॥

दूसरे से आरंभित गुंजारूप बन्धि जलाती नहीं, उसी प्रकार दूसरे से आरोपित संसार की मैं सेवा क्यों करूँ ॥ ७९ ॥

प्रारब्ध कर्मणीक्षीणे व्यवहारो निवर्तते ।

कर्माक्षये त्वसौ नैव शाम्येत् ध्यान सहस्रतः ॥८०॥

प्रारब्ध धर्म के नष्ट हो जाने से व्यवहार समाप्त हो जाता

कर्म ज्ञयसे संसार नष्ट नहीं होता, वह तो ध्यान से होता है ॥ ८० ॥

देवार्चनं स्नान शौच भिक्षादा यवतीं त्रयुः ।

तारं जपतुवा क्लृप्त पठन्याम्नाय मस्तकम् ॥ ८१ ॥

विष्णु ध्यायं तुभीपद्मी ब्रह्मानन्दे विलोपताम् ।

साक्ष्यहं किचिद्दृष्यत्र न कुर्वेनापि कारये ॥ ८२ ॥

मेरा शरीर देवाचार्य स्नान भिक्षा चरन, अर्चन या शौचाचार करे, या मेरी याणी तार (प्रणव) जप करे या वेदान्त शास्त्र पढ़ता रहे, बुद्धि विष्णु का

ध्यान करती रहे या ब्रह्मानन्द में लीन हो जाय, मैं इन कामों का करता कराता नहीं किर्क साक्षी मात्र हूँ ॥ ८१ ॥ ८२ ॥

नाहं मनुष्यो न च देव यत्तो न ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्यशूद्राः ।

ब्रह्म चारीन गृहि वनस्थो भिक्षुर्न चाहं निजबोधरुपः ॥ ८३ ॥

न मैं मनुष्य हूँ, न देव, न यज्ञ न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ न वानप्रस्थी न भिक्षु हूँ मैं तो अपना आत्म बोध पाइता हूँ ॥ ८३ ॥

भावार्द्रैतं सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतं न कर्हिचित् ।

सर्वभ्राद्वैतं कुर्यात् नाद्वैतं गुरुणा सह ॥ ८४ ॥

भावमें अद्वैतता करो क्रिया में कभी नहीं । सर्वत्र अद्वैत पना करो परन्तु गुरुके साथ नहीं ॥ ८४ ॥

अत्यन्त मतिर्भेधावी त्रयाणा मेक मश्नुते ।

अल्पायुषो दरिद्रोवा धनपत्यो न संशय ॥ ८५ ॥

जो बहुत हाशियार होता है इसे नीचे की तीन वस्तुओं में से एक मिलती है नि.सन्नानं, स्वल्प यु था दरिद्रता ॥ ८५ ॥

ब्रह्मचर्याद् ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्व विधियते ।

। एवमाहुः परेलोके ब्रह्मचर्ये विदो जना ॥ ८६ ॥

ब्रह्मचर्य से ही ब्राह्मण की ब्राह्मणता हो। ऐसा परलोकज्ञ ब्रह्म वेत्ताओं ने कहा है ॥ ८६ ॥

नास्ति योगं विना सिद्धिर्न वासिद्धिं विना यशः ।

नास्ति लोके यशो मूलम् ब्रह्म चयन्ति परंतपः ॥ ८७ ॥

योग के बिना सिद्धि और बिना सिद्धि के यश नहीं हाता, लोकमें यश के लिये ब्रह्मचर्य से बढ़ कर दूसरा तप नहीं ॥ ८७ ॥

गंगाजलेन पक्वान्नं देवानामपि दुर्लभं ।

तिर्थं माधुकरो भिक्षा पवित्राणि युगे युगे ॥ ८८ ॥

गंगाजलसे बने पक्वान्न देवताओं को भी दुर्लभ है अतः तीर्थ पर माधुकरो भिक्षा युग युगान्तर में भी पवित्र रहती है ॥ ८८ ॥

श्रीकृष्ण घेदीय काठको पनिपद् चल्ली ३ अध्याय १

नाविरतो दुश्चरति न्नाशान्तो ना समाहितः ।

नाशान्त मानसोवापि प्रज्ञानेनैव माप्नुयात् ॥ ८९ ॥

जो पुरुष पाप से निवृत्त नहीं हुआ तथा इन्द्रिय दमन वाला नहीं, चित्त की एकामता से रहित स्वर्गादिक की हृच्छा से विचिप्ल कभी आत्मा को नहीं पाता ॥ ८९ ॥

इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥ ९० ॥

मन सस्तु परा बुद्धिबुद्धे रात्मा महा मतः ।

परम व्यक्त अव्यक्ता पुरुषः परः पुरुषाच्च परं

किञ्चित्साकाष्टा सापरा गतिः ॥ मंत्र ११

इन्द्रियों से परे अर्थ, अर्थों से परे मन, मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे जो परे हैं वही महा महत् आत्मा है । महत् से परे अव्यक्त अव्यक्त से परे पुरुष, पुरुष से परे कुछ नहीं जहां पराकाष्टा है वही परागति है ॥ ९० ॥

य इमं मध्वदं वैव आत्मानं जीव प्रन्तिकात् ।

ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजु गुप्यते एतेद्वैतत् ११

जो इम कर्म फल भोक्ता जीव रूप आत्मा को और भूत भविष्यत् के नियामक को अभिन्न अर्थान् अभेद रूप से जानता है उसे किसी प्रकार के रक्षण की चिन्ता नहीं रहती । जब स्वयं अपने को अद्वैत रूप से जानता है तो फिर कौन किमन्ना किमसे रक्षण करने की चिन्ता करे, यह जीव तो हम ब्रह्म का ही तो स्वरूप है । अविद्या से भेद की प्रतीति होती है । यह अविद्या

दूर हो जाय तो ब्रह्म में और जीवमें भेद नहीं रहता भेद से ही जन्म तथा मरण होता है ॥९१॥

अध्याय २ बह्वी १

अंगुष्ठ मात्रऽपुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।

इषानो भूत भव्यस्य न ततो विजुप्सपते । एतद्वैतत् ॥९२॥

पुरुष अंगुष्ठ मात्र शरीर में स्थित है । हृदय कमान अंगुष्ठ मात्र है और उसके छिद्रमें जो अन्तः करण रुपी पुरुष स्थित है वह भी अंगुष्ठ मात्र है । वही नियामक ईश्वर है । ज्ञानी ऐसा जानकर अपने रक्षण की चिन्ता नहीं करता ॥९२॥

अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्यातिस्विधूमकः ।

इशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य सुश्वः एतद्वै तत् ॥९३॥

जैसा जाना है, वह भूत भविष्यत का नियामक है । वही आज है, वही कल भी रहेगा और वही ब्रह्म है ॥९३॥

श्रोकृष्ण यजुर्वेदीयकाठको पनिपत् बह्वी २

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेणतु जीवन्ति यस्मिन्नेता वुपाश्रितौ ॥९४॥

कोई भी मनुष्य पान या अपान के कारण न जीता है न मरता है, किसी अन्य कारण से ही जीता और मरता है । जिसमें प्राण व अपान दोनों स्थित हैं उसीसे जीता है ॥९४॥

काठकोपनिषद् ब्रह्मी ३

यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्चनपि चेष्टते तामाहुः परमांगतिम् ॥६५॥

जब पांचों ज्ञान मन सहित स्थित हो जाते हैं और बुद्धि चेष्टा नहीं करती वह योगियों की परम गति कही है ॥ ९१ ॥

काठकोपनिषद् श्रीकृष्णायजुर्वेद ब्रह्मी ४

यदासर्वे मुच्यन्ते कामायेऽस्यहृदिश्रिताः ।

अथमर्त्योऽमृतोभवत्यत्र ब्रह्म समरनुते ॥ ९६ ॥

यदा सर्वे प्रभियन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः ।

अथमर्त्योऽमृतोभवत्येता यद्दधयेनुशासनम् ॥६७॥

जब बुद्धि की सभी ग्रन्थियां नष्ट हो जाती हैं, तब मनुष्य अमर अर्थात् मरण रहित हो जाता है। अविद्या को ग्रन्थी के कारण जब यह भान होता है कि मैं यह शरीर हूँ, मेरा यह धन है मेरी यह सभ्य अन्य वस्तुएं हैं तभी मनुष्य मरता है। उक्त भावना के विपरीत जब यह भान होता है कि मैं यह शरीर नहीं परन्तु ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की ब्रह्मरूप भावना से सभी वृत्तिर्धा नारा हो जाते हैं। और जब सभी कामनाएं मूल सहित नष्ट हो जाती हैं। तो मनुष्य मरण धम' वाला होने लूय भी मरण रहित हो जाता है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥

श्री अथर्वेदीय मुण्डकोपनीषद् द्वितीय खंड मन्त्र ३

धनु गृहिस्त्वौ पनिषद् महास्त्रंशरं ।

ह्युपासा निशितं सन्धयीतं ॥ ९८ ॥

आयम्य तभ्दावगतेन चेतसालक्ष्यं ।

तदेवाक्षरं सोम्यविधि ॥ ९९ ॥

उपनिषदों में प्रसिद्ध जो शस्त्र धनुष रूप है उसका लेकर ध्यान से तेज किये हुए बाण को लेकर सन्धान करना । उस ब्रह्म को लक्ष्य में लाने के निमित्त चित्त को इन्द्रियो के सहित विषयो से निवृत्त करना—प्रणव ब्रह्म है, ध्यान करने वाले को प्रणव के जाप से चैतन्य का जो प्रतिबिम्ब स्फुरित होता है वह आत्मा है । इस प्रकार का अनुसंधान प्रणव रूपी धनुष में बाण है । इस प्रकारका अनुसंधान करना लक्ष्य वेध है । १८।१९।

द्वितीय मुण्डक खंड २

प्रणवोधनुः शरोह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्य मुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेधव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ १०० ॥

प्रणव धनु है, आत्मा शर और उसका लक्ष्य ब्रह्म है, अप्रमत्त होकर लक्ष्य वेधन करे तो सोधा होवे अर्थात् शरकी तरह हो जावे ॥ १०० ॥

तृतीय मुंडक (प्रथमोखंड)

सत्येन लभ्य स्तपसा ह्येव आत्मा ।

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ॥

अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयोद्दि शुभ्रोयं ।

पश्यन्ति यतयः क्षोण दोषाः ॥१०१॥

नित्य आत्मा सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य से लभ्य है अन्तः शरीर में दांप रहित यति ज्योतिर्मय उस शुभ्र आत्मा का देखते हैं ॥ १०१ ॥

न चक्षुषा गृह्यते चापि वाचा ।

नान्यैर्देवे स्तपसा कर्मणा वा ॥

ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तुतं ।

पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ १०२ ॥

न चक्षु, वाणी न देव कर्म न तप मे ही आत्म तत्त्व दोषना ।
निष्कल ध्यान करने वाला सत्व शुद्ध व्यक्ति ही ज्ञान से उसे देख
सकता है ॥ १०२ ॥



ज्ञान भण्डार

भाग ४

यं यं लोकं मनसा सं विभाति विशुद्ध ।

सत्वः कामयते न्यांश्च कामान् ॥

तं तं लोकं जयते तांश्च कामां ।

स्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद्भूतिकामः ॥१०॥१३२॥

निर्मल अन्तःकरण वाला पुरुष मनमे जिन ० लोकों और भोगों की इच्छा करता है वह उन भोगों और लोकों को प्राप्त करता है । आत्मज्ञ पुरुष उन लोकों और भोगों को जीत लेता है, अतः विभूति चाहने वाले का आत्मज्ञ पुरुष को पूजना चाहिये १०॥१३२

अथ अथर्ववेदीय गौड़ पाद कारिका

चैतथ्य प्रकरण—२

निस्तुतिनिं नमस्कारो निःस्वधाकारण्यच ।

चला चल निकेतस्य यति यद्विच्छिक्तो भवेत् ॥३७॥१३३॥

स्तुति से रहित नमस्कार से रहित एवं स्वधाकार से वर्जित चल अचल घर वाला यति याद्विच्छिक्त होता है ॥३७॥१३३॥

आकाशस्य घटा काशो-विकारा वय वौ तथा ।

नैवात्मनः सदाजीवो विकारापयवौ तथा ॥७॥१३१॥

। जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार तथा अवयव नहीं है, उसी प्रकार जीव, आत्मा का विकार और अवयव नहीं है ॥ ७ ॥ २३४ ॥

अथर्ववेदीय माण्डुक्योपनिषद्का

गौड़ पाद कारिका का तृतीय प्रकरण ।

आत्म सत्यानु बोधेन न संकल्पयते यदा ।


अमनस्तां तदायाति ग्राह्याभावे तदग्रहम् ॥३२॥१३५॥

जब सत्य हय आत्मा का अनुभव होने पर मन संकल्प करना छोड़ देता है, तब अभाव में ग्रहण रहित मन निर्गोधा-वस्था को प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ १३५ ॥

स्वीयते हि सुपुसे तन्निगृहितं न लोयते ।

तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥३५॥१३६॥

जिसमें सुपुत्रि में वस्तीनता होता है, और जो निग्रह करने पर भी लीन नहीं होता । वही निर्भय ज्ञान प्रकाश सर्व व्यापक ब्रह्म है ॥ ३५ ॥ १३६ ॥



अद्वैत प्रकरण ।

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षि विक्षिप्य ते पुनः ।
अनिद्धं न मनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥४६॥१३७॥

चित्त जब तक सुषुप्ति में लीन नहीं होता एवं जब तक विक्षेप युक्त नहीं होता तब तक निवास स्थान में स्थित द्वाप शिखा की तरह ब्रह्म संपन्न नहीं होता ॥ ४६ ॥ १३७ ॥

यजुर्वेद वाजतेयी संहितायां इशावास्योपनिषद्
जस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानु पश्यति ।
सर्वं भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥६॥१३८॥

जो सब जीवों को आत्मा में जानता है एवं सर्व भूतों में स्वात्मा को देवता ही वह संशय का प्राप्त नहीं होता ॥६॥१३८॥

सपर्यगाच्छुक्रं पकायमव्रण ।

मस्नाविरउंशुद्धमपविद्धम् ॥

कविर्मनीषो परिभूः स्वयम्भुयथा तथ्यतोऽथीनु ।

व्यदथाच्छाश्वतीभ्यःसमाभ्यः ॥ ८ ॥ १३९ ॥

पहिले रुदा गया है कि यह सम्पूर्ण जगत ईश्वर का स्वरूप है । जो ऐसा जानता है उसका आवरण और विक्षेप दूर हो जाता है । जैसे जीव में आत्म ताव है । इसलिये वह भी शरीर घाला है ॥ ८ ॥ १३९ ॥


अथ मुण्डकोपनिषद् त्रितीय मुण्डक मंत्र ३
 यदापश्यः पश्यतेरु कपवर्णं कतरि ।

मोशं पुरुषं ब्रह्मयोनि तदा ॥

विान्पुण्य पापे विधूय निरंजन ।

परमं साम्यमुपैति ॥ ३ ॥ १४० ॥

जा सबका ईश्वर और दिश्ये गर्भका उत्पत्ति स्थान है
 उम स्वयं प्रकाश परम पुरुष को जब जीव स्वात्म भाव में मानता
 है तब वह पाप पुण्य में छूट कर निरंजन परम अद्वैत हर का
 प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ १४० ॥



मंत्र ५

वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास

योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वाः ॥

ते ब्रह्मलोकेषु पराम्त काले परामृताः ।

परि मुच्यन्ति सर्वे ॥ ५ ॥ १४१ ॥

जिनका मर्दा कर्मों के त्याग में शुद्ध अन्तःकरण हो चुका
 है और जो वेदान्त विचार में परि पक्व बुद्धि,वाले हैं वह सब
 जीवन मुक्त हैं ॥ ५ ॥ १४१ ॥

अर्धर्व वेदीय मु ढको पनिषद् द्वितीय मुंडक
यस्मिन्ग्रोः पृथिवी चान्तरीक्ष पोतं
मेवः सहप्राणैश्च सवैः ॥
तपे वैकं जानथ आत्मान मन्या वाचो ।
विमुञ्चथ अमृतस्यैव सेतुः ॥ ५ ॥

जिममें स्वर्ग पृथ्वी और प्रवेश प्राप्त हैं और मर्न करणों सहित जहां मन स्थित है वही एक आत्मा है । इस लिये साधन सहित सर्व कर्मों का त्याग करो ॥ ५ ॥



मनुस्मृति

वेद स्मृति सदाचार. स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

ऐतत् त्यक्तुं विध प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम् ॥१॥

वेदस्मृति तथा सदाचार जिनको प्रिय हैं वह धर्मात्मा है ॥१॥

वेधाद्वेधा भ्रमन्चके कान्ता सुकनकेशुच

तासु तेषु अना सक्त साक्षात्भर्गो निराकृति ॥

ब्रह्म ने संसार में दो चक्र धराये । एक श्री रूपो दूसरा
स्वर्ण मय । अतः श्री रूपी तथा स्वर्ण मय चक्र से रहित
व्यक्ति साक्षात्परम् पुरुष स्वरूप है ।

न बाह्य देवाचनं श्रुति ॥ -

बाहर देव पूजा नहीं होती मनमें ही होती है ।

विश्वेश्वरं स्तुसुधिया गलिं तेषि भेदे ।

भावेण भक्ति सहितने समर्पनीय ॥

प्राणेश्वर प्रियतमा मिलितेपि चित्ते ।

चैलान्च लप्य बह्निने निरपेक्षणीयाः ॥ १ ॥

अपने में और विश्वेश्वर में भेद नष्ट होने पर भी भक्ति भाव में ही पूजा करनी चाहिये । जैसे कि अपने प्रियतम प्राणेश्वर में चित्त मिल जाने पर भी स्त्री बस्त्र का आवरण करती हो है

नह्यं मयानि तीर्थानि नदेवा मृच्छिला मया ।

ते पुनन्तिर्युः कलिभै दर्शना देव साधवः ॥

जिमसे जलमय तीर्थ और शिलामय मुर्ति शुद्ध नहीं कर सकते वह माधु के दर्शन मात्र से शुद्ध हो जाता है ।

हे माद्रेतु गयारुह्य केदारेश्वर दशने ।

तस्मात् शत गुणं पूर्य काशी केदारदर्शनात् ॥

हिमालय की चोटी पर चढकर केदार नाथ के दर्शनों को अपेक्षा काशी में केदार नाथके दर्शनों का सौ गुणा फल है

आश्रमे यतिर्यस्य मुहुर्तमपि तिष्ठते ।

किंतस्थानेन शून्येन कृतकृत्योभि जायते ॥३॥

यदि घा मे क्षण भी यति ठहरा जाय तो उसके प्रभाव से वह स्थान कृत्य कृत्य हो जाता है ॥

संचितं यद्ग्रहस्थेन पाप भरणान्तिकं ।

सनिर्वहति तत्सर्वं एकरात्राश्रितोयति ॥

गृहस्थ ने मरण पर्यन्त जितना पाप संचित किया हो वह एक रात्रि यति के निवास से नष्ट हो जाता है ॥

संन्यासीनां च योधर्मो मन्मुखाच्च निशामय ।

दण्डग्रहेण मात्रेण नरोनारायणो भवेत् ॥

संन्यासियों का धर्म मेरे मुख से सुना । कि दण्ड मात्र धारण करने से नर नारायण हो जाता है ॥

संन्यासीनां पाद स्पर्शसिद्धपूता वंसुन्धरा ।

सद्यपुनातिर्यानैवैष्णवस्ययथा ब्रज ॥

संन्यासियों के पादस्पर्श से पृथ्वी शीघ्रही पवित्र हो जाती है । स्नान से तीर्थ जैसे ही पवित्र होजाने हैं जैसे वैष्णवभज से ॥

संन्यासीनां च रश्नेननिष्पापो जायतेन ।

संन्यासीनां भोजयित्वाश्चाश्चमेश फलं लभेत् ॥

संन्यासी के स्पर्श से मनुष्य निष्पाप हो जाता है, और संन्यासि के भोजन कराने से अश्वमेद यज्ञ का फल प्राप्त होता है ।

नत्वा च कामतो द्रष्टा राजसूर्यफलं लभेत् ।

फलं संन्यासीनां तुल्यं यतीनां ब्रह्मचारिणाम् ॥

संन्यासी को नमस्कार करने से राजसूर्य यज्ञ का फल मिलता है और संन्यासियों के बराबर ही यति ब्रह्मचारियों का भा फल है ।

संन्यासीवाति सायान्हे शुधितो गृहीणां गृहम् ।

सदन्नं वाक्दन्नं वादासं नैवं वर्जयेत् ॥

रात्रि में यदि भूखा संन्यासि घर में आ जाय तो रूखा सूखा जो कुछ हो उसे लिखाये बिना न जाने दे ॥

न याचते च मिष्टान्नं न कुर्यात्केपमेव च ।


न धनं गृहणं कुर्यात् कवासा निरोहतः चेष्टाविना ॥

न मिष्टान्न मांगे, न क्रोध करे, न धन लेना चाहिये केवल ईश्वर का ही स्मरण करे ॥

शीत शोष्य समानश्च लोभमोहविवर्जितः ।

तत्रस्थित्वैकान्तं च प्रातरन्यस्थलं व्रजेत् ॥

गर्मी मदी के समान माने एवं लोभ मोह का त्याग कर यहां एक रात्रि रह कर सुबह उठ कर दूसरी जगह चल दे ।



(ब्रह्मपुराण अध्याय ७)

यान मारोहणं कृत्वा गृहीत्वा गृहीणो धनम् ।

ग्रहं कृत्वा ग्रहोरभ्यात् च धर्मो पतितो भवेत् ॥

गृहस्थी का धन लेकर स्वामी में चढ़ने वाला, बढ़िया बंगले बनाकर रहने वाला पतित होता है ॥

देवतां प्रतिमात्रद्रष्ट्वा यतीन्द्रष्टैक दृष्टिद्वयम् ।

प्रणिपातप्रकुर्वाणो रौरवं नरकं व्रजेत् ॥

देव प्रतिमा तथा साधु को देख कर जो प्रणाम नहीं करता वह घोर नरक में गिरता है ॥

कुलं पत्नीं जननीं कृतार्था येषां कुलम् ।

संन्यसनात्त धेयम् ॥ ॥

उमका कुल पत्नी ही हो गया जननी कृतार्थ हो गई जिसके कुल में कोई संन्यासी नामधारी हो गया ॥

अन्यत्रेन्न शपेदो धर्मात्प्रेणावा चातिक्लिबिषपम् ।

तथापितं च फलति धर्मस्तंहंती तारद ॥

किसी को शाप देना नहीं । और न किसी से प्रेम वाणी में बातना उससे भी पाप लगता है, फिर भी धर्म फलना है अतः किसी का न देना शाप न आशिर्वाद देना ॥

मुण्डको पनिषद् प्रथम मुण्डकः दुसरा त्वंदे

तपःश्रद्धेः येषु प्रपन्नसत्परिण्येः शान्ता । ।

विद्वांसो भैक्ष्य चर्या चरन्तः ॥ १४१ ॥

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः ।

स पुरुषो हिर्व्ययात्मा ॥ १४२ ॥

जो पुरुष वागुस्थ आश्रम में स्थिर होकर वनमें एकान्त में रहता है अपने विदित धर्म एवं हिरण्यगर्भादिकों की वासना करता है तथा जो गृहस्थाश्रम में रहकर ही पराविद्या की उपासना करता है एवं जो संन्यासि भिक्षा-चरण मरके कर्मोपासना करते हैं वह उत्तरायण मार्ग से देवस्थान को प्राप्त होते हैं ।

संन्यास प्रकरण विद्वत् संन्यास

द्रव्यैर्न मम संबंधः इति निश्चित्य शीतलः ।

कश्चित्मं व्यवहारस्यः कश्चिद् ध्यान परायणः ॥ १४३ ॥

संसार के सभी दृश्यमान पदार्थों से मेरा सम्बन्ध नहीं है । इन प्रकार का जिसका हृद् निश्चय है 'वह चाहे किसी' समय व्यवहार परायण रहे या कभी ध्यान में रहे । उसके लिये सब समान है ॥ १४३ ॥


देहं ज्ञानेश्वर मवस्थितं मुत्पितंवा ।

सिद्धा नेपश्यति यतोध्यगुम् स्वरूपम् ॥

दैवा दुपेतम भदैववशां दुपते ।

वासो यथा परिहसं मदिरामदान्धः ॥ १४४ ॥

जैसे मदिरा के नशे में मत्त पुरुष अपने कटि धस्त्र के बारे में भी यह नहीं जानता कि वह वहाँ है या नहीं, उसी प्रकार यति पुरुष यह नहीं जानता कि वह यह भाँ नहीं जानता उसका नाशवान शरीर योगासन से ठठा हुआ है या स्थित है। दूसरी जगह गया है या वापस अपने स्थान पर आगया है। कारण वह अपने अभिन्न स्वरूप को प्राप्त हो गया है।



तत्त्वो नीचोऽङ्ग

धर्मो रक्षति रक्षितः ।

जो धर्म का रक्षा करता है उसको रक्षा छ्वाइ करता है ।

जान्वोर्ध्य मधोनाभे परिधायकमंजर ।

द्वितियं मुत्तरं वासः परिधाय शृहा तजोत् ॥ १४५ ॥

जानू के ऊपर नाभी के नीचे एक धस्त्र धारण करता एक उत्तरीय धस्त्र लेकर घर से निकल जाय ।

पित्ताटनं जर. शौचं, स्नानं, ध्यानं, सुरार्चनम् ।

कर्तव्यानि पढेतानी सर्वथा नृप दण्डवत् ॥ १४६ ॥

भित्ता वृत्ति, जप, शौच, स्नान, ध्यान और मुगर्चन ये छ
घातें राजाज्ञा के तुल्य अचश्य करनी चाहिये ।

एतानियति पात्राणि मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ॥१४७॥

यह यति कर्म मनु भगवान ने स्वयं कहे हैं ॥

अज्ञा युदारुपात्रां वा मृण्मयं वैणवं तथा ।

तुम्बा, लकड़ो, मिट्टी, या घास किसी एक का पात्र रखे ॥

रसायनं क्रिया वाद् ज्योतिषं क्रिय विक्रयं ।

विविधानि च शिल्पानि वर्जयेत् परदारवत् ॥१४८॥

रसायन, क्रिया, वाद, ज्योतिष, क्रय, विक्रय तथा अन्यान्य
शिल्प कलाओं को परदारों की तरह त्याग दे ।

ब्रह्मनास्ति तियो द्रुयात् द्वेष्टि ब्रह्म विचयः ।

अभूतं ब्रह्म वादीन त्रयस्ते ब्रह्म घातकाः ॥ १४९ ॥

जो ब्रह्म नहीं है ऐसा कहे तथा जो ब्रह्म वेत्ता में द्वेष करे
मन्त्र सम्बन्धों करे वह दोनों ब्रह्म घातक हैं ।

तिर्पानि तोष पूर्णानि देवान् पापाण मृण्मयात् ।

योगिनो न प्रपद्यन्ते आराम ज्ञान परायणः ॥ १५० ॥

तीर्थों के जल मिट्टी या पत्थर की देव प्रतिमाओं की शरणमें
योगी न हो क्योंकि यह स्वयं ब्रह्म परायण है ।

अग्निर्देवो विजातीनां मुनिनां हृदि दैवतां ।

प्रतिमा स्वरूप बुद्धिनां सर्वत्र विद्धितात्मनाम् ॥१५१॥

अन्य जातियों का देव अग्नि है । मुनियों का देवता हृदय में है । स्वरूप बुद्धि वालों के लिये प्रतिमा में तथा परिपक्व बुद्धि वालों का देव सर्वत्र है ।

सर्वत्रा वस्थितं शान्तं न प्रपद्ये जनादन ।

ज्ञान चक्षुर्विहीनत्वादंध सूर्यमिवोदितम् ॥१५२॥

जिस प्रकार अंधा आदमी उदय होते सूर्य को नहीं देखता उसी प्रकार ज्ञान चक्षु से रहित पुरुष सर्व प्रेरक सर्व व्यापक ईश्वर को नहीं देखता ॥

कुटुम्बं पूत्रादारांश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः ॥

यज्ञं यज्ञोपविशं च त्यक्त्वा गूढवरेण्युपनत्सुजानीः १५३

कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री, डोर सब वेदाङ्गों को यज्ञ और यज्ञोपवीत को छोड़ मुनी को गृह त्याग चाहिये ।

जानन्नपि च मेधावी जटवन्लोक माचरेत् ॥१५४॥

बुद्धिमान् जानने के लिये भी लोक में मूर्ख की तरह आचरण करे ॥

अशवाया विपासे प्राणस्य शोक मूर्धा ।

मनसो जरा मरणे शरीरस्य ॥ १५५ ॥

खाना पीना यह प्राण का धर्म है शोक मोह मनके और
दृढावस्था और मरण यह शरीर के धर्म हैं ॥

न चे मान च मौनं च सहितौ वसतः सदाः

अथमानस्यविषयोत्तरयोद्वे दौनस्यं तद्विदुः ॥१५६॥

मान आर मौन एक जगह नहीं रहते, क्यों कि मान लोक
का विषय है और मौन परलोक को है विषय संस्वप्ता
ऐसा कहते हैं ॥ १५६ ॥

आहोमानार्थं वासान्साचापिपरिपंथिनी ॥

ब्राह्मी श्री सद्गुभाः श्रीर्हिप्रज्ञाः ही निनक्षत्रियः १५७

हे त्रिये ! लक्ष्मी के महवाम में सुख होता है तथा मान
मिलता है लेकिन वह लक्ष्मी परलोक का नाश करने वाली है
तथा ब्राह्मी लक्ष्मी अज्ञानी को मिलनी कठिन है ॥ १५७॥

इमम् गुहा समाहार मन्मत्त्वेन्येनपश्यत ।

अतः शितलताया सौसमाधिरिति कथ्यते ॥१५८॥

इम गुफा समुदाय को अनात्म भाव में देखने वाले अन्दर
को शितलता को समाधि करते हैं ॥ १५८ ॥

जलस्पचलनादेव चंचलत्वेयथारवेः

तथाहंकार संसारा देव संसार आत्मनः

तस्मादन्यगतावर्णा आद्यमा अपि केशव ।

आत्मन्यसिपिताएवभ्रात्या तेनात्मवेदिनः १५९

जल की चंचलता स जैसे सूर्य की चंचलता दिखायी देती है वैसे ही सम्पूर्ण संसार अहंकार का विषय है अतः हमका तादात्मा ध्याम से आत्मा मिथ्या भावता है ॥ १५९ ॥

वासनाक्षय विज्ञानमनो नाशोमहामते ।

समकाल चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदाइमे ॥१६०॥

हे महामते ! वासना क्षय, मनोनाश के पश्चात् तब ज्ञान दीर्घ काल पर्यन्त सेवन करने से वह फल दाता होता है ॥१६०॥

तिर्थेश्वयचग्रहे शनष्टस्मृतिरपित्यजेत् देहं ज्ञान ।

समकालयुक्तः कैवल्मां यातिहत शोकः ॥१६१॥

मरण के समय जिस पुरुष को स्वरूप विस्मरण हो जाता है ऐसा पुरुष कभी तीर्थ में स्वपच के घर खाता हो यदि उसे ज्ञान हो गया तो वह मुक्त तत्काल हो जाता है ॥ १६१ ॥

तस्माद्राधवयत्नेनौरुपेणविवेकिना ।

भोगेच्छांदूरतस्यकात्रयमेतत्स श्रयेत् ॥१६२॥

हे राम ! इसलिये विवेकी पुरुष को प्रयत्न पूर्वक भोगेच्छा का सर्वथा त्याग करके तत्पज्ञान, वासनाक्षय, मनोनाश इन तीनों का आश्रय लेना चाहिये ॥१६२॥

प्रारब्धकर्म वेगेन जीवन्मुक्तो यदाभवेत् ।

कंचित्काल मथारब्धकर्म बंधस्य संक्षय ॥

निरस्तातिशयानंदं वैष्णवं परमं पदं ।

पुनरावृत्ति रहितं कैवल्यं प्रतिपद्यते ॥१६३॥

अधिकारी पुरुष जब जीवन मुक्त होता है । तो प्रारब्ध कर्म वेग का नाश करके आनन्द का अन्तिम स्थिति पुनरावर्तन रहित वैष्णव परम पद को प्राप्त होता है ॥१६३॥

यचिनिद्राजितश्वासासंतुष्टा संतुष्टाः संतेन्द्रियाः ।

ज्योति पश्यतियूजिनातस्मे विद्यात्मने नमः॥ १६४॥

निद्रा तथा प्राण को जीतने वाला संतोषी और इन्द्रियों का संयमन करने वाला योगी ही ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात् रूप से देखता है ॥१६४॥

रागोर्लिंगय घोघस्यधिराव्यायामभूमिपुः ।

कुत शाद्लनातस्यायस्याग्निकांटरैतरो ॥१६५॥

चित्त रूपी व्यद्वयाम भूमि में राग अज्ञान का चिन्ह है । भला जिम पृष्ठ की कांटर में हरषक आग जलती है उसमें गोलापना आयेगा कहां से ॥१६५॥

सपरि करेयर्चस्केदोपतचावधारित ॥

यदिदोषं वदेतस्मैकिनत्रो चरितु भवेत् ॥१६६॥

नद्वन्स्थूले तथा सूक्ष्मेदेहेत्याकृतेचिवेकतः ।

यदिदोष वदेताभ्यां कितत्रविदुषो भवेत् ॥१६७॥

शोक हर्ष, भय, क्रोध, लोभे मोह स्पृहा यय ।

अहकारस्य द्रश्यन्ते जन्म मृत्युश्चनात्मन ॥१६८॥

मल! मूत्रादिक जा मनुष्य के दोष रूप निश्चय किये है उनके विषय में जो कोई दाँपा को कर्मन कर ता उसमें विष्टादिक त्याग करने वाले की क्या हानि इसा प्रकार स्थूल दृष्टि द्वारा सूक्ष्म का त्याग करने के बाद यह दोनो शरीर में नहीं बच दृढ़ हाने के बाद इन दोनो शरीर को दोषशुक्त देखे तो विद्वान का इसमें क्या हाना । शोक, हर्ष, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा, आदि तथा जन्म मृत्यु और अहकार के विषय में प्रताति हाता है यह आत्मा का धर्म नहीं ॥१६६॥ ॥१६७॥ ॥१६८॥

यन्नन्दयायदिजन पर्मतोप येति नन्व प्रयन्त सुलभो ।

यमनुग्रहोमे श्रेयोर्यिनोहि पुरुषा परितुष्टि प्रीतीयोग ॥

जो कोई पुरुष मेरी निन्दा से ही सतोष प्राप्त करता हो तो बिना परिश्रम के मेरे ऊपर एक आदमी की बड़ी भारी कृपा हुई ।

नित्यकर्म परित्यज्य चेदांत श्रवणं विना ।

वर्षामानस्तु सत्यासौ त्तयेव न सशय ॥

वेदान्त प्रवण विना नित्य कर्म छोड़ देने से संन्यासी होने पर भी निसर्देह मनुष्य पतित हो जाता है ।

अथ संन्यास प्रकरण

१०० मुख जाना मयां धर्मो यद्विष्णोर्लिंग धारणम् ।

बाहु जातोरुजातानाम् नायं धर्मः प्रशस्यते ॥ १६४ ॥

मुख से उत्पन्न ब्राह्मणों का यह धर्म है कि वह संन्यास ले ।
 शैश्य और क्षत्रियका यह धर्म है कि वह संन्यास न ले ॥

जिताहारोयवा वृध्धो विरक्तो व्याधितोऽपिवा ।

यतिर्नगच्छेत् देवं यत्र स्यात्प्रतिमास्त्रियः ॥ १६५ ॥

जिमने अहार को जीत लिया हो पेसा बुद्ध, यति भी विरक्त
 अथवा पीड़ित हो जिस मन्दिर में स्त्री की प्रतिमा हो वहां
 न जाय ॥

परिचित देशं चाण्डालात् पादिकावत्

परित्यजेत् ॥ श्रुति ॥ १६६ ॥

परिचित देश को चाण्डालकी शगिया की तरह त्याग दे ॥

पतं स्पेब ध्रुवं भिक्षुपत्न्याः भिक्षोर्द्वयं प्रवेत् ॥

श्री पूर्व करते उत्सर्गोद्वय संग्रह एवच ॥ १६७ ॥

जिस भिक्षुकी दो भित्तायें हो जाती हैं वह अवश्य पतित होता है । एक तो बुद्धि पूर्वक कीर्त्य नारा, तथा दूसरी द्रव्य समूह से ॥

शिखा सूत्र परित्यागी वेदान्त श्रवणं विना ।

विद्यमानेपि संन्यासे पतत्येव न सशय ॥ १५८ ॥

वेदान्त श्रवण विना शिखा सूत्र परित्यागा संन्यासी आश्रम में रहने वाला पतित ही है इसमें संशय नहीं ।

यस्याभिमानं मोक्षेपि देहेपि ममता तथा ।

न वा ज्ञानी न वा योगी केवलं दुःख भागसौ ॥ १६६ ॥

जिसको मोक्षका अभिमान हो और मोह में ममता हा न वह ज्ञानी है न वह योगी है केवल दुःख भागी ही है ॥

प्रभव सर्वं दुःखानामाश्रयं सकला पदाम् ।

आलयं सर्वं पापानां संसारं वर्जयेत्प्रिये ॥ १७० ॥

हे प्रिये ! सर्वं दुःख प्रदाता सब आपदाओं के स्थान एवं पापों के पर इस संसार को त्यागो ॥ १७० ॥

अश्वात्तं गवात्तं संन्यासं पलपेत्रिकम् ।

देवरश्च सुतोत्पत्तिकली पंच विवर्जयेत् ॥ १७१ ॥

अश्वमेध, विवाह के समय बरका गौ चर्म पर बैठना, संन्यास, तथा मांससे पिंडदान, और देवर से सुतोत्पत्ति करना कलियुग में यह पांचो बातें विवर्जित हैं ॥ १७१ ॥

एक कालं चरेत् भैक्ष्यं न प्रसज्जेत विस्तरे ।

भिक्षायां प्रसक्तोर्हि विषयश्चापि सज्जति ॥ १७२ ॥

एक काल भिक्षा करे विस्तर पर न सोवे भिक्षा से सन्न होना भी विषयासक्ति कराता है ॥ १७२ ॥

घृणाम् शंका भयम् लज्जां जुगुप्सां चेति पंचमी ।

दुलं जातिश्चमानं च अष्टाश इति स्मृता ॥ १७३ ॥

घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुंल, और जातिका अभिमान इन आठों को आठ पाश समझो ॥ १७३ ॥

सन्य सन्तं द्विजं द्रष्ट्वा स्थानात् चलति भास्कर ।

एपमे मंडलं भित्वा ब्रह्म लोके प्रयास्तति ॥ १७४ ॥

संन्यास लिये ब्राह्मणको देख कर सूर्य अपने स्थान से चलित होता है. कारण कि यह ब्राह्मण हमारे लोक को भेद कर ब्रह्म लोक में जायगा ॥

द्वानिर्मां पुरुषां राजन् सूर्यमंडलं त्रेदिनं ।

परिघाट योग युक्तस्य युध्ये पोभिस्तुखाहतो ॥ १७५ ॥

याग युक्त पवित्राजक आर रणमें मरा क्षत्रिय हे राजन । यह दोनों सूर्य मंडलको भेद कर जाते हैं ॥ १७५ ॥

यति निद्राजित श्वासा संतुष्टा संयतेंद्रिया ।

उपोतिं पश्यतिषुं जीनास्तस्मै विद्यात्मनेनम ॥१७६॥

निद्रा तथा प्राणका जीतने वाले मन्तुष्ट, जितेन्द्रिय जो योगी आत्म साक्षात् करता है उस विद्या स्वरूप आत्मा को नमस्कार है ॥ १७६ ॥

अथ यति पूजा महात्म्य

एकदशो त्रिदण्डि वा शिखी मु ण्डि तथैव च ।

कापाय मात्र धरोऽप्यिति पूज्यो युधिष्ठिरेति ॥ १ ॥

एक दण्डो त्रिदण्डो अथवा शिखी मुण्डित, हे युधिष्ठिर । कापाय वस्त्र धारी कोई भी हो वह पूज्य है ॥ १ ॥

अत्रि चतुर्विधो भिक्षुक स्यात् कुटीचक ।

बहुदकौ हस परमहसस्य यो य पश्चात् सउत्तमः ॥२॥

अत्रि कहते है कि चार प्रकारके भिक्षुक होते हैं १—कुटीचक २—बहुदक ३—हस—४—परमहंस । इनमें पिछला भिक्षुक सबस अच्छा है ॥ २ ॥

भिक्षाकाफल—ब्रह्मचारी सहस्र च वानमस्थ शतानि च ब्राह्मणानान्तु कोट्यास्तु यतिरेको विशिष्य ॥३॥

सहस्रो ब्रह्मचारी सैकड़ों बानप्रस्था करोड़ों ब्राह्मणों से एक यति विशेष महत्त्व रखता है ॥ ३ ॥

साक्षाद्विष्णो कृतिविप्रौ नमस्योऽयं सुरासुरैः ।

वर्णाश्रमैः समस्तैय परम् हंसो द्विजोत्तमः ॥ ४ ॥

ब्रह्मण साक्षात् विष्णु स्वरूप हैं उनकी सुर असुर, सब वन्दना करते हैं तथा हे द्विजोत्तम ! उन्ही प्रकार सब आश्रमों में परम हंस संन्यास उत्तम है ।

द्वेरूपे वासुदेवस्य चलञ्चलमैव च ।

चलं सन्यासो नो रूपमचलं प्रतिमादिकं ॥ ५ ॥

भगवान् विष्णुकें चल अचल दा स्वरूप हैं, चल संन्यासी रूप और अचल प्रतिमादिक हैं ॥ ५ ॥

विष्णुं लिङ्गं धितं विप्रं द्रष्ट्वा चैवं नरार्थमाः ।

स्थिता शय्यासने यावेनं त्यजन्ति विमोहिता ॥ ६ ॥

विष्णुलिङ्ग (दण्ड) को देख कर जो नीच स्व आसन शैया नहीं त्यागता वह नष्ट होता है ॥ ६ ॥

अभ्युत्थानं नमस्कारं प्रसन्नं वदनादिकं ।

कर्मणा मनसा वाचा येन कुर्वन्ति सत् क्रियाम् ॥ ७ ॥

और दण्ड कर अभ्युत्थान नमस्कार फायिक, वाचिक, मानसिक प्रसन्न मुख जो सत्कार नहीं करते ॥ ७ ॥

सदाचार परिभ्रष्टास्ते पापायान्त्यधोगतिम् ॥ ८ ॥

सदाचर से परिभ्रष्ट वे पापी अधोगति को प्राप्त होते हैं ॥८॥

स्मृतिनारायणीं हन्ति प्राणीनां पाप संचयन् ।

अष्टाक्षरेण मन्त्रेणनमो नारायणात्मना ॥ ९ ॥

नारायणी स्तुति प्राणियों के संचित पाप नष्ट करती है
अष्टाक्षर मंत्र ॐ नमो नारायणे से ॥९॥

आसनं शयनं यानं यतिदृष्ट्वा न यस्त्यजेत् ।

समृतोऽपि हि दुष्टात्माऽयोनावेवजायते (जावालस्मृति) ॥ १० ॥

आसन, शैया, वाहन यति को देखकर जो नहीं छोड़ता वह
दुष्टात्मा निःसन्देह मरने के बाद कुत्ते की योनो में जाता है ॥ १० ॥

यतिभ्यः श्रद्धयादद्याद्भिक्तां पात्रप्रपूर्णीम् ।

नक्षीयते च तत्तस्य बन्धकोटि शतैरपि ॥ ११ ॥

श्रद्धा पूर्वक भक्ति का भिक्षा पात्र पूर्ण कर देना चाहिये ।
उसका फल काटि कल्पों तक भा क्षीण नहीं हाना है ॥११॥

भिक्षा काले यतिर्यस्यं गृहं प्रापायेदाभवेत् ।

देयाः सर्वे रसास्तरुर्मा आत्मनः शुभ मिच्छता ॥ १२ ॥

यदि अकाल संन्यासि घर पहुंच जाय तो कल्याणकाम्ना
को चाहिये वह उन्हें सर्व प्रकार संतुष्ट करे ॥ १२ ॥

पूरयित्वा हविष्येण यतये यः प्रयच्छति ।

सपित्रिन् तारयेत् पूर्वानपिये नरकाश्रितः ॥१३॥

जो यति को हविष्य भोजन कराता है वह अपने पूर्व पितरों को और भी नरक में गये हुए पितरों का उद्धार करता है ॥१३॥

यावन्ति यति पात्राणि यावच्चान्नं प्रयच्छति ।

ताववर्षं सहस्राणि स्वर्गे लोके महादते ॥ १४ ॥

जितने यति पात्र हैं और जय तक अन्न दिया जाता है उनसे सहस्र वर्ष स्वर्ग में कीर्ति प्राप्त करना है ॥ १४ ॥

न क्रिया गोत्र माचारं शौचा शौचं शुभा शुभम् ।

पृच्छेन्माधुकर्याते कुलंशीलं श्रुतंयतेः ॥ १५ ॥

क्रिया, गोत्र, आचार, शौच, अशौच, शुभ, अशुभ, कुल, शील आदि मधुकरा लेने वाले से न पूछे ॥ १५ ॥

अदुष्टा पतितं विप्रंवर्तियः परिवर्जयेत् ।

सतस्य सुकृतं दत्त्वा दुष्कृतं प्रतिपद्यते ॥ १६ ॥

जो ब्राह्मण अदुष्ट हुआ हो यदि वह यति को छोड़ दे, वह अपने सुकृत देकर दुष्कृत लेता है ॥ १६ ॥

तथैव च गृहस्थस्य निराशो भित्तुको व्रजेत् ।

इष्टं दत्त्वा तमाधीतं सर्वं मादाय गच्छति ॥ १७ ॥

इसी प्रकार गृहस्थ क घर से यदि भिक्षु निकल लौट जाय तो वह उसकी तृपत्या और विद्या ले जाता है ॥ १७ ॥

दतिर्यस्य गृहे भुंक्ते तस्य मुक्ते स्वयं हरी ।

हरीर्यस्य गृहे भुंक्ते तस्य भुंक्ते जगत्रयं ॥ १८ ॥

जिसके घर यति भोजन करता है उसके यही स्वयं हरी भोजन करते हैं, जिसके घर हरी भोजन करते हैं उसके यहा तीनो लोक भोजन करते हैं ॥ १८ ॥

बटोनु शत दत्तं स्यात् गृहस्थेद्विगुणं स्मृतम् ।

वान् प्रस्थे शत गुणं यतौदत्तमनन्तकम् ॥ १९ ॥

ब्रह्मचारी को दान देने का सौ गुणा फल, गृहस्थ का देने से द्विगुण वान प्रस्थ को शत गुणा और यति का देने में अनन्त फल प्राप्त होता है ॥ १९ ॥

कुर्यादां बसथ यस्तु दद्यात् यतयोऽपि वा ।

ज्ञानी नेतु विशेपेण सयाति ब्रह्मण पदम् ॥ २० ॥

जो दान दे तो यतिको दे उनमें भी ब्रह्म ज्ञानी को इससे ज्ञान को ब्रह्म पद मिलता है ॥ २० ॥

यतिः हस्ते जलं दद्यात् भिक्षां दद्यात् पुनर्जलं ।

तद्द्वयैश्च मेरुणा तु न्यत्र त्रज्जर्णं सागरोपमम् ॥ २१ ॥

यति के हाथ में जल दे फिर भिक्षा. एवं पुनः जल दे वह
चा मेरुके समान एवं जल सागर के तुल्य बढ़ता है ॥ २१ ॥

चतुर्मास्यं यतो नानुयः कारयति धर्मवित् ।

सयात्येहिकमैश्वर्यं मामृष्टिकं सुख महत् ॥ २२ ॥

जा धर्मज्ञ यतियों का चातुर्मास्य करवाना है वह इस लोक
सुख प्राप्त कर परलोक में सुख पाता है ॥ २२ ॥

क्षां सत्कृत्य योश्चात् विष्णुरूपाय भिक्षवे ।

त्स्नांवा पृथिवि दद्यात्ते नतु न्यनप्तफलं ॥ २३ ॥

सत्कार पूर्वक विष्णु रूप भिक्षुक के लिये जो भिक्षा देता है,
पूर्ण पृथ्वी का दान भी उसके तुल्य नहीं होता ॥ २३ ॥

वैषामपरा धानां यति निन्दां गरीयसी ।

तिनारायणः साक्षात् तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ २४ ॥

सम अपराधों में यति निन्दा का अपराध बड़ा है क्योंकि
ति साक्षात् नारायण है अतः उनको बुराई त्याग दे ॥ २४ ॥



(शिवे चोक्त्वे स्कन्द पुराणे)

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ससाध्या मरुतस्तथा ।

सकृद्भूक्तेन यतिना पितृदेवाः सर्वासवाः ॥२७॥

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, समस्त, पितृ देवता इन्द्र सहित यति को खिलाने से वृत्त होते हैं ॥ २७ ॥

सर्वेते तृप्तिमायान्तु दश वर्षाणि पञ्चच ।

जन्मयोनि सहस्रेषु पूजितस्तेन शङ्करः ॥ २८ ॥

और वह सब १५ वर्ष तक वृत्त रहते हैं, और उसने फोटि सहस्र वर्षों शंकर पूजने का फल प्राप्त कर लिया ॥ २८ ॥

अपमाने च वृते तेषां देवाः सर्वेऽपमानिता ।

सदोषनिर्गुणं वापि यतिं क्वापि न कीर्तयेत् ॥ २९ ॥

यति के अपमान से सर्वा देवताओं का अपमान होता है । यति निर्गुण हो यां सगुण उसका कहीं बखान न करे ॥

अज्ञानात्कीर्तयेद् यस्तु सं याति नरकं ध्रुवम् ॥ ३० ॥

यदि अज्ञान से भी कहीं धुराई करदी ता वह निश्चय ही नरक गामी होता है ॥ ३० ॥

येनमन्ति यतिं दूराद् दृष्ट्वा कापाय वासर्न ।

राज सूय फलावाप्ति स्तेषां भवति पुत्रकाः ॥ ३१ ॥

जो कापाय वस्त्र देखकर दूर से ही यति को नयन करते हैं, वह राज सूय, यज्ञका फल प्राप्त करते हैं ॥ ३१ ॥

कौपीनाच्छादनं दण्डं वहिपसिश्च पादुके ।

यो ददाति यथा शक्त्या पूण्य तस्य न दाम्पहम् ॥

दशबाजी सहस्रन्तु मातृज्ञानां शतत्रयं गोयुतस्य ।

सहस्रस्य फल प्राप्नोति मानवाः ॥ ३२ ॥

जो यति का कौपीन, वस्त्र, दण्ड, उत्तरीय, और खड़ाऊ यथा शक्ति देता है, उसका फल कहता हूँ। वह व्यक्ति दश हजार घोड़ों तीन सौ हाथी, चार सौ गऊ दानका फल पाता है ॥ ३२ ॥

कौपीनाच्छादन पात्रं भिक्षुवे यः प्रयेच्छति ।

वानपेय समं पुण्यं विष्णु मुदिष्य यत्कृतम् ॥ ३३ ॥

कौपीन, वस्त्र और पात्र जो भिक्षुक को देता है, विष्णु को अर्पण कर याजपेय यज्ञका फल उसे मिलता है ॥ ३३ ॥

यतेर्दर्शन मात्रेण विमुक्त सर्व पापकाव ।

तीर्थ व्रतं तपोदान सर्वयज्ञ फलं लभेत् ॥ ३४ ॥

यति के दर्शन मात्र से ही सर्व पातक नष्ट हो जाते हैं सर्व तीर्था, यज्ञ, व्रत, तप, दान आदि सबका फल मिलतो है ३४ ॥

निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शिनम् ।

अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूजयेत्यांग्ररेणुभिः ॥ ३५ ॥

निर्पक्ष, शान्त, निर्वैर समदर्शि! मुनि को प्रसन्न करने के लिये उसकी चरण रज लेनी और पूजा करना चाहिये ॥ ३५ ॥

दुर्वृत्तो वासु वृत्तो वा मूर्खो वा पण्डितोऽपि वा ।

वेष मात्रेण संन्यासी पूज्यः सर्वेश्वरो यथा ॥ ३६ ॥

दुष्ट हो, या सज्जन, सदाचारो या व्यभिचारी मूर्ख हो या पण्डित संन्यासि वेष धरण मात्र से भगवान की तरह पूज्य है ॥ ३६ ॥

शुद्ध हस्तेन योऽश्नीयात् पानीयं न पिबेत् यदि ।

अहो रात्रोपितो भूत्वा पादो पंचगव्येण शुद्धपि ॥ ३७ ॥

जिसने शुद्धके हाथका खालिया हो या पानी पीलिया हो वह एक दिन रात्रि व्रत कर पंच गव्य पीने से शुद्ध हो जाता है ॥ ३७ ॥

मानस नाचिकं; पापं; कायेनैव; त्यक्तम् ।

तत्सर्वं नश्यते तूर्णं प्राणायाम त्रयेकृते ॥ ३८ ॥

कायिक वाचिक, मानसिक पाप अज्ञान से हो जाय तो तीन बार प्राणायाम से वह नष्ट हो जाता है ॥ ३८ ॥

चान्द्रायणन्तु सर्वेषां पापानां पावनं परम् ।

कृत्वा शुद्धिं मवाप्नोति परमं स्थान मेवच ॥ ३९ ॥

चान्द्रायणन्तु अतः सर्व पापों को नष्ट करने वाला है जिसके करने से पाप शुद्धि एवं परमपद प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥

न भिक्षायां भवे दोषो न हि भिक्षा प्रतिग्रहा ।

सोमयानं समाभिक्षा तस्मा दहरहञ्चरेत् ॥ ४० ॥

भिक्षा लेने में न तो दोष और न भिक्षा प्रतिग्रह अपितु भिक्षा मोक्षदान के मन्त्र है इस लिये निशि दिन भिक्षा चरणा करे ॥ ४० ॥

हविः प्राश्यतथा चम्य विराहारो भवेत् गृहो ।

प्राश्या चम्य तथापित्तुः निरा हारो गृहे गृहे ॥ ४१ ॥

जिम प्रकार हवि प्राशन होता है उसी प्रकार भिक्षा को सम-कना । निराहार ही भिक्षा देने वाला हो एवं निराहार भिक्षा लेने वाला हो भिक्षा का प्राशन करने से यह घर निराहारी ही है ॥ ४१ ॥

ध्यान मर्ध्यं च शुद्धं सं वेदनत्मकम् ।

ध्यान सं वेदनं पूष्यं सर्वं ध्यान परं विदुः ॥५०॥

जिस प्रकार तिलों में तैल, दही में घी, श्रोन में जल एवं अरणी में जिस प्रकार अग्नि है इसी प्रकार शरीर में आला है तप के द्वारा प्रगट करनी चाहिये ॥ ५० ॥

पिनाते भे तरेणाय मात्मा लभ्यत एव नो ।

ध्याना प्रसाद मायाति सर्वं भागे सुखश्रियः ॥५१॥

सर्व व्याप्य आत्मा को शरीर में घी की तरह कल्पित माना गया है ॥ ५१ ॥

अयमात्मा मुने भुक्ते देह रूपो ब्रहे यथा ।

ध्यानेना नेन सुमते निमेषां स्तुत्र योदश ॥

मृदोपि पूजयित्वेपं गो प्रदान फलं लभते ।

पूजयित्वा निमेषाणां शतमेक मिति प्रभुम् ॥५२॥

आत्म विद्या को तपका कारण माना गया है वही परम ब्रह्म है वही परंतु हन है ॥ ५२ ॥

अश्व मेघस्य यज्ञस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ।

पूजयित्वा स्वमात्मानं घटिकार्धं मितिप्रभुम् ॥५३॥

आर्घ्य घड़ों भी ब्रह्मा पूर्वक प्रभू की पूजा की जाय तो उसका अन्वय यज्ञका फल होता है ॥

स्वदेहरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ।
 ध्यानं निर्मयं नाभ्यासादेवं पश्येन्नगूढवत् ॥१४॥
 तिलेषु तैलं दधिनीव सपिनापः श्रोतरस्तै ।
 रणीषु चाग्निः एवरेमानि गृह्यतेऽसौ
 सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥ १५ ॥
 सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिंरिवपितम् ।
 आत्मविद्या तपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परं
 'तद्ब्रह्मो'पनीपत्पर मिति ॥ १६ ॥ श्वेताश्व०

प्राचीन समय के अग्नि होत्री यत्र हवनादि पवित्र क्रियाओं के लिये अग्नि प्रज्वलित क्रिया करते थे ता वे आज को भां त अग्नि या दिया संलाई आदि आधुनिक साधनों का उपयोग न करके लकड़ी से ही लकड़ी का संघर्ष करके अग्नि उत्पन्न किया करते थे । आज भी कुछ अग्नि होत्री यत्र तत्र पाये जाते हैं । इस प्रकार अग्नि प्रज्वलित करने का यह मूल विधान है । जिन दो लकड़ियों का परस्पर संघर्ष होता है उनमें से नीचे वाली लकड़ी को अरणी और ऊपर वाली को उत्तराणी कहा जाता है । उक्त उपनिषत् के श्लोक १४ का आशय इस प्रकार है, मुमुक्षु के लिये यह आवश्यक है कि—यह आत्म दर्शन करे आल दर्शन की विधि इस प्रकार कही गई है । अपने

गंगा वा सलिनं पुण्यं शालीग्राम-शिला तथा ।

भिक्षाऽन्नं पंचगव्यं च पवित्राणि युगे युगे ॥ ४१ ॥

गंगा का पवित्र जल, शालिग्राम की मूर्ति, भिक्षा का अन्न तथा पांच गव्य-सर्वदा युग-युग में पवित्र ही हैं ॥ ४१ ॥

याचिता याचिता-भ्यांच भिक्षाम्यां कल्पयेत्स्थितिम् ।

माधुकरं याचि तस्यात्प्राक् प्रणितमयाचितम् ॥ ४२ ॥

याचित और अयाचित २ प्रकार की भिक्षा होती है, १-याचित जो मांगने पर मिले अयाचित बिना मागे ॥ ४२ ॥

उपेवा-माधुकर पसं क्लृप्तं प्राक्प्रणीत मयाचितम् ।

तात्कालिकं चोपपन्नं भैक्ष पंचदिग्ं स्मृतम् ॥ ४३ ॥

उपना के मन स भिक्षा पांच प्रकार की है यथा:—माधुकर, असंक्लृप्त, प्राभ्युगीत, अयाचित, तात्कालिक ॥ ४३ ॥

मन-संकल्प रहितान्गृहां स्त्रोन्पञ्च सप्तवा ।

मधुवदा हरणं यत्तन्माधुकरं पित्तिस्मृतम् ॥ ४४ ॥

मन संकल्प रहित पांच या सात महो रो मधु की तरह उगे हैं, उन्हें मधुकर कहते हैं ॥ ४४ ॥

अयामोत्थाप नात्माक्य प्रथितिं भक्तिं संप्रुतैः ।

तन्प्राकप्रंणीत मित्याहु भगवानु शनामृतिः ॥ ४६ ॥

सोने से पहिले उठे भक्ति पुर्वक जाकर जो निमंत्रण दे और बाद में भोजन कराये उसे प्रात पुनीत कहते है ॥ ४६ ॥

भिक्षाटन समुद्योगात्प्रागे वापि निमन्त्रितं ।

अपाचितं तु तद्दैक्ष भोक्तव्यं प्रचुर ब्रवीत् ॥ ४७ ॥

भिक्षा करते हुवे भोगने से पूर्ण जो लिये खड़ा हो उसे अपाचित भिक्षा कहते हैं ॥ ४७ ॥

संन्यासी ब्रह्मचारी चयक्वान्नस्व ।

मिनाद्युभौ न वारे भमदत्वात्तु भुक्त्वाश्चांद्रायणंचरेत्

संन्यासी और ब्रह्मचारी को, दिये विना जो सज्जन भोजन कर लेंगे तो उन्हें पाप लगेगा और वह प्रायश्चित्त से शुद्ध होगा ॥ ४८ ॥

परमास्वाद युक्तेन सुक्तेन कुसुमेहितैः ।

ध्यानो पहारं एवात्मध्यानं ह्यस्यममोहितम् ॥ ४९ ॥

अपनी देह को अरणी तथा प्रणव को उत्तर अरणी ध्यानसे निर्मग्न करके अभ्यास के द्वारा धिपे हुवे देवको देखे ॥ ४९ ॥

शरीर अर्थात् देह की अरणी बनाया जाय और प्रणव के निर-
 तर जप को उत्तरारणी बनाया जाय और निरतर ध्यान रूपिणि
 मथन से आत्मदर्शन किया जाय यह १४ श्लोक का भावार्थ है ।
 कहने में और पढ़ने में यह विधि सरल प्रतीत होती है परन्तु
 इसका अभ्यास सहज नहीं है शरीर को अरणी बनाना और
 अग्नि प्रव्वलित करना यह सच मुच अग्नि परीक्षा है और इस
 परीक्षा में प्रथम तो साहस करना ही और फिर सफलता पूर्वक
 उत्तीर्ण होना यह साधारण साधक का कार्य नहीं है । इसका
 फल भी साधारण नहीं है, परन्तु उसकी प्राप्ति के हेतु उक्त अग्नि
 परीक्षा में से सफलता पूर्वक उत्तीर्ण होना आवश्यक है । प्रणव
 का जप जिस अनरारणी की उपाधि दी गई है वह एक साधन
 मान है वह साधन इतना प्रभाव शाला अवश्य है कि कार्य-
 सिद्धि अवश्यभावी परिणाम है । परन्तु इस साधन को
 अपनाना मुमुक्षु क अभ्य रस साहस उत्कट इच्छा और दृढ़
 राकल्प पर निर्भर करता है । यदि यह हो तो शरीर रूपी
 अरणी और प्रणव जब रूपो उत्तरारणी वाले साधन लो सहज
 सुलभ तो है ही । मुमुक्षु के सामने सबसे बड़ी समस्या ब्रह्म
 साक्षात्कार की होती है । वह जप, तप, ध्यान समाधि आदि
 कई प्रकार कि क्रियायें इसी निमित्त किया करता है । श्लोक
 न० १५ में यह स्पष्ट बतलाया गया है कि जिस प्रकार तिल में
 तेल दधि में घी स्रोत में जल अरणी में अग्नि रहती है । ठीक

उसी प्रकार शरीर में ब्रह्म का अर्थात् आत्मा का निवास है जो जो वस्तु निरंतर साथ में वा पास में हो उसी के लिये इतनी दौड़ धूप या खोज इसी का नाम “कांख में छोरा और गांव में हेरा” इसी को लोग माया कहते हैं। यदि यह आवरण दूर हो जाय तो फिर जो चीज पास में है उसकी खोज कैसी ? आगे चल कर १७ वें श्लोक में यही दर्शन पा गया है कि सर्व व्यापी आत्म जो सर्वत्र ठीक उसी प्रकार निवास करती है जैसे दूध में घी। उसका साक्षात् दर्शन करना तभी संभव है जब कि असत् अर्थात् माया रूपी आवरण को सत्य रूपी तप से दूर कर दिया जाय। इसी साधना को आत्म विद्या या ब्रह्म कहा गया है, और इसी का नाम ब्रह्म साक्षात्कार है।

